



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-08022025-260830
CG-DL-W-08022025-260830

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 06] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 8—फरवरी 14, 2025 (माघ 19, 1946)

No. 06] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 8—FEBRUARY 14, 2025 (MAGHA 19, 1946)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Railways and by attached and Subordinate Offices of the Government of India]

गृह मंत्रालय
(महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल)

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 2025

सं. ओ.दो-3783/2025-कार्मिक-डी.ए.-1—भारत सरकार ने गृह मंत्रालय के पत्र संख्या आई-21019/04/2024-आई.पी.एस-तीन दिनांक 19/01/2025 के तहत श्री जी. पी. सिंह, भा0पु0से0 (ए0एम0:1991) को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में वेतन मैट्रिक्स लेवल 16 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनके अधिवर्षिता की तिथि दिनांक 30/11/2027 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया है।

02. तदनुसार, अधिकारी ने दिनांक 30/01/2025 (पूर्वाह्न) को महानिदेशक, के0रि0पु0बल का पदभार ग्रहण कर लिया है।

अनिल कुमार
उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

महानिदेशालय
(केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल)

नई दिल्ली-03, दिनांक 26 जून 2024

सं. ई-33013/तकनीकी त्यागपत्र-3/एच.बी./2024/कार्मिक.1/473—आईसीएआर एओ एवं एफएओ परीक्षा-2021 के आधार पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर चयनित होने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति, श्री हितेश बिजार्निया, सहायक कमान्डेंट/कार्य (परिविक्षा), केओसुब निसा हैदराबाद का के.ओ.सु.बल की सेवा से तकनीकी त्यागपत्र दिनांक 15.06.2024 (अपराहन) से सहर्ष स्वीकार करते हैं।

ह./— अपठनीय
महानिदेशक/केओसुब

सं. ई-33013/त्यागपत्र-4एवं5/एमएवंके/2024/कार्मिक.1/642—राष्ट्रपति, श्री मनोज कुमार, सहायक कमान्डेंट/कार्य, (परिविक्षा) केओसुब निसा हैदराबाद, का केओसुब सेवा से त्याग-पत्र उनके केओसुब से पदभार छोड़ने की वास्तविक तिथि से सहर्ष स्वीकार करते हैं। उन्होंने अपना सहायक कमान्डेंट/कार्य (केओसुब) का पदभार दिनांक 12.06.2024 (अपराहन) को छोड़ दिया है एवं उसी अनुसार उन्हें कार्य मुक्त कर दिया गया है।

ह./— अपठनीय
महानिदेशक/केओसुब

दिनांक 23 जुलाई 2024

सं. ई-33013/त्यागपत्र-02/टी.डब्ल्यू./2024/कार्मिक.1/737—राष्ट्रपति, श्री तपन वाधवा, उप कमान्डेंट/कार्य, (के.स.पु.ब-2013) केओसुब इकाई सीजीबीएस, नई दिल्ली का केओसुब सेवा से त्याग-पत्र दिनांक 01.07.2024 (पूर्वाहन) से सहर्ष स्वीकार करते हैं। तदनुसार उन्हें के.ओ.सु.बल की सेवा से 01.07.2024 (पूर्वाहन) से कार्य मुक्त किया गया है।

ह./— अपठनीय
महानिदेशक/केओसुब

दिनांक 5 अगस्त 2024

सं. ई-31013(2)/9/2023/कार्मिक-1/576—केओसुब के निम्नलिखित कमान्डेंट, जो कि वर्तमान में बी.सी.ए.एस. में प्रतिनियुक्ति पर है, को एतद्द्वारा 'अगले निचले नियम' के तहत वेतन मैट्रिक्स, स्तर-13, रुपये 1,23,100-2,15,900/- में उसके नाम के समक्ष अंकित तिथि से केओसुब में वरिष्ठ कमान्डेंट के पद में प्रोफार्मा पदोन्नति प्रदान की जाती है—

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम (श्री)	प्रतिनियुक्ति पर	वरिष्ठ कमान्डेंट के पद पर 'अगले निचले नियम' के तहत प्रोफार्मा पदोन्नति प्रदान की तिथि अर्थात पैनल में उनके तात्कालिक कनिष्ठ के पदोन्नति की तिथि
1.	इला चन्द्रा पाण्डे	बी.सी.ए.एस, नई दिल्ली	17.07.2024 (पूर्वाहन)

ह./— अपठनीय
महानिदेशक/केओसुब

दिनांक 27 अगस्त 2024

सं. ई-31013(1)/3/2023/कार्मिक-1/867—केओसुब के निम्नलिखित वरिष्ठ कमान्डेंट, जो कि वर्तमान में कैबिनेट सचिवालय, नई दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर हैं, को एतद्द्वारा 'अगले निचले नियम' के तहत वेतन मैट्रिक्स, स्तर-13-ए, रुपये 1,31,100-2,16,600/- में उसके नाम के समक्ष अंकित तिथि से केओसुब में उप महानिरीक्षक के पद में प्रोफार्मा पदोन्नति प्रदान की जाती है:—

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम (डॉ.)	प्रतिनियुक्ति पर	उप महानिरीक्षक के पद पर 'अगले निचले नियम' के तहत प्रोफार्मा पदोन्नति प्रदान की तिथि अर्थात पैनल में उनके तात्कालिक कनिष्ठ के पदोन्नति की तिथि
1.	आदित्य झा	कैबिनेट सचिवालय, नई दिल्ली	13.08.2024 (पूर्वाहन)

ह./— अपठनीय
महानिदेशक/केओसुब

दिनांक 11 सितम्बर 2024

सं. ई-33013/तक. त्यागपत्र/03 स.क.(डीए)/2024/कार्मिक.1/915—राष्ट्रपति, निम्नलिखित सहायक कमान्डेंट/कार्य(परिवीक्षा) केओसुब निसा हैदराबाद, का केओसुब सेवा से तकनीकी त्याग-पत्र तत्काल प्रभाव से सहर्ष स्वीकार करते हैं। उसी अनुसार उन्हें निम्नानुसार केओसुब की सेवा से कार्य मुक्त कर दिया गया है।

क्र. सं.	पद	नाम (श्री/मिस.)	केओसुब से कार्यमुक्त होने की तिथि
1.	स.क./कार्य(परि.)	नवनीत आनंद	22.08.2024 (अपराह्न)
2.	स.क./कार्य(परि.)	हर्षित श्रीवास्तवा	22.08.2024 (अपराह्न)
3.	स.क./कार्य(परि.)	तानीया मिश्रा	22.08.2024 (अपराह्न)

ह./— अपठनीय
महानिदेशक/केओसुब

दिनांक 21 अक्टूबर 2024

सं. ई-33013(1)/तकनीकी त्यागपत्र-1/एमएसएन/2023/कार्मिक.1/1041—निम्नलिखित अधिकारी को लीन की अवधि के दौरान उनके मूल विभाग में पूर्व पद पर प्रत्यावर्तन होने के फलस्वरूप उनके नाम के सामने दर्शायी गई तिथि से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (केओसुब) में फिर से शामिल होने पर बल की नफरी में लिया गया है:-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम (श्री)	केओसुब में धारित पद	पद व विभाग का नाम जहां से प्रत्यावर्तन किया गया है	सहायक कमान्डेंट/कार्य के पद पर केओसुब में फिर से शामिल होने पर बल की नफरी में लिए जाने की तारीख
01	मुड़े साई नाईक	सहायक कमान्डेंट/कार्य	पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, आंध्रप्रदेश सरकार में एम.पी.डी.ओ	07.10.2024 (पूर्वाह्न)

- प्राधिकार:-गृह मंत्रालय आईडी संख्या: 45012/15/2015/कार्मिक.1(3301081) दिनांक 12 अगस्त 2024

ह./— अपठनीय
महानिदेशक/केओसुब

दिनांक 18 दिसम्बर 2024

सं. ई-33013/तकनीकी त्यागपत्र-7/एस.के./2024/कार्मिक.1/1498—श्री शिवांश कांडपाल, सहायक कमान्डेंट/कार्य (परिवीक्षा), केओसुब निसा हैदराबाद का उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2021 के आधार पर सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी में चयन होने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति, उनका के.ओ.सु.बल की सेवा से तकनीकी त्यागपत्र दिनांक 10.11.2024 (अपराह्न) से सहर्ष स्वीकार करते हैं।

ह./— अपठनीय
महानिदेशक/केओसुब

कारपोरेट कार्य मंत्रालय
[त्वरित कॉर्पोरेट समापन प्रसंस्करण केंद्र (सी-पेस)]

प्रारूप संख्या एसटीके-6
सार्वजनिक सूचना

{कम्पनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्टर से कम्पनियों का नाम हटाना)

नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में}

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित कम्पनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 3 फरवरी 2025

सं. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/1751—

S No.	Work Item	CIN	Hindi Name
1	AB2308335	U72200AP2007PTC054576	मेडराइट आईटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
2	AB2274674	U65923AP2015PTC097821	एमएसएस बालाजी चिट फंड्स प्राइवेट लिमिटेड

S No.	Work Item	CIN	Hindi Name
3	AB2452666	U92400AP2015PTC096278	कोडाली एंटरटेनमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
4	AB2362272	U72900AP2019PTC111910	रेहान्सी इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड
5	AB2361497	U74999AP2018PTC108202	एबीडीजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
6	AB2460393	U01409AP2021PTC119579	सरीपुडी एग्रोफार्म्स एंड पोल्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड
7	AB2160472	U15140AP2022PTC123201	ईस्ट वेस्ट मरीन एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्टर से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

3. तदनुसार, कम्पनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्टर से हटाने का प्रस्ताव करता है।

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं।

हरिहर साहू
रजिस्ट्रार
प्रसंस्करण त्वरित कॉर्पोरेट निकास केंद्र

प्रारूप संख्या एसटीके-6
सार्वजनिक सूचना

{कम्पनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्टर से कम्पनियों का नाम हटाना)

नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में}

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित कम्पनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 3 फरवरी 2025

सं. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/1752—

S.No.	Work Item	CIN	Hindi Name
1	AB2394441	U24248AS2015OPC012001	युज्जना अगरबत्ती ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड
2	AB2373490	U72900AS2021PTC021416	माजुली टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
3	AB2370354	U37200AS2020PTC019917	हानप्रो इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
4	AB2246649	U65929AS2022PLN023421	जेएसवी निधि लिमिटेड
5	AB2447605	U72900AS2022PTC022624	लालबाँन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्टर से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

3. तदनुसार, कम्पनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्टर से हटाने का प्रस्ताव करता है।

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं।

हरिहर साहू
रजिस्ट्रार
प्रसंस्करण त्वरित कॉर्पोरेट निकास केंद्र

प्रारूप संख्या एसटीके-6

सार्वजनिक सूचना

{कम्पनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्टर से कम्पनियों का नाम हटाना)

नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में}

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित कम्पनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 3 फरवरी 2025

सं. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/1753—

S.No.	Work Item	CIN	Hindi Name
1	AB2301387	U01113BR2016PTC033067	गोल्डनफिश फार्म प्राइवेट लिमिटेड
2	AB2511290	U52190BR2020PTC046311	एबीएमलाइफ फॉरएवर प्राइवेट लिमिटेड
3	AB2513968	U51909BR2021PTC050556	एसआरके रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड
4	AB2361309	U85300BR2021PTC055158	बिगोहेल्थ मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड
5	AB2375649	U72900BR2021PTC055325	एयरिस्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
6	AB2524235	U01100BR2022PTC059748	एसएसएन फार्मकार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
7	AB2415256	U74999BR2022PTC060506	यूनिकस कंसल्टेंट्स टेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
8	AB2402212	U18202BR2022PTC060989	लूक्रेटिव टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड
9	AB2485891	U46411BR2023PTC063713	ज़िकी.कॉम प्राइवेट लिमिटेड
10	AB2532839	U92001BR2023OPC064399	प्रगतिराजस्पोर्ट इंडिया (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्टर से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

3. तदनुसार, कम्पनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्टर से हटाने का प्रस्ताव करता है।

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं।

हरिहर साहू

रजिस्ट्रार

प्रसंस्करण त्वरित कॉर्पोरेट निकास केंद्र

प्रारूप संख्या एसटीके-6

सार्वजनिक सूचना

{कम्पनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्टर से कम्पनियों का नाम हटाना)

नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में}

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित कम्पनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 3 फरवरी 2025

सं. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/1754—

S. No.	Work Item	CIN	Hindi Name
1	AB2438165	U72900CT2019PTC009669	इंडस्ट्रियल पर्ची इंटेलिजेंस प्राइवेट लिमिटेड

S. No.	Work Item	CIN	Hindi Name
2	AB2464237	U73100CT2020PTC011080	प्राइमापेक्स टेक्नोवेटर्स प्राइवेट लिमिटेड
3	AB2358549	U11100CT2022PTC012707	महानदी कंप्रेसड बायोगैस (सीबीजी) प्राइवेट लिमिटेड
4	AB2487851	U39000CT2024PTC016187	सियाधा सस्टेनेबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्ट्रार से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

3. तदनुसार, कम्पनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्ट्रार से हटाने का प्रस्ताव करता है।

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं।

हरिहर साहू
रजिस्ट्रार
प्रसंस्करण त्वरित कॉर्पोरेट निकास केंद्र

प्रारूप संख्या एसटीके-6

सार्वजनिक सूचना

{कम्पनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाना)

नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में}

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित कम्पनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 3 फरवरी 2025

सं. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/1755—

S. No.	Work Item	CIN	Hindi Name
1	AB2348895	U72100DL2018PTC336444	एडेलार इनसाइट्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
2	AB2468830	U74999DL2019PTC346240	वनकेव मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
3	AB2357664	U85100DL2002PTC117324	प्लग हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड
4	AB2223759	U72900DL2022PTC404468	वुप्पी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
5	AB2414180	U51909DL1976PTC008152	प्रीमियर ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
6	AB2410639	U74899DL1989PTC034966	ग्रूवी मोटेल प्राइवेट लिमिटेड
7	AB2447971	U55101DL1990PTC040701	वाटिका होम्स एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
8	AB2341536	U74899DL1992PTC048611	साक्षी ग्रेनाइट प्राइवेट लिमिटेड
9	AB2494209	U74899DL1993PTC052916	क्वालिटी वियर प्राइवेट लिमिटेड
10	AB2368473	U74899DL1995PTC073596	जे.डी. एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड
11	AB2354508	U63090DL1996PTC075095	गॉड गिफ्ट कार्गो प्राइवेट लिमिटेड
12	AB2177369	U51909DL1996PTC078841	गांड टोटल एनर्जी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
13	AB2473667	U70101DL1996PTC081414	संगमन कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड
14	AB2498757	U74899DL1996PTC081421	लक्ष्मी चैन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
15	AB2222787	U74899DL1995PLC073426	जे.एम.डी. प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
16	AB2453361	U17123DL1996PTC076195	जंभा स्पिनर्स प्राइवेट लिमिटेड
17	AB2422983	U74899DL1995PTC066839	रेनबो ट्रांसटेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

S. No.	Work Item	CIN	Hindi Name
18	AB2368374	U74899DL1995PTC070435	उजाला गैस एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
19	AB2422904	U63023DL1997PTC085100	मोर स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड
20	AB2430826	U74120DL1998PTC096339	ऑरिलिया इवेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
21	AB2304143	U60232DL1999PTC100019	एसईआर एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड
22	AB2374653	U00000DL2000PTC103268	एमकैन लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
23	AB2426269	U22122DL2003PTC120854	डायनामिक येलो पेजेस पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड
24	AB2465627	U80301DL2005PTC137226	आरएलएम हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
25	AB2476554	U51397DL2002PTC115876	ज़ैम्बॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
26	AB2481044	U72200DL2007PTC168360	कॉस्मोस कंप्यूटेक प्राइवेट लिमिटेड
27	AB2494120	U72200DL2007PTC170732	एट्रियम कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
28	AB2419738	U45200DL2008PTC174746	कपसंस डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
29	AB2376212	U85100DL2007PTC168884	एएनसी हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
30	AB2395652	U41000DL2008PTC173243	स्मार्ट डेवलपमेंट कंसल्टेंट्स एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
31	AB2299936	U72300DL2008PTC175304	स्टोव सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
32	AB2381867	U80903DL2008PTC175345	एफओबी प्रोपैक्स प्राइवेट लिमिटेड
33	AB2386951	U63000DL2005PTC165119	एल.जी. ब्रदर्स लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
34	AB2375895	U63000DL2006PTC152254	पारसोली टूर्स एंड हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड
35	AB2442289	U21120DL2005PTC133861	के.डी. पंप्स प्राइवेट लिमिटेड
36	AB2250873	U75232DL2011PTC221051	ओएसटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
37	AB2338174	U70100DL2011PTC218525	मर्केटाइल रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
38	AB2285454	U45400DL2011PTC216644	एसएसएफ इंसिग्रिया एसईजेड आई प्राइवेट लिमिटेड
39	AB2337467	U40300DL2011PTC219417	आईएसटी ग्लोबल ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड
40	AB2479654	U93000DL2009PTC191449	बिग डिटेक्टिव प्राइवेट लिमिटेड
41	AB2208849	U74999DL2012PTC234586	आरएमपी इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
42	AB2401072	U18101DL2012PTC238498	नीशी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
43	AB2423191	U74900DL2012PTC239398	स्पैरो फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड
44	AB2471973	U93000DL2013PTC248115	कंट्रीफ्लोरा गिफ्टिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
45	AB2395351	U92100DL2013PTC249261	एमेनॉक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
46	AB2355966	U70102DL2012PTC244767	एमेनॉक्स इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
47	AB2411495	U40106DL2011PTC227020	सास्टेक पावर कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
48	AB2430693	U93000DL2011PTC223330	पर्सप्रो इंटीग्रेटेड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
49	AB2472623	U74140DL2013PTC255893	प्रोमियन टेक्नो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
50	AB2348097	U70100DL2014PTC271209	एसएनजे प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
51	AB2451196	U70109DL2013PTC261738	डेवू डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
52	AB2333409	U70102DL2013PTC259307	आर्क रिसोर्सिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
53	AB2450164	U72200DL2013PTC261235	हाई स्ट्रीट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
54	AB2392962	U72300DL2015PTC285335	आर्मर आईटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
55	AB2442887	U74140DL2014PTC263655	जेसीबी एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
56	AB2505516	U74999DL2016OPC308853	सीखो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (ओपीसी)
57	AB2399033	U74999DL2016PTC309046	द वे फॉरवर्ड इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
58	AB2371539	U51101DL2015PTC288353	ग्रीनमैन मशीनरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
59	AB2436845	U74930DL2016PTC291577	ग्रूट्स फूड्स वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
60	AB2426071	U52100DL2015PTC277965	कंसिग्रिया ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

S. No.	Work Item	CIN	Hindi Name
61	AB2393599	U74999DL2016PTC305965	शिव ओम कलर स्कैन प्राइवेट लिमिटेड
62	AB2366357	U65999DL2017PLC314752	केसीजी निधि इंडिया लिमिटेड
63	AB2396380	U63030DL2016PTC305736	बोलाइन हॉलिडेज प्राइवेट लिमिटेड
64	AB2440890	U74999DL2016PTC305238	जुंगा फ्रेशनग्रीन प्राइवेट लिमिटेड
65	AB2461405	U74999DL2018OPC329767	पिंकक्रिल सर्विसेज (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
66	AB2382614	U74999DL2018PTC329588	एमबीएसके होलिस्टिक वेलनेस एंड लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड
67	AB2449080	U74999DL2017OPC325612	ब्लैक हुड इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
68	AB2272878	U74999DL2018PTC332913	टीआईओ हॉलिडेज प्राइवेट लिमिटेड
69	AB2422249	U72900DL2018PTC338066	मेपलक्लाउड टेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
70	AB2314864	U51909DL2018PTC339517	आनविज़न ट्रेड्स प्राइवेट लिमिटेड
71	AB2224292	U93090DL2018PTC342273	डीटियारा इवेंट एंड क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड
72	AB2425139	U52609DL2019PTC354529	फ्लैपरॉन ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
73	AB2422313	U52599DL2019PTC354531	शीपल ट्रेडकॉम प्राइवेट लिमिटेड
74	AB2235230	U63090DL2020PTC361483	ट्रांसेंड वर्ल्डवाइड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
75	AB2424021	U52602DL2020PTC363969	फाउंसी एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
76	AB2234537	U74999DL2020PTC369378	चेवनिंग एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड
77	AB2471882	U72900DL2020PTC365441	वर्चुअल टेरेन प्राइवेट लिमिटेड
78	AB2491507	U51909DL2020PTC365952	एमएलई मार्केटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
79	AB2282271	U25209DL2020PTC374495	उषापेट फिल्मस प्राइवेट लिमिटेड
80	AB2466041	U72900DL2021PTC375858	डिजीमेश टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
81	AB2317890	U73100DL2021PTC376029	होलबोर्न वेल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
82	AB2297964	U93010DL2021PTC386035	टेनियस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
83	AB2444664	U24290DL2021PTC388838	एसपीजी बायो फ्यूल प्राइवेट लिमिटेड
84	AB2391228	U74999DL2021PTC390034	ए2ई सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
85	AB2385843	U15549DL2021PTC389918	ईस्ट वन हॉस्पिटैलिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड
86	AB2455770	U15490DL2021PTC386854	एसपीजी राइस मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
87	AB2406602	U74999DL2022PTC392561	लेक्सबीरबल मेडिको प्राइवेट लिमिटेड
88	AB2445660	U72900DL2022PTC393853	कॉमडॉटप्रो टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
89	AB2496750	U63030DL2021PTC391200	फ्रेशोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
90	AB2416423	U18100DL2022PTC397878	सोलस्टिर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
91	AB2416837	U28994DL2022PTC397078	वृक्षय प्राइवेट लिमिटेड
92	AB2541257	U51909DL2022OPC403721	फैसिकॉन इंटरनेशनल (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
93	AB2416514	U45200DL2022PTC406210	मेटाएरा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
94	AB2479029	U67190DL2023PTC409817	वेल्थनेस्टर प्राइवेट लिमिटेड
95	AB2325489	U72900DL2022PTC407182	रेयरफॉक्स प्राइवेट लिमिटेड
96	AB2484502	U24290DL2022PTC407954	सार्टे परफ्यूम्स प्राइवेट लिमिटेड
97	AB2535341	U47912DL2023PTC414606	कैंडीबॉक्स ईकॉमर्स सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
98	AB2377711	U62099DL2023PTC414866	युगलटेककॉर्प प्राइवेट लिमिटेड
99	AB2387495	U47711DL2023FTC419224	रॉ रेवेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
100	AB2468515	U20237DL2023PTC419512	ग्लैमप्लस वेलनेस प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
101	AB2235364	U10790DL2023PLC424434	मीर काजूज़ हेवन इंडस्ट्रीज लिमिटेड

S. No.	Work Item	CIN	Hindi Name
102	AB2315848	U93190DL2023PTC423061	ग्रीन्साइड प्रमोशंस प्राइवेट लिमिटेड
103	AB2521478	U47911DL2024PTC431380	कन्वर्सड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
104	AB2397772	U62011DL2024PTC427778	उमादेवा सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्ट्रार से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

3. तदनुसार, कम्पनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्ट्रार से हटाने का प्रस्ताव करता है।

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं।

हरिहर साहू
रजिस्ट्रार
प्रसंस्करण त्वरित कॉर्पोरेट निकास केंद्र

प्रारूप संख्या एसटीके-6

सार्वजनिक सूचना

{कम्पनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाना)

नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में}

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित कम्पनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 3 फरवरी 2025

सं. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/1756—

S. No.	Work Item	CIN	Hindi Name
1	AB2284931	U15549GA2018PTC013643	गौरव फूड्स एंड बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड
2	AB2526913	U51909DN2022PTC005718	खुटलीवाला एग्रो ग्रीन्स प्राइवेट लिमिटेड
3	AB2298475	U30008GA2022PTC015470	नेलिलैप मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड
4	AB2243176	U51909GA2022PTC015620	डेसिलिन ई-कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्ट्रार से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

3. तदनुसार, कम्पनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्ट्रार से हटाने का प्रस्ताव करता है।

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं।

हरिहर साहू
रजिस्ट्रार
प्रसंस्करण त्वरित कॉर्पोरेट निकास केंद्र

प्रारूप संख्या एसटीके-6
सार्वजनिक सूचना

{कम्पनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्टर से कम्पनियों का नाम हटाना)

नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में}

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित कम्पनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 3 फरवरी 2025

सं. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/1757—

S. No.	Work Item	CIN	Hindi Name
1	AB2261927	U45100GJ2012PTC072062	श्री अर्बुदा स्पेसकॉन प्राइवेट लिमिटेड
2	AB2406850	U74999GJ2022PTC135256	श्री दत्त प्रोडक्टिविटी कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड
3	AB2372816	U74140GJ2008PTC053152	हाइलेक्स एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड
4	AB2439217	U52609GJ2022PTC135841	एसजेडके टेक सनवे सोलर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
5	AB2541708	U45201GJ2008PTC054196	बिनोरी बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड
6	AB2418620	U74140GJ2005PTC047123	ऋषि फिनमैन कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड
7	AB2439931	U55100GJ2010PTC062326	जेडब्लू हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड
8	AB2492921	U72900GJ2009PTC056765	सिया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
9	AB2373456	U74300GJ2012PTC069529	अमने कहो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
10	AB2314693	U72900GJ2012PTC070904	क्वाड सॉफ्टटेक प्राइवेट लिमिटेड
11	AB2397924	U05000GJ2014PTC081442	गुंजन एक्काकल्चर प्राइवेट लिमिटेड
12	AB2395987	U25209GJ2016PTC094613	मुकुंद प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड
13	AB2343054	U29256GJ2016PTC093569	पीएनपी टेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड
14	AB2208655	U72900GJ2018PTC101253	बरपांडे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
15	AB2401762	U28999GJ2018PTC103864	परसेप्शन मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड
16	AB2482059	U80904GJ2019PTC108605	केयरकेयर एड्यूसर्व प्राइवेट लिमिटेड
17	AB2360334	U72900GJ2019PTC110191	रूलर्स टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
18	AB2391603	U72900GJ2020PTC115259	एमएलवेदा प्राइवेट लिमिटेड
19	AB2322193	U32112GJ2021PTC119259	एशियन ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड
20	AB2487469	U74110GJ2020PTC116617	केमस्पोर्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
21	AB2364665	U92490GJ2021OPC121666	पिकडॉक स्टूडियो (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
22	AB2194255	U72900GJ2021PTC122385	डिसरप्टवर्क इंफोलैब्स प्राइवेट लिमिटेड
23	AB2500987	U72900GJ2021PTC122067	एएफडी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
24	AB2451413	U73100GJ2021PTC128091	आरक्यूब एनालिटिकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
25	AB2338664	U74999GJ2021PTC125767	राधिका भट्ट इंटीरियर्स प्राइवेट लिमिटेड
26	AB2348261	U15136GJ2022PTC136613	प्रियादीप ओवरसीज़ प्राइवेट लिमिटेड
27	AB2489292	U72900GJ2022PTC136652	विट्टोरिया लिंग्विस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
28	AB2475017	U28212GJ2023PTC143866	आरबीजे एगो प्राइवेट लिमिटेड
29	AB2451903	U41001GJ2023PTC146132	साँवरेन स्काईलाइन प्राइवेट लिमिटेड
30	AB2269295	U28132GJ2023PTC145568	ओजीवी एक्सएल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
31	AB2387049	U24311GJ2024PTC150344	इनफिस्टार पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड
32	AB2466010	U88100GJ2024PTC149655	शतायुषी सीनियर सिटिजन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्टर से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कम्पनी

अधिनियम, 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

3. तदनुसार, कम्पनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्टर से हटाने का प्रस्ताव करता है।

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं।

हरिहर साहू
रजिस्ट्रार
प्रसंस्करण त्वरित कॉर्पोरेट निकास केंद्र

प्रारूप संख्या एसटीके-6
सार्वजनिक सूचना

{कम्पनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्टर से कम्पनियों का नाम हटाना)

नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में}

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित कम्पनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 3 फरवरी 2025

सं. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/1758—

S. No.	Work Item	CIN	Hindi Name
1	AB2407634	U72200HR1996PTC033091	न्यूएज सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
2	AB2433628	U51909HR2010PTC041085	एस एस ए टी कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड
3	AB2282074	U74900HR2009PTC039596	नवदुर्गा चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
4	AB2365903	U52590HR2013PTC048665	बडी (मुंबई) रिटेल प्राइवेट लिमिटेड
5	AB2453998	U93000HR2011PTC043782	विन्स्पायरर सिक्योरिटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड
6	AB2524107	U52100HR2015PTC057571	ऑनलाइन स्टोर्स प्राइवेट लिमिटेड
7	AB2445353	U45209HR2011PTC044720	टेराजो इंक्रीट प्राइवेट लिमिटेड
8	AB2411424	U74999HR2018PTC074463	ओनली4यू स्मार्ट प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
9	AB2363460	U74999HR2018PTC072476	हनाया हॉस्पिटैलिटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
10	AB2454907	U51909HR2018PTC075143	एनलासिया फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
11	AB2523491	U52335HR2018OPC075606	मुद्गल टेक्नोलॉजीज (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
12	AB2373540	U15132HR2018PTC075939	सेफ ग्रेंस प्राइवेट लिमिटेड
13	AB2505391	U74999HR2019PTC081073	कैपोलावोरो कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड
14	AB2364632	U73100HR2020PTC087326	डेवीज़ बिज़ प्राइवेट लिमिटेड
15	AB2472186	U15549HR2020PTC088260	प्यूरवेदा फूड एंड स्पाइसेज़ प्राइवेट लिमिटेड
16	AB2392868	U51909HR2020PTC090424	रेन लाइफ साइसेज़ प्राइवेट लिमिटेड
17	AB2444596	U51909HR2021PTC095110	एडवांस बायोसाइसेज़ प्राइवेट लिमिटेड
18	AB2121648	U92490HR2021PTC092963	प्लेयू एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड
19	AB2354136	U74999HR2021PTC094373	हेरेंज सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
20	AB2375330	U27200HR2021PTC098224	गौतिनमा आयरन एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड
21	AB2500659	U18109HR2021PTC098575	सिंफनी फैब प्राइवेट लिमिटेड
22	AB2498537	U85110HR2021PTC100015	रायबुल्ट फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
23	AB2379358	U01100HR2022PTC100524	वर्डटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
24	AB2438034	U70109HR2022PTC102371	ग्रैंड आशियाना रीयलटर्स प्राइवेट लिमिटेड

S. No.	Work Item	CIN	Hindi Name
25	AB2548684	U72900HR2022OPC101984	एम बाजपाई कंसल्टिंग सर्विसेज (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
26	AB2535558	U64990HR2023PLN111872	क्यूबलैप इंडिया निधि लिमिटेड
27	AB2423682	U90009HR2023PTC115013	एमएसजे आर्ट प्राइवेट लिमिटेड
28	AB2448221	U47912HR2024OPC120124	क्विलक्राफ्ट क्रिएशन्स (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
29	AB2471743	U27900HR2024PTC120514	मेकवाइज़ एआई पावर प्राइवेट लिमिटेड
30	AB2510035	U21006HR2024PTC124552	हीलेक्सो लैबोरेट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्टर से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

3. तदनुसार, कम्पनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्ट्रार से हटाने का प्रस्ताव करता है।

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं।

हरिहर साहू
रजिस्ट्रार
प्रसंस्करण त्वरित कॉर्पोरेट निकास केंद्र

प्रारूप संख्या एसटीके-6

सार्वजनिक सूचना

{कम्पनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाना)

नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में}

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित कम्पनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 3 फरवरी 2025

सं. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/1759—

S. No.	Work Item	CIN	Hindi Name
1	AB2417100	U72900HP2019PTC007587	अलज़रॉन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
2	AB2228725	U47212HP2023PTC010013	क्यार एपल्स प्राइवेट लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्टर से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

3. तदनुसार, कम्पनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्ट्रार से हटाने का प्रस्ताव करता है।

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं।

हरिहर साहू
रजिस्ट्रार
प्रसंस्करण त्वरित कॉर्पोरेट निकास केंद्र

प्रारूप संख्या एसटीके-6

सार्वजनिक सूचना

{कम्पनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्टर से कम्पनियों का नाम हटाना)

नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में}

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित कम्पनी का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 3 फरवरी 2025

सं. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/1760—

S. No.	Work Item	CIN	Hindi Name
1	AB2305468	U58131JK2023OPC015101	फर्स्ट डिस्पैच मल्टीमीडिया (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्टर से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

3. तदनुसार, कम्पनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्टर से हटाने का प्रस्ताव करता है।

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं।

हरिहर साहू

रजिस्ट्रार

प्रसंस्करण त्वरित कॉर्पोरेट निकास केंद्र

प्रारूप संख्या एसटीके-6

सार्वजनिक सूचना

{कम्पनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्टर से कम्पनियों का नाम हटाना)

नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में}

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित कम्पनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 3 फरवरी 2025

सं. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/1761—

S. No.	Work Item	CIN	Hindi Name
1	AB2241002	U71100JH2020PTC014279	ग्लोबल सराज प्राइवेट लिमिटेड
2	AB2351237	U69202JH2023PTC021491	ग्रीनिश कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड
3	AB2364478	U01500JH2023PTC021577	पहारांचल एग्रो फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्टर से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

3. तदनुसार, कम्पनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्टर से हटाने का प्रस्ताव करता है।

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं।

हरिहर साहू
रजिस्ट्रार
प्रसंस्करण त्वरित कॉर्पोरेट निकास केंद्र

प्रारूप संख्या एसटीके-6
सार्वजनिक सूचना

{कम्पनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाना)

नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में}

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित कम्पनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 3 फरवरी 2025

सं. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/1762—

S. No.	Work Item	CIN	Hindi Name
1	AB2410516	U74999KA2019PTC120785	माइक्रोआई स्टैंडर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
2	AB2393643	U15311KA1966PTC001618	अन्नपूर्णा रोलर फ्लोर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
3	AB2442370	U74120KA1996PTC020310	हर्षम कॉर्पोरेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
4	AB2432581	U70200KA2009PTC084479	पीजेपीए रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड
5	AB2456358	U15122KA2009PTC049343	हेल्दी बाइट्स एन सिप्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
6	AB2355111	U15495KA2006PTC038183	केएसएन इको फार्म प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
7	AB2369422	U74900KA2010PTC054117	जेजे बायोटेक इंस्ट्रुमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
8	AB2367691	U74300KA2010PTC052179	इंटरमीडिया एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड
9	AB2546078	U70102KA2011PTC058255	वाग्मी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
10	AB2493968	U74900KA2015PTC078315	पी एम हेल्थ एंड लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड
11	AB2447063	U72200KA2014PTC074278	स्लैगन कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
12	AB2554798	U72200KA2015PTC084714	जूजिप टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
13	AB2225294	U27300KA2016PTC087176	पटेलहाईटेक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
14	AB2393454	U74999KA2016PTC098511	प्रजापति प्रोजेक्ट्स एंड वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
15	AB2435217	U74999KA2016PTC093781	कॉस्क्राड रेडिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
16	AB2445346	U74999KA2017PTC106882	कैलमलोर आईटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
17	AB2508581	U74999KA2018PTC109139	शुभ्रा वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
18	AB2503006	U80100KA2017PTC107262	गणपर ट्यूटोरियल्स प्राइवेट लिमिटेड
19	AB2436837	U65100KA2018PTC115943	इन्नोविटी स्मेलेंडिंग प्राइवेट लिमिटेड
20	AB2358747	U93090KA2018PTC116631	ग्रैंड टीवी एडवर्टाइजमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
21	AB2440554	U72501KA2018OPC113893	जेबर टेक्नोलॉजी (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
22	AB2375433	U93000KA2018PTC117715	नेरावु मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
23	AB2308765	U45309KA2019PTC127211	लंबर एंड यार्न इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
24	AB2263197	U74110KA2019PTC121492	XIXth इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
25	AB2374636	U74999KA2020PTC136639	ज़ोम लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
26	AB2485186	U74999KA2020PTC136295	स्टाइलाइफ टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
27	AB2401694	U74999KA2020PTC138353	रेडक्सर स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड

S. No.	Work Item	CIN	Hindi Name
28	AB2446557	U65929KA2020PTC138797	अर्बन प्रोजेक्ट्स होलिंग प्राइवेट लिमिटेड
29	AB2364452	U74999KA2020PTC136025	ओबुका प्राइवेट लिमिटेड
30	AB2447165	U15400KA2021PTC145136	अर्बन रॉ हनी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
31	AB2437023	U24290KA2021PTC150140	सर्मियो प्राइवेट लिमिटेड
32	AB2395582	U72900KA2021OPC149437	मूवील्स कंज्यूमर सर्विसेज (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
33	AB2467896	U72900KA2021PTC155648	अनसॉई प्राइवेट लिमिटेड
34	AB2201268	U72900KA2021PTC152002	ज्यूरिस लैब प्राइवेट लिमिटेड
35	AB2450885	U18101KA2022PTC158343	गो गूवी लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड
36	AB2466720	U52399KA2022PTC159685	श्रीशैल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
37	AB2424174	U74999KA2022PTC158914	सावडो प्राइवेट लिमिटेड
38	AB2358710	U51909KA2022PTC161344	डेनवोल्फ ओरिजिनल्स प्राइवेट लिमिटेड
39	AB2310374	U70100KA2022PTC165184	आस्थी अपॉर्च्युनिटी गामा प्राइवेट लिमिटेड
40	AB2451993	U74999KA2022PTC165414	बेसक्यूब ट्रेड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
41	AB2398852	U72900KA2022PTC165555	बिलियनटेक प्राइवेट लिमिटेड
42	AB2351116	U70109KA2022PTC160201	आस्थी अपॉर्च्युनिटी ज़ेटा प्राइवेट लिमिटेड
43	AB2390577	U72900KA2022PTC165525	मिलेनियल इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड
44	AB2317802	U70109KA2022PTC161306	आस्थी अपॉर्च्युनिटी ओमेगा प्राइवेट लिमिटेड
45	AB2495745	U24299KA2022PTC166895	अभयहस्त कोषस फार्मास्युटिकल प्राइवेट लिमिटेड
46	AB2139058	U72900KA2022PTC168591	असर्टिफाई टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड
47	AB2418340	U45209KA2023PTC170007	एसआई2 अहसान इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड
48	AB2160928	U74999KA2022PTC168713	ग्रोथ रैप्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
49	AB2411523	U96905KA2023PTC176417	बॉडीमेट्रिक प्राइवेट लिमिटेड
50	AB2426012	U62013KA2023PTC177435	ब्रेंटो डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड
51	AB2412220	U17019KA2023PTC177117	स्टैम्पर सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
52	AB2370712	U38210KA2023PTC177283	आईएनवीआईआरओ टेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
53	AB2332353	U14101KA2023PTC180297	काजा क्रांति टेक्सटाइल्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
54	AB2449024	U62099KA2023PTC179078	फ्लाईबोट टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड
55	AB2529015	U62099KA2024PTC185716	एडवर्टिजीवर्टिक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
56	AB2464524	U46204KA2024PTC187212	गोजेन इंटर प्राइवेट लिमिटेड
57	AB2390950	U86202KA2024PTC187808	डिवेला हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्ट्रार से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

3. तदनुसार, कम्पनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्ट्रार से हटाने का प्रस्ताव करता है।

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं।

हरिहर साहू
रजिस्ट्रार
प्रसंस्करण त्वरित कॉर्पोरेट निकास केंद्र

प्रारूप संख्या एसटीके-6
सार्वजनिक सूचना

{कम्पनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्टर से कम्पनियों का नाम हटाना)
नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में}

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित कम्पनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 3 फरवरी 2025

सं. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/1763—

S. No.	Work Item	CIN	Hindi Name
1	AB2397009	U85100KL2019PTC056467	जीवनीयम स्किल्स एंड हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
2	AB2396722	U45309KL2019PTC056814	प्रोमेस इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
3	AB2435807	U72900KL2015PTC037782	सी360 मार्केटिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
4	AB2433770	U74990KL2013PTC034046	कोल्लम केबल्स प्राइवेट लिमिटेड
5	AB2508178	U64120KL2016PTC046300	सांता एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
6	AB2437024	U74999KL2018PTC053056	ट्रानोट्स सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
7	AB2496062	U36910KL2021PTC068423	टीएसएम ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड
8	AB2455696	U72900KL2022PTC076660	डॉकटॉक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड
9	AB2379571	U86100KL2023PTC085219	एस्पॉयर हेल्थकेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्टर से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

3. तदनुसार, कम्पनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्ट्रार से हटाने का प्रस्ताव करता है।

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं।

हरिहर साहू
रजिस्ट्रार
प्रसंस्करण त्वरित कॉर्पोरेट निकास केंद्र

प्रारूप संख्या एसटीके-6
सार्वजनिक सूचना

{कम्पनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्टर से कम्पनियों का नाम हटाना)
नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में}

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित कम्पनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 3 फरवरी 2025

सं. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/1764—

S. No.	Work Item	CIN	Hindi Name
1	AB2382837	U45203MP1997PTC012116	पीतांबरा बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
2	AB2433700	U40100MP2010PTC023710	हिल पावर प्राइवेट लिमिटेड

S. No.	Work Item	CIN	Hindi Name
3	AB2430454	U40100MP2010PTC023718	हिल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
4	AB2490348	U28931MP2012PTC027430	सूर्य फाईल्स प्राइवेट लिमिटेड
5	AB2409299	U24290MP2022PTC062911	पंचशील बायो-एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड
6	AB2319517	U72200MP2015PTC033952	पॉजिट्रॉन इंटरनेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
7	AB2394452	U01100MP2021PTC055274	शांतिनजय एग्रो फार्मर प्रोज्यूसर कंपनी लिमिटेड
8	AB2443163	U55101MP2021PTC057774	दीनदयाल होटल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
9	AB2399363	U92490MP2021PTC057078	पिक्सोडी डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड
10	AB2392934	U33110MP2022PTC059924	न्यूट्रीशियो हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड
11	AB2393142	U80904MP2022PTC064051	शिफटेक एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड
12	AB2425968	U46308MP2023PTC065457	मेगास्टार स्पिरिट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
13	AB2560054	U73100MP2024PTC069614	जेन्स्फेयर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्टर से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

3. तदनुसार, कम्पनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्ट्रार से हटाने का प्रस्ताव करता है।

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं।

हरिहर साहू

रजिस्ट्रार

प्रसंस्करण त्वरित कॉर्पोरेट निकास केंद्र

प्रारूप संख्या एसटीके-6

सार्वजनिक सूचना

{कम्पनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाना)

नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में}

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित कम्पनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 3 फरवरी 2025

सं. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/1765—

S. No.	Work Item	CIN	Hindi Name
1	AB2287208	U72500MH2018PTC304141	वाईएमएस अल्फाबेट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
2	AB2434935	U92110MH1950PTC007995	सुशील ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
3	AB2533079	U21000MH1968PTC014049	शाह एंड जोशी प्राइवेट लिमिटेड
4	AB2518336	U01110MH1993PLC075448	कुमार फील्ड्स लिमिटेड
5	AB2463166	U99999MH1994PTC082805	शालोमी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड
6	AB2417484	U28920MH1995PTC090170	फ्लोवेल इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
7	AB2421062	U55204MH1995PTC090789	सेलिब्रेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

S. No.	Work Item	CIN	Hindi Name
8	AB2298944	U65921MH1998PTC116812	एस ई आर कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड
9	AB2269412	U93090MH2007PLC169285	फ्रंटलाइन एचआर सॉल्यूशंस लिमिटेड
10	AB2391619	U80901MH2008PTC179240	इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफस्टाइल डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड
11	AB2445026	U22110MH2006PTC161747	साहिब ग्राफिक्स प्राइवेट लिमिटेड
12	AB2387778	U63000MH2008PTC188353	साउथ कोस्ट कंटेनर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
13	AB2468500	U18109MH2008PTC185469	कैप्स मर्केटाइल प्राइवेट लिमिटेड
14	AB2500176	U15132MH2009PTC191829	सचिन फ्रूट सप्लायर्स प्राइवेट लिमिटेड
15	AB2253428	U93000MH2010PTC201284	किंग ऑफ हार्ट्स स्टड फार्म प्राइवेट लिमिटेड
16	AB2442037	U74210MH2010PTC209276	सुयोग प्रेसिजन एंड इंजीनियरिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
17	AB2538244	U70102MH2011PTC212653	विस्मय प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड
18	AB2433666	U93000MH2012PTC228829	आर्कस इंडिया एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड
19	AB2454047	U74120MH2013PTC249631	अरेटे मरीन एंड ऑफशोर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
20	AB2447751	U63000MH2013PTC249111	टीएसएन लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
21	AB2391262	U74120MH2013PTC243600	एंड टू एंड कंसल्टिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
22	AB2370360	U74999MH2004PTC144931	मेंटर इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड
23	AB2221909	U72300MH2005PTC155162	सानीसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
24	AB2465725	U74999MH2015PTC260558	सी4मरीन शिपिंग मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
25	AB2479015	U74900MH2015PTC261484	साग टेक्नोलॉजीज कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
26	AB2408564	U18101MH2001PTC132101	स्पाइस लाइफ एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
27	AB2305629	U29260MH2004PTC149266	एसके स्टेबल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
28	AB2327628	U24290MH2004PTC149188	सुपरमिक्स कंस्ट्रक्शन केमिकल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
29	AB2377458	U45209MH2007PTC173048	वन फाइनाइट प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड
30	AB2236952	U45400MH2006PTC164762	त्रिमूर्ति प्रॉपर्टी प्लानर्स प्राइवेट लिमिटेड
31	AB2432017	U74120MH2014PTC256157	जोहा फिल्मस एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड
32	AB2434718	U85100MH2015PTC270403	आरती जैन डायट4हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड
33	AB2504090	U62099MH2023PTC398901	डीबीएक एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
34	AB2341921	U80903MH2015PTC263442	सोरिंगईगल्स लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड
35	AB2445593	U50300MH2016PTC273194	ब्लेर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
36	AB2299795	U74999MH2018PTC303656	जानस स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
37	AB2367680	U01100MH2017PTC294474	मदरिला ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
38	AB2396047	U22100MH1991PTC064341	एडवेंचर डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड
39	AB2374988	U74999MH2016PTC285924	ब्रॉडव्यू एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड
40	AB2386961	U55101MH2017PTC293317	गोल्डन व्हिस्क प्राइवेट लिमिटेड
41	AB2372641	U74999MH2016FTC286492	टुमकलिप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
42	AB2368316	U74999MH2017PTC300364	ब्लॉकवर्क्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
43	AB2345094	U74999MH2017PTC303178	आउटलैंडर्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
44	AB2410918	U74999MH2017PTC302780	इल्यूसी प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड
45	AB2420584	U74999MH2018PLC309127	केसीएस लॉजिस्टिक्स लिमिटेड

S. No.	Work Item	CIN	Hindi Name
46	AB2399576	U93000MH2018PTC314365	स्टालवर्ल्स स्पेस प्राइवेट लिमिटेड
47	AB2419450	U72900MH2019PTC324416	बिज़नबाउंड एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
48	AB2407257	U72900MH2019PTC323434	श्रीसर्वा कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
49	AB2432808	U52609MH2019PTC328325	अमृत नोनी प्राइवेट लिमिटेड
50	AB2368157	U85300MH2019PTC332190	वीमेन अगेंस्ट साइबर अब्यूज प्राइवेट लिमिटेड
51	AB2354753	U22300MH2019PTC331582	सी3एक्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड
52	AB2114162	U74999MH2020PTC338930	अर्निच्चा इंडिया इन्स्पेक्शन प्राइवेट लिमिटेड
53	AB2439146	U72900MH2020PTC339559	सिलेट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
54	AB2304046	U70109MH2020PTC336160	केजीटीए वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
55	AB2496794	U45309MH2020PTC343613	ग्रीन्स्केप रियलकॉन प्राइवेट लिमिटेड
56	AB2426658	U74999MH2020PTC350141	एक्टिवएज प्राइवेट लिमिटेड
57	AB2312399	U74999MH2020PTC349648	पेट्रोस्पाइन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
58	AB2508989	U59111MH2021PTC354472	डैडी एंड डॉटर (डी एंड डी) प्राइवेट लिमिटेड
59	AB2415976	U92490MH2020OPC351758	वॉट्स इन द मिक्स (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
60	AB2369985	U15400MH2020PTC352326	ज़ोइल फूडटेक प्राइवेट लिमिटेड
61	AB2192031	U74999MH2020PTC344825	स्वागतकार्ड प्राइवेट लिमिटेड
62	AB2286931	U65990MH2021PTC365980	8849 कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड
63	AB2465578	U24290MH2021OPC366885	अमिलाडो (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
64	AB2379854	U74910MH2021PTC363714	पिनपॉइंटर प्राइवेट लिमिटेड
65	AB2460812	U92100MH2021PTC364729	रिवाइंड स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
66	AB2290604	U25111MH2021PTC362553	पारेख कमर्शियल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
67	AB2306560	U72900MH2021PTC373662	प्रतिक्षालय हेल्थकेयर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
68	AB2398418	U24290MH2021PLC374157	मारुति केमकॉन लिमिटेड
69	AB2247117	U72900MH2021PTC373830	हम्माद टेक क्लाउड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
70	AB2475440	U24110MH2021PTC367937	कॉमेंड स्पेशलिटीज प्राइवेट लिमिटेड
71	AB2356216	U72501MH2021PTC372377	फाइबर स्पीडनेस्ट प्राइवेट लिमिटेड
72	AB2387076	U65929MH2022PLN376850	रेनुश्री अर्बन निधि लिमिटेड
73	AB2373459	U63030MH2022PTC382658	एसएनएम ग्लोबल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
74	AB2306825	U72900MH2022PTC389169	धृत लैब्स प्राइवेट लिमिटेड
75	AB2212069	U72900MH2022PTC389396	मोडीगिटेक प्राइवेट लिमिटेड
76	AB2520812	U01100MH2022PTC385877	लाहोटी लाइफसाइंस प्राइवेट लिमिटेड
77	AB2338473	U72900MH2022PTC391914	एमएनवाई फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड
78	AB2407491	U01100MH2022PTC394419	गतिशील फार्म एंड एग्रो प्रोज़्यूसर कंपनी लिमिटेड
79	AB2377741	U74999MH2022PTC394758	बारओक एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड
80	AB2388301	U64990MH2023PLN399917	रघुनाथ निधि लिमिटेड
81	AB2463975	U80903MH2022PTC393763	प्रॉस्पेरिटी वेल्थ क्रिएटर्स प्राइवेट लिमिटेड
82	AB2523177	U46901MH2023PTC404832	मामा'ज़ मकून ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड
83	AB2377740	U58203MH2023PTC405447	अतरंगी गेम्स प्राइवेट लिमिटेड

S. No.	Work Item	CIN	Hindi Name
84	AB2436741	U20229MH2023PTC406603	आशियाना ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
85	AB2416275	U62099MH2023PTC414745	ईको नैचुरल फार्मिंग टेक प्राइवेट लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्टर से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

3. तदनुसार, कम्पनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्टर से हटाने का प्रस्ताव करता है।

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं।

हरिहर साहू
रजिस्ट्रार
प्रसंस्करण त्वरित कॉर्पोरेट निकास केंद्र

प्रारूप संख्या एसटीके-6
सार्वजनिक सूचना

{कम्पनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्टर से कम्पनियों का नाम हटाना)

नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में}

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित कम्पनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 3 फरवरी 2025

सं. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/1766—

S. No.	Work Item	CIN	Hindi Name
1	AB2449501	U74999PN2020OPC190252	गुरुगजनान मेडिकल (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
2	AB2426261	U45201PN2022PTC215065	सबर्विया एवेन्यू इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड
3	AB2434910	U74900PN2009PTC133477	संवेग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
4	AB2370399	U15490PN2012PTC144888	फार्म फीस्ट एग्रो (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
5	AB2401480	U74900PN2011PTC140172	नमिता हेयर टू टो ब्यूटी केयर प्राइवेट लिमिटेड
6	AB2416802	U74999PN2017PTC169205	पैकमेज सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
7	AB2347346	U72900PN2016OPC165177	समिश डिजिटल (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
8	AB2406147	U93000PN2016PTC166862	वेरोकॉन्टी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
9	AB2525028	U22130PN2016PTC164195	स्ट्रोक्स इंडिया मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
10	AB2288268	U74999PN2017PTC172061	यूरिटी प्राइवेट लिमिटेड
11	AB2507731	U72900PN2017PTC171308	ओडिनआई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
12	AB2420329	U72900PN2018PTC176608	जलधी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
13	AB2438966	U15400PN2018PTC179830	भक्तिसार फूड्स एंड हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड
14	AB2514455	U72900PN2019PTC184973	एविरहील टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
15	AB2417709	U55209PN2019PTC185063	सनरेस्ट हॉस्पिटैलिटी एंड कैटरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
16	AB2328585	U15100PN2019PTC187585	निश्चल राइस मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
17	AB2392462	U60230PN2020PTC191768	ज़िवाओन वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड

S. No.	Work Item	CIN	Hindi Name
18	AB2228832	U72900PN2020PTC191541	डेटा बोट प्राइवेट लिमिटेड
19	AB2376954	U72900PN2021PTC202505	लेज़र लैब्स प्राइवेट लिमिटेड
20	AB2296468	U72900PN2021PTC201392	बारपांडे सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
21	AB2398545	U28998PN2022PTC212399	एब्लर कास्टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
22	AB2434497	U29190PN2022PTC212456	एडु कैड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
23	AB2473833	U72200PN2022PTC207675	स्क्रिप्टोहोलिक प्राइवेट लिमिटेड
24	AB2375496	U72900PN2022PTC210374	पियर नॉर्थ टेक प्राइवेट लिमिटेड
25	AB2506173	U72900PN2022PTC211550	शिल्प्रा वेब टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड
26	AB2451119	U72900PN2022OPC212398	थॉट्सिड सॉफ्टवेयर (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
27	AB2385860	U74999PN2022PTC213940	हैपस्टर प्राइवेट लिमिटेड
28	AB2492272	U72900PN2022PTC211071	डॉकुलेन्स प्राइवेट लिमिटेड
29	AB2477177	U74999PN2022PTC214168	फॉस्टर एंड नर्चर सस्टेनेबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड
30	AB2483556	U96020PN2023PTC219971	डर्माशाइन प्राइवेट लिमिटेड
31	AB2526567	U66190PN2023PTC221523	वनकंज़्यूमर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड
32	AB2464729	U45402PN2024PTC229623	एसआर फ्यूजन पावर प्राइवेट लिमिटेड
33	AB2507417	U93190PN2024OPC229248	साइरैक्स फिटनेस (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्टर से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

3. तदनुसार, कम्पनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्टर से हटाने का प्रस्ताव करता है।

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं।

हरिहर साहू
रजिस्ट्रार
प्रसंस्करण त्वरित कॉर्पोरेट निकास केंद्र

प्रारूप संख्या एसटीके-6

सार्वजनिक सूचना

{कम्पनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्टर से कम्पनियों का नाम हटाना)

नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में}

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित कम्पनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 3 फरवरी 2025

सं. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/1767—

S. No.	Work Item	CIN	Hindi Name
1	AB2290927	U74920OR1996PTC004617	पीआर कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
2	AB2236672	U85110OR2015PTC019633	रोहन हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड
3	AB2471320	U45309OR2016PTC025559	रेलेवेंस कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड

S. No.	Work Item	CIN	Hindi Name
4	AB2423715	U74999OR2017PTC026283	मोंगूज़ इंडिया प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
5	AB2338389	U60232OR2008PTC010159	एएमसीडी ट्रांसपोर्ट एंड मिनरल प्राइवेट लिमिटेड
6	AB2433117	U15400OR2022PTC038903	कमलोचन इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड
7	AB2480702	U70200OD2023PTC043455	चेंजवर्स एडवाइज़र्स प्राइवेट लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्टर से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

3. तदनुसार, कम्पनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्टर से हटाने का प्रस्ताव करता है।

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं।

हरिहर साहू
रजिस्ट्रार
प्रसंस्करण त्वरित कॉर्पोरेट निकास केंद्र

प्रारूप संख्या एसटीके-6

सार्वजनिक सूचना

{कम्पनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्टर से कम्पनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में}

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित कम्पनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 3 फरवरी 2025

सं. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/1768—

S. No.	Work Item	CIN	Hindi Name
1	AB2244180	U18101PB1943PTC000532	गिरधर एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
2	AB2332466	U01222CH1989PTC009767	डिवाइन पोल्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
3	AB2391514	U15203CH1989PTC009536	केसर फ्रोजन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
4	AB2423793	U92419PB2012PTC036917	इंडियन प्रोफेशनल रेसलिंग प्राइवेट लिमिटेड
5	AB2457311	U15312PB2013PTC038087	पत्राण राइस एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
6	AB2380242	U70102PB2006PTC030608	सिद्ध शक्ति मनी रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड
7	AB2429876	U45209PB2013PTC037216	एमएमजी बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
8	AB2414307	U80903PB2017PTC046400	टेक्नोफास्ट लर्निंग होम प्राइवेट लिमिटेड
9	AB2503096	U51909PB2020PTC051674	कार्लटन लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड
10	AB2452462	U41000PB2019OPC050381	एटलस वाटर मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड (ओपीसी)
11	AB2394174	U74110PB2018PTC047539	साएल पावर प्राइवेट लिमिटेड
12	AB2457578	U72900PB2021OPC053444	पाइमन टेक्नोलॉजीज (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
13	AB2444183	U45402PB2021PTC054849	ह्यूस्टन इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
14	AB2451063	U72900PB2022PTC055808	निरंतर टेक एंड डेटा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

S. No.	Work Item	CIN	Hindi Name
15	AB2469184	U18200PB2023PTC059052	डिजिन्क्स मीडिया नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्ट्रार से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

3. तदनुसार, कम्पनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्ट्रार से हटाने का प्रस्ताव करता है।

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं।

हरिहर साहू

रजिस्ट्रार

प्रसंस्करण त्वरित कॉर्पोरेट विकास केंद्र

प्रारूप संख्या एसटीके-6

सार्वजनिक सूचना

{कम्पनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाना)

नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में}

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित कम्पनी का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 3 फरवरी 2025

सं. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/1769—

S. No.	Work Item	CIN	Hindi Name
1	AB2356112	U01400RJ2021PTC073941	बीजेक्स वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
2	AB2501657	U33301RJ2019PTC063950	टूटब हेल्थटेक प्राइवेट लिमिटेड
3	AB2407130	U45201RJ2007PTC024055	एक्सोल्यूट लैंडमार्क प्राइवेट लिमिटेड
4	AB2510416	U70101RJ2012PTC039349	नीलाक्ष रियल एस्टेट एंड इंफ्राडेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
5	AB2260042	U72900RJ2013PTC044198	मायरस आईटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
6	AB2435323	U74999RJ2018PTC060275	कोटा एन्वोकलीन प्राइवेट लिमिटेड
7	AB2490689	U45400RJ2018PTC063159	इमान बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड
8	AB2448387	U74999RJ2019PTC067498	तिरुपति सेफपैक प्राइवेट लिमिटेड
9	AB2358969	U74999RJ2019PTC067375	पल्प स्पार्क प्राइवेट लिमिटेड
10	AB2506321	U74999RJ2021PTC075279	आरएस बायोमेड प्राइवेट लिमिटेड
11	AB2473922	U85300RJ2021PTC076781	पीएसपीएस हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
12	AB2456676	U14100RJ2021PTC075712	पिंगाक्षा माइंस एंड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड
13	AB2528673	U51909RJ2021PTC075465	जय वीतेश ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड
14	AB2383574	U72200RJ2021PTC077631	होमेनकी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
15	AB2483144	U86909RJ2023PTC086088	जयपुर एस्थेटिक प्राइवेट लिमिटेड
16	AB2362842	U62013RJ2023PTC087908	एक्चुअई ओपनमंडी ई-कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड
17	AB2475793	U46410RJ2024PTC093214	नॉर्मथिंग क्लोदिंग प्राइवेट लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्ट्रार से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

3. तदनुसार, कम्पनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्ट्रार से हटाने का प्रस्ताव करता है।

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं।

हरिहर साहू

रजिस्ट्रार

प्रसंस्करण त्वरित कॉर्पोरेट निकास केंद्र

प्रारूप संख्या एसटीके-6

सार्वजनिक सूचना

{कम्पनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाना)

नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में}

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित कम्पनी का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 3 फरवरी 2025

सं. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/1770—

S.No.	Work Item	CIN	Hindi Name
1	AB2390711	U22210TG1990PTC010982	वालडेन बुक लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड
2	AB2365908	U74200TG2004PTC044793	चल्ला टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
3	AB2335761	U73100TG2022PTC166758	बायोइन्फोमिक्स कस्टम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
4	AB2520759	U63011TG2006PLC051054	यूबी ऑटोमोटिव लिमिटेड
5	AB2317788	U40108TG2009PTC064155	आरवीके एनर्जी (राजमुंद्री) प्राइवेट लिमिटेड
6	AB2503231	U32109TG2012PTC079696	कोडाली ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
7	AB2381830	U37200TG2012PTC082214	हैदराबाद रिक्लेम प्राइवेट लिमिटेड
8	AB2469633	U24232TG2015PTC097437	श्रेन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड
9	AB2468757	U55204TG2015PTC097247	कोडाली होटल्स एंड रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
10	AB2500334	U70102TG2016PTC102630	शोध डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
11	AB2331009	U45500TG2017PTC116048	श्री विजया सिंहद्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड
12	AB2471158	U74999TG2016PTC111970	फोर्ट मेडिकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
13	AB2394373	U52609TG2017PTC115845	सोनार एंड ली केएस प्राइवेट लिमिटेड
14	AB2401404	U15115TG2017PTC119434	श्रीनी कुकीज प्राइवेट लिमिटेड
15	AB2507414	U51909TG2018PTC122727	ग्रिडिट मर्चेन्डाइज प्राइवेट लिमिटेड
16	AB2452508	U45309TG2018PTC125716	चरिष्ठा कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड
17	AB2331321	U72501TG2018PTC127612	लैबफोर्स टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड
18	AB2461854	U36100TG2019PTC135936	जेनेसिस मॉड्यूलर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
19	AB2481509	U72900TG2020PTC138474	एप्सिलॉन टेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
20	AB2433072	U52510TG2021PTC154395	सेवन एएम रिटेल नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड

S.No.	Work Item	CIN	Hindi Name
21	AB2478380	U51909TG2021PTC154583	वियोना मेटल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
22	AB2406310	U29308TG2021PTC156579	अभ्युडी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
23	AB2334738	U85110TG2022PTC164684	मेगसान डायग्नोस्टिक्स निज़ामाबाद प्राइवेट लिमिटेड
24	AB2316743	U85300TG2022PTC164513	मेगसान एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड
25	AB2547678	U63030TG2022OPC161462	मायडीका (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
26	AB2379106	U26933TG2022PTC160627	एमसिकॉन कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड
27	AB2345783	U74999TG2022PTC160837	क्लाइमैग्रिप ईको सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
28	AB2334998	U85110TG2022PTC164143	मेगसान डायग्नोस्टिक्स राजामुंद्री प्राइवेट लिमिटेड
29	AB2373943	U47990TS2023PTC172800	हेरिटर हाई-टेक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड
30	AB2551960	U82990TS2023PTC173573	ब्रांड वारलॉक्स प्राइवेट लिमिटेड
31	AB2546898	U20299TS2024PTC181498	फ्लुओरोकैट फ्लुओरोकेमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
32	AB2486877	U62013TS2025PTC192611	सिक्रानोवा प्राइवेट लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्टर से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

3. तदनुसार, कम्पनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्टर से हटाने का प्रस्ताव करता है।

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं।

हरिहर साहू
रजिस्ट्रार
प्रसंस्करण त्वरित कॉर्पोरेट निकास केंद्र

प्रारूप संख्या एसटीके-6
सार्वजनिक सूचना

{कम्पनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्टर से कम्पनियों का नाम हटाना)

नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में}

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित कम्पनी का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 3 फरवरी 2025

सं. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/1771—

S.No.	Work Item	CIN	Hindi Name
1	AB2412442	U27104TN1996PTC035055	एलाइट स्कैफ प्राइवेट लिमिटेड
2	AB2330382	U93000TN2010PTC074905	नालंदा अकादमी ऑफ करियर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
3	AB2307578	U72900TN2011PTC080893	कोलंबसएगेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
4	AB2222312	U45400TN2012PTC087565	एक्मे फाउंडेशंस प्राइवेट लिमिटेड
5	AB2360612	U24239TN2011PTC082558	कोरल न्यूट्रास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
6	AB2375513	U72900TN2013PTC092043	हेस्टिया स्टूडियोज प्राइवेट लिमिटेड

S.No.	Work Item	CIN	Hindi Name
7	AB2522805	U72300TN2016PTC103714	पिटमैन इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
8	AB2261389	U74999TN2016PTC113229	जीलिगंट सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड
9	AB2308336	U72900TZ2016OPC027623	पॉइंटडॉट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (ओपीसी)
10	AB2340594	U72900TZ2017PTC029264	नाइटिंगेल सॉफ्टवेयर पार्क प्राइवेट लिमिटेड
11	AB2406456	U85100TN2017PTC118507	आयुषोवेद प्राइवेट लिमिटेड
12	AB2542282	U74999TN2016PTC113177	सागफोर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
13	AB2426185	U45500TZ2018PTC030653	कुगा कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
14	AB2329982	U85500TN2018PTC120982	एन्वारिस एस प्राइवेट लिमिटेड
15	AB2269649	U72900TN2018FTC124007	एम्पिरिकल डेटा प्राइवेट लिमिटेड
16	AB2245961	U74999TN2018PTC124746	नेटर होम्स प्राइवेट लिमिटेड
17	AB2341788	U92490TN2019PTC128934	इन्सिआई ऐप प्राइवेट लिमिटेड
18	AB2363029	U51909TN2020PTC134690	ज़िरकॉन डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
19	AB2285387	U15490TN2020PTC135626	युमाउम फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
20	AB2456157	U72900TN2020PTC137796	अर्नियो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
21	AB2401528	U15490TZ2021PTC035465	नालन फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
22	AB2393759	U52520TN2021PTC145390	आलामारा गोल्ड पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड
23	AB2465069	U72900TN2021OPC144493	बिटारिमा इंडिया (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
24	AB2410238	U74999TN2021PTC147946	मार्कवेल बिजनेस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
25	AB2463724	U55101TN2021PTC147963	कॉस्मोपोल प्राइड पीकेएम प्राइवेट लिमिटेड
26	AB2485716	U15549TZ2022PTC038198	एसोस फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
27	AB2260002	U01100TZ2022PTC039556	श्री कार्पगा विनायक एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड
28	AB2429100	U50101TN2022PTC150636	ईव्हीकलज़360 ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड
29	AB2511344	U72900TN2022PTC153128	केओ बिजनेस इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड
30	AB2456419	U92490TZ2022PTC040533	ज़ेट्राओट.कॉम प्राइवेट लिमिटेड
31	AB2523681	U45500TN2022PTC157223	वाशान प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
32	AB2491097	U41001TN2023PTC160533	एसएसरी बिल्डिंग डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
33	AB2399921	U62099TN2023OPC166430	हंटडाउन गेमिंग सॉल्यूशंस (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
34	AB2469923	U52291TN2024PTC170266	डोवांडरिंग हॉलीडेज़ प्राइवेट लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्ट्रार से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

3. तदनुसार, कम्पनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्ट्रार से हटाने का प्रस्ताव करता है।

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं।

हरिहर साहू
रजिस्ट्रार
प्रसंस्करण त्वरित कॉर्पोरेट निकास केंद्र

प्रारूप संख्या एसटीके-6

सार्वजनिक सूचना

{कम्पनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्टर से कम्पनियों का नाम हटाना)

नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में}

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित कम्पनी का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 3 फरवरी 2025

सं. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/1772—

S.No.	Work Item	CIN	Hindi Name
1	AB2291232	U67120UP1999PTC024257	सुरभि एन्वायरोटेक प्राइवेट लिमिटेड
2	AB2397240	U45400UP2012PTC052033	हार्मनी इंफ्राडेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
3	AB2529537	U74999UP2018PTC109246	लाइफफैक्ट्री मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
4	AB2435902	U72900UP2018PTC107807	बोटेक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
5	AB2365969	U65990UP2019PLC120286	गुंजन निधि लिमिटेड
6	AB2398101	U40300UP2019PTC122143	आरएसडी गैस प्राइवेट लिमिटेड
7	AB2273717	U74110UP2013PTC059050	सिबी टेरा कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
8	AB2461703	U67100UP2020PTC127597	5आइरिचन टेक्नो प्राइवेट लिमिटेड
9	AB2418232	U74140UP2020PTC127303	दिव्य वैदिक साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
10	AB2294998	U45500UP2020PTC129729	वीडीएस इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड
11	AB2238813	U45400UP2020PTC130591	ब्लूपीनिक्स इंफ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड
12	AB2492643	U74999UP2020PTC130482	लस्ट्रस आंत्रप्रेन्योर प्राइवेट लिमिटेड
13	AB2309684	U50400UP2021PTC140597	श्यामा श्याम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड
14	AB2426216	U15549UP2020PTC136188	हैलो बास्केट प्राइवेट लिमिटेड
15	AB2417332	U15490UP2021OPC143043	गागो फूड एंड बेवरेज (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
16	AB2423415	U15132UP2021PTC149973	स्वाधार टेस्ट फ्लौर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
17	AB2393719	U01100UP2021PTC154098	गंगापुर एग्री जंक्शन फार्मर प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड
18	AB2366020	U65929UP2021PLN157329	एआरडी अवनी निधि लिमिटेड
19	AB2369368	U65990UP2021PTC152385	सैफी फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड
20	AB2402834	U72900UP2022PTC167609	ऑनटॉक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
21	AB2376096	U74999UP2021PTC154794	हैप्पीमाँ प्राइवेट लिमिटेड
22	AB2407029	U52322UP2021PTC152730	ग्रॉसीकेयर मार्ट प्राइवेट लिमिटेड
23	AB2359325	U65990UP2022PLN164906	हरेंद्र एंड हरेंद्र निधि लिमिटेड
24	AB2384239	U72900UP2022OPC164170	सोनिकजार मीडिया (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
25	AB2384005	U15400UP2022PTC162937	भुंगला एग्री प्राइवेट लिमिटेड
26	AB2458378	U80900UP2022PTC170067	जीएसएल एजुकेयर प्राइवेट लिमिटेड
27	AB2325173	U55100UP2022PTC171808	रूटमिट फूड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
28	AB2224308	U65990UP2022PLN172170	एचएफडीआई निधि लिमिटेड
29	AB2437009	U50500UP2022PTC173993	माइटी बार्नर्स फ्यूल प्राइवेट लिमिटेड
30	AB2376102	U15490UP2022PTC175640	अल फाया फ्रोजन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
31	AB2440465	U80900UP2022PTC173781	एसएसजीआरएन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड

S.No.	Work Item	CIN	Hindi Name
32	AB2413132	U35201UP2023PTC178530	श्री पारसनाथ बायो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
33	AB2351341	U68200UP2023PTC177614	देवरिया डेवलपर्स एंड कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड
34	AB2528966	U22209UP2023PTC182943	ऑसम ब्रशवेयर प्राइवेट लिमिटेड
35	AB2468604	U47720UP2023PTC193612	नीसुर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
36	AB2503100	U68200UP2024PTC196451	वीएसपीपीएस इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड
37	AB2371094	U46909UP2024PTC196672	एआरवी नैचुरल्स प्राइवेट लिमिटेड
38	AB2371832	U62013UP2024PTC199803	ग्लोबल आईटी विजार्ड प्राइवेट लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्टर से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

3. तदनुसार, कम्पनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्टर से हटाने का प्रस्ताव करता है।

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं।

हरिहर साहू

रजिस्ट्रार

प्रसंस्करण त्वरित कॉर्पोरेट निकास केंद्र

प्रारूप संख्या एसटीके-6

सार्वजनिक सूचना

{कम्पनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्टर से कम्पनियों का नाम हटाना)

नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में}

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित कम्पनी का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 3 फरवरी 2025

सं. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/1773—

S.No.	Work Item	CIN	Hindi Name
1	AB2385207	U74210WB1983PTC036853	साल्टकॉन इंजीनियर्स एंड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
2	AB2417374	U74999WB1992PTC054370	मल्टीपावर डीजल्स (ईस्टर्न) प्राइवेट लिमिटेड
3	AB2110018	U74140WB1993PTC059844	जैनी बायो टेक प्राइवेट लिमिटेड
4	AB2382959	U74210WB1988PTC043860	एम. मृदुला एंड एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड
5	AB2326899	U51909WB1995PTC067903	एवी एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड
6	AB2521030	U63090WB2004PTC098016	अनुसू सर्विस एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड
7	AB2360814	U51109WB2007PTC115605	अरिहंत विनिमय प्राइवेट लिमिटेड
8	AB2408034	U45400WB2008PTC126507	शानिया डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
9	AB2422465	U52100WB2010PTC148711	कुलवर्धिनी विनकॉम प्राइवेट लिमिटेड
10	AB2348400	U51909WB2010PTC149879	ब्लेसिंग ट्रेडकॉम प्राइवेट लिमिटेड
11	AB2324888	U52100WB2010PTC150095	तपस्विनी डीलकॉम प्राइवेट लिमिटेड

S.No.	Work Item	CIN	Hindi Name
12	AB2324331	U52100WB2010PTC150102	सुमुखन विनट्रेड प्राइवेट लिमिटेड
13	AB2536262	U52100WB2010PTC150070	शत्रुघ्नह सेल्स प्राइवेट लिमिटेड
14	AB2423439	U52100WB2010PTC147666	सुवीरा डीलकॉम प्राइवेट लिमिटेड
15	AB2329114	U52190WB2010PTC149118	विदिशा डीलट्रेड प्राइवेट लिमिटेड
16	AB2426233	U93000WB2010PTC155243	रिद्धि सिद्धि एम्बॉस प्राइवेट लिमिटेड
17	AB2422735	U74999WB2012PTC179567	ऑरपिमेंट सप्लायर्स प्राइवेट लिमिटेड
18	AB2423706	U51909WB2012PTC183283	वोगुइश ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड
19	AB2418893	U51909WB2012PTC182102	रबसिन ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड
20	AB2392989	U51909WB2012PTC181803	प्रॉपर्टाइम विनट्रेड प्राइवेट लिमिटेड
21	AB2424474	U74999WB2011PTC170526	मेरिको लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
22	AB2371877	U74900WB2012PTC187352	मेडिजेन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड
23	AB2486359	U01403WB2012PTC175726	अमरेली इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
24	AB2408069	U51909WB2011PTC169768	कृपालु विनट्रेड प्राइवेट लिमिटेड
25	AB2384823	U74900WB2012PTC188093	एटीन 99 गेमिंग एंड टर्फ स्पोर्ट्स क्लब प्राइवेट लिमिटेड
26	AB2371596	U70102WB2013PTC194209	मैक्सटर प्लाजा प्राइवेट लिमिटेड
27	AB2073903	U51909WB2013PTC190337	लुकलाइक मर्केटाइल प्राइवेट लिमिटेड
28	AB2367791	U45400WB2007PTC116575	काइजेन इंफ्रा डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड
29	AB2542162	U74900WB2015PTC208964	नाथूलाल फूड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
30	AB2461117	U74900WB2015PTC207636	ओर्फिकार्ड टेक प्राइवेट लिमिटेड
31	AB2476232	U64200WB2016PTC215687	क्रोनिज़ टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
32	AB2393486	U14299WB2017PTC219409	एक्सटेरा माइनिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
33	AB2437313	U74999WB2018PTC227484	ज्येतून मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड
34	AB2429535	U74999WB2018PTC229053	केएनबी एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
35	AB2364061	U51909WB2019PTC229574	ग्रेयनोट प्राइवेट लिमिटेड
36	AB2273364	U72900WB2019PTC232697	जीटेकहंट प्राइवेट लिमिटेड
37	AB2374188	U72900WB2019OPC233983	लोकांतो इंडिया (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
38	AB2525256	U70109WB2021PTC244604	प्राइम टाउन प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
39	AB2461781	U51909WB2021PTC247372	देवऋषिदत्ता इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
40	AB2485453	U80900WB2022OPC255397	गोल्डन रूल्स एजु&बी (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
41	AB2139997	U70100WB2021PTC250392	वैलिसिटी रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड
42	AB2098826	U55204WB2021PTC250478	आइडेंटिटी हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड
43	AB2407914	U73200WB2022OPC253339	हेपमर (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
44	AB2446562	U78100WB2023PTC263017	केसीएम ट्रेनिंग एंड जॉब प्लेसमेंट प्राइवेट लिमिटेड
45	AB2439502	U47912WB2023PTC266815	विटापुरिस एसेंस प्राइवेट लिमिटेड
46	AB2464709	U21001WB2023PTC266752	ऑरेंज आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड
47	AB2537931	U86905WB2024PTC267828	अलोना रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्टर से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

3. तदनुसार, कम्पनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्टर से हटाने का प्रस्ताव करता है।

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं।

हरिहर साहू

रजिस्ट्रार

प्रसंस्करण त्वरित कॉर्पोरेट निकास केंद्र

एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में}

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(5) के तहत निम्नलिखित कंपनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 3 फरवरी 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2024-25/1776—यह इस कार्यालय नोटिस संख्या और आवेदन (फॉर्म एसटीके 2) के संबंध में एसआरएन के रूप में उल्लिखित है। नोटिस एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उप-धारा (5) के अनुसार निम्नलिखित कंपनियों के नाम इस दिन 8/02/2025 से कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त कंपनियों का विघटन हो गया है :—

S.No.	Work Item	CIN	Hindi Name
1	AB2052989	U74999AP2016PTC104211	पोमाला एसपी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
2	AB1999531	U05000AP2018PTC109430	श्री विजया दुर्गा सीफूड वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
3	AB1947510	U15400AP2022PTC122186	टाउन किचन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
4	AB1866202	U46497AP2023PTC112630	गोबिंदो फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
5	AB1862207	U45400AP2016PTC098038	नाइन इंफ्रा इंजीनियर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
6	AB1734500	U52209AP2021PTC119195	जस्विक मेरियन हब प्राइवेट लिमिटेड

हरिहर साहू

रजिस्ट्रार, सीपीएसीई

मानेसर, हरियाणा

एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में}

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(5) के तहत निम्नलिखित कंपनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 3 फरवरी 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2024-25/1777—यह इस कार्यालय नोटिस संख्या और आवेदन (फॉर्म एसटीके 2) के संबंध में एसआरएन के रूप में उल्लिखित है। नोटिस एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उप-धारा (5)

के अनुसार निम्नलिखित कंपनियों के नाम इस दिन 8/02/2025 से कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त कंपनियों का विघटन हो गया है :—

S.No.	Work Item	CIN	Hindi Name
1	AB2027093	U85300AS2021PTC022226	यू ए वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
2	AB1955867	U15490AS2020PTC020663	वाहेंगबम ब्रदर्स एग्रो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड

हरिहर साहू
रजिस्ट्रार, सीपीएसीई
मानेसर, हरियाणा

एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में}

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(5) के तहत निम्नलिखित कंपनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 3 फरवरी 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2024-25/1778—यह इस कार्यालय नोटिस संख्या और आवेदन (फॉर्म एसटीके 2) के संबंध में एसआरएन के रूप में उल्लिखित है। नोटिस एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उप-धारा (5) के अनुसार निम्नलिखित कंपनियों के नाम इस दिन 8/02/2025 से कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त कंपनियों का विघटन हो गया है :—

S.No.	Work Item	CIN	Hindi Name
1	AB2007958	U72900BR2022PTC060546	स्मार्टसिग्मा आईटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
2	AB1941535	U45309BR2021PLC053128	रिचुअल कंस्ट्रक्शन्स एंड इन्फ्रा लिमिटेड
3	AB1823644	U15122BR2013PTC035796	कुंभाह टी प्राइवेट लिमिटेड

हरिहर साहू
रजिस्ट्रार, सीपीएसीई
मानेसर, हरियाणा

एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में}

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(5) के तहत निम्नलिखित कंपनी का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 3 फरवरी 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2024-25/1779—यह इस कार्यालय नोटिस संख्या और आवेदन (फॉर्म एसटीके 2) के संबंध में एसआरएन के रूप में उल्लिखित है। नोटिस एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उप-धारा (5) के अनुसार निम्नलिखित कंपनी के नाम इस दिन 8/02/2025 से कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त कंपनी का विघटन हो गया है :—

S.No.	Work Item	CIN	Hindi Name
1	AB1927933	U72900CT2021PTC011724	सर्वांग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड

हरिहर साहू
रजिस्ट्रार, सीपीएसीई
मानेसर, हरियाणा

एसटीके-7
नाम हटाने और विघटन की सूचना

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में}

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(5) के तहत निम्नलिखित कंपनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 3 फरवरी 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2024-25/1780—यह इस कार्यालय नोटिस संख्या और आवेदन (फॉर्म एसटीके 2) के संबंध में एसआरएन के रूप में उल्लिखित है। नोटिस एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उप-धारा (5) के अनुसार निम्नलिखित कंपनियों के नाम इस दिन 8/02/2025 से कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त कंपनियों का विघटन हो गया है :—

S.No.	Work Item	CIN	Hindi Name
1	AB2049150	U74999DL2021PTC382351	पेट सेट पॉ प्राइवेट लिमिटेड
2	AB2032433	U93190DL2023PTC411579	परफेक्ट-पिच स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
3	AB2017604	U74102DL2024OPC430488	हॉइड वेंचर (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
4	AB1540311	U74999DL2014PTC271592	एयर एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
5	AB1540458	U55101DL2016PTC298629	वितर्का हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड
6	AB2015280	U74899DL1990PTC041376	दीअंजलि स्टैम्पिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
7	AB2007035	U82300DL2023PTC423609	टेलर मेड ड्रीम्स प्राइवेट लिमिटेड
8	AB2005425	U74140DL2021PTC384212	ड्रॉज़ी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
9	AB1998125	U74999DL2015PTC285848	एमबीएक्स बिजनेस कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
10	AB1992701	U74999DL2017PTC315434	अथयोर्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
11	AB1990181	U15100DL2021PTC382627	जॉयस्ट्रीट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
12	AB1989560	U82990DL2024PTC428540	ईसर्व एनस्पायर वर्क प्राइवेट लिमिटेड
13	AB1954608	U85499DL2023OPC421333	दाई केयर (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
14	AB1944171	U74899DL1994PTC062439	आकाश गंगा पोर्टफोलियोस प्राइवेट लिमिटेड
15	AB1944134	U62099DL2023PTC421192	एशियामैक्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
16	AB1940953	U74899DL1992PTC051146	राजीव एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
17	AB1937055	U74120DL2012PTC235394	लुमस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
18	AB1933747	U35990DL2021PTC376116	मारुत इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
19	AB1654071	U25111DL1998PTC068198	चौधरी टायर्स प्राइवेट लिमिटेड
20	AB1933400	U72900DL2022PTC397002	नेक्स्टजेन गेमिंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड
21	AB1916242	U67190DL2022PTC396021	फिनक्रिटिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
22	AB1911196	U70103DL2016PTC306393	ब्रॉडफील्ड रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
23	AB1907453	U74899DL1995PTC070192	स्ट्रिंग डिवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
24	AB1895807	U18101DL2008PTC177606	दुर्गा क्रिएशन्स प्राइवेट लिमिटेड
25	AB1716955	U74999DL2018PTC341913	पिपोरे बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड
26	AB1889517	U72200DL2016PTC301903	लर्निंग ड्रोम प्राइवेट लिमिटेड
27	AB1875402	U72900DL2021PTC376749	संकाई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
28	AB1873103	U47521DL2023OPC424185	संशा एक्सिम (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
29	AB1866461	U56101DL2023PTC421569	अंशी लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड
30	AB1865008	U74899DL1995PTC070802	चिनार मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड
31	AB1734836	U22219DL2019PLC346511	पीकेजे पब्लिशर्स लिमिटेड
32	AB1861779	U74994DL2018OPC329360	गुरुजी एस्ट्रोलाजी एंड वेदिक मंत्रास प्रेयर्स (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड

S.No.	Work Item	CIN	Hindi Name
33	AB1861006	U74999DL2022PTC405663	केडीएसआर सिक्योरिटी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
34	AB1854153	U65992DL2001PTC112610	संभव चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड
35	AB1852326	U19201DL1993PTC053256	कैपिटल पॉलिमर्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
36	AB1841983	U49230DL2004PTC124850	डी के इन्वेस्टिगेटर्स प्राइवेट लिमिटेड
37	AB1752854	U72900DL2022PTC398559	जेडएमके डिजिटल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
38	AB1753150	U45201DL2006PTC146135	सत्य दीप बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
39	AB1825159	U72900DL2021OPC390726	सेल ज़ोन इम्पेक्स (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
40	AB1822456	U93090DL2017PTC319761	वर्कशिप ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड
41	AB1803549	U55209DL2020PTC366006	स्पेक्ट्रे किचन प्राइवेट लिमिटेड
42	AB1794002	U74999DL2017PTC322850	डिलिजेंट रेंटल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
43	AB1775965	U52609DL2019PTC344976	रिज़होराइजन प्राइवेट लिमिटेड

हरिहर साहू
रजिस्ट्रार, सीपीएसीई
मानेसर, हरियाणा

एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में}

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(5) के तहत निम्नलिखित कंपनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 3 फरवरी 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2024-25/1781—यह इस कार्यालय नोटिस संख्या और आवेदन (फॉर्म एसटीके 2) के संबंध में एसआरएन के रूप में उल्लिखित है। नोटिस एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उप-धारा (5) के अनुसार निम्नलिखित कंपनियों के नाम इस दिन 8/02/2025 से कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त कंपनियों का विघटन हो गया है :—

S.No.	Work Item	CIN	Hindi Name
1	AB2021757	U72900GA2022OPC015655	किंग्र टेक्नी (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
2	AB1765293	U55101GA2024PTC016536	एमकेबीपी हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड

हरिहर साहू
रजिस्ट्रार, सीपीएसीई
मानेसर, हरियाणा

एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में}

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(5) के तहत निम्नलिखित कंपनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 3 फरवरी 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2024-25/1782—यह इस कार्यालय नोटिस संख्या और आवेदन (फॉर्म एसटीके 2) के संबंध में एसआरएन के रूप में उल्लिखित है। नोटिस एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उप-धारा (5)

के अनुसार निम्नलिखित कंपनियों के नाम इस दिन 8/02/2025 से कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त कंपनियों का विघटन हो गया है :—

S. No.	Work Item	CIN	Hindi Name
1	AB2071594	U27100GJ1973PTC002434	इनवेंटा स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड
2	AB2030335	U45309GJ2021PTC127627	सिमंधर बिल्डस्पेस प्राइवेट लिमिटेड
3	AB2015666	U72200GJ2013PTC075263	पीवीडी कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
4	AB2011466	U72900GJ2019PTC109673	पीएम-क्यूब सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
5	AB1988122	U52100GJ2014PTC081470	प्रेमदीप एग्रो जेनेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
6	AB1969626	U24231GJ1993PTC020484	विजय दीप डाई-केम प्राइवेट लिमिटेड
7	AB1937505	U40300GJ2022PTC128815	सत्यजीत रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
8	AB1918060	U29308GJ2021PTC127889	भालिया एंड सिंह प्राइवेट लिमिटेड
9	AB1574826	U72300GJ2013PTC077029	यूनिक ई-कॉमर्स सेंटर प्राइवेट लिमिटेड
10	AB1913832	U70200GJ2023PTC143183	पीजी क्लिक यूनिवर्सल प्राइवेट लिमिटेड
11	AB1904253	U27201GJ2024PTC147431	बॉलकप एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
12	AB1899037	U63030GJ2017PTC096893	एमडीएसएस ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड
13	AB1886075	U51909GJ2021PTC123403	मायरियड एपोथेकरी प्राइवेट लिमिटेड
14	AB1885980	U01111GJ2012PTC069344	लीला सीड्स प्राइवेट लिमिटेड
15	AB1881147	U50100GJ2020PTC115498	मोटर डील टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
16	AB1865275	U36912GJ1989PTC013127	सीजीआई ऑप्थाल्मिक प्राइवेट लिमिटेड
17	AB1844466	U45201GJ1993PTC018862	चंपानेर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
18	AB1831167	U72900GJ2014PTC081232	एम्पावर टेक्नोविजन प्राइवेट लिमिटेड
19	AB1811431	U92312GJ1995PTC057690	मैजिक बॉक्स प्रोडक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
20	AB1799241	U40106GJ2022PTC137023	ग्री रिन्यू एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
21	AB1707545	U51909GJ2020PTC112479	ग्रीनस्पार्क सनलाइट प्राइवेट लिमिटेड

हरिहर साहू
रजिस्ट्रार, सीपीएसीई
मानेसर, हरियाणा

एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में}

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(5) के तहत निम्नलिखित कंपनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 3 फरवरी 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2024-25/1783—यह इस कार्यालय नोटिस संख्या और आवेदन (फॉर्म एसटीके 2) के संबंध में एसआरएन के रूप में उल्लिखित है। नोटिस एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उप-धारा (5) के अनुसार निम्नलिखित कंपनियों के नाम इस दिन 8/02/2025 से कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त कंपनियों का विघटन हो गया है :—

S.No.	Work Item	CIN	Hindi Name
1	AB2081321	U80902HR2022PTC105969	पैशनआर ड्रीमवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
2	AB2038992	U21000HR2021OPC093317	दिव्य पेपर प्रोडक्ट्स (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड

S.No.	Work Item	CIN	Hindi Name
3	AB2033094	U72900HR2021PTC097380	वर्चुअल यूटिलिटी प्राइवेट लिमिटेड
4	AB2015809	U51909HR2022PTC101624	एसआरपीसी ट्रेडसर्व प्राइवेट लिमिटेड
5	AB2009257	U85100HR2019PTC084016	कपितास बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड अलायंसेज प्राइवेट लिमिटेड
6	AB2005993	U74109HR2023PTC110058	कोज़मिक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
7	AB2005936	U74999HR2022PTC101186	एमडब्ल्यूएस टेक सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
8	AB1932779	U15520HR2021PTC095380	एथर डिस्टिलर्स प्राइवेट लिमिटेड
9	AB1926123	U62099HR2024PTC120363	अल्ट बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड
10	AB1924008	U47912HR2023PTC115760	अर्बन हर्ब्स हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
11	AB1921510	U74999HR2020PTC085872	विनफ्लुएंशल्स प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
12	AB1899540	U74999HR2022PTC103652	वॉम प्रोमो प्राइवेट लिमिटेड
13	AB1895208	U52211HR2024PTC121444	प्रीएक्सपार्क प्राइवेट लिमिटेड
14	AB1868160	U52599HR2022PTC102715	नॉर्थ वेस्ट पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड
15	AB1856729	U47211HR2023PTC115148	केएसकेटी एग्रीकार्ट प्राइवेट लिमिटेड
16	AB1852516	U40100HR2022FTC103338	रेडियन पावर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
17	AB1849070	U74999HR2018PTC075904	सोलक्रेस्ट एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
18	AB1724675	U72900HR2022OPC106675	याहर कंसल्टेंसी (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड

हरिहर साहू
रजिस्ट्रार, सीपीएसई
मानेसर, हरियाणा

एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में}

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(5) के तहत निम्नलिखित कंपनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 3 फरवरी 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2024-25/1784—यह इस कार्यालय नोटिस संख्या और आवेदन (फॉर्म एसटीके 2) के संबंध में एसआरएन के रूप में उल्लिखित है। नोटिस एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उप-धारा (5) के अनुसार निम्नलिखित कंपनियों के नाम इस दिन 8/02/2025 से कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त कंपनियों का विघटन हो गया है :—

S.No.	Work Item	CIN	Hindi Name
1	AB1882328	U92132TG2011PTC074339	सिरांजली मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
2	AB1865751	U64200TG2022PTC165903	डिजीस्ट्रीम ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
3	AB1861409	U72200TG2016PTC113476	चीप एसएमएस डॉट कॉम बल्क मैसेजिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
4	AB1858382	U01409TG2021PTC151464	गुप्ता सेल्स एंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
5	AB1837091	U74110TG2020PTC141611	स्वस्तिक वन प्राइवेट लिमिटेड
6	AB1794417	U74999TG2018PTC121762	ओविया इंटीरियर्स सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
7	AB1780197	U74994TG2018PTC121641	एक्विलेजिया ट्रेडिंग कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
8	AB1779852	U52609TG2018PTC121575	रुध्मा ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
9	AB1778943	U74999TG2018PTC121662	गैलेर्डिया इंडेंट ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड

S.No.	Work Item	CIN	Hindi Name
10	AB1758386	U24230TG1995PLC020644	वेरा फार्मा लिमिटेड
11	AB1757256	U74999TG2008PTC059636	आईटेकमेथड्स सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

हरिहर साहू
रजिस्ट्रार, सीपीएसीई
मानेसर, हरियाणा

एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में}

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(5) के तहत निम्नलिखित कंपनी का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 3 फरवरी 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2024-25/1785—यह इस कार्यालय नोटिस संख्या और आवेदन (फॉर्म एसटीके 2) के संबंध में एसआरएन के रूप में उल्लिखित है। नोटिस एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उप-धारा (5) के अनुसार निम्नलिखित कंपनी के नाम इस दिन 8/02/2025 से कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त कंपनी का विघटन हो गया है :—

S.No.	Work Item	CIN	Hindi Name
1	AB1639155	U74900JK2011PTC003397	केपीओ पब्लिकेशन सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड

हरिहर साहू
रजिस्ट्रार, सीपीएसीई
मानेसर, हरियाणा

एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में}

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(5) के तहत निम्नलिखित कंपनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 3 फरवरी 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2024-25/1786—यह इस कार्यालय नोटिस संख्या और आवेदन (फॉर्म एसटीके 2) के संबंध में एसआरएन के रूप में उल्लिखित है। नोटिस एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उप-धारा (5) के अनुसार निम्नलिखित कंपनियों के नाम इस दिन 8/02/2025 से कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त कंपनियों का विघटन हो गया है :—

S.No.	Work Item	CIN	Hindi Name
1	AB1971941	U85500JH2023PTC020985	इंटेलिटीक कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड
2	AB1896707	U00314JH1994PTC006120	एस.जी. एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
3	AB1762367	U45201JH2016PTC003592	नमहार इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड
4	AB1659531	U45209JH2020PTC015746	पैनइंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड

हरिहर साहू
रजिस्ट्रार, सीपीएसीई
मानेसर, हरियाणा

एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में}

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(5) के तहत निम्नलिखित कंपनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 3 फरवरी 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2024-25/1787—यह इस कार्यालय नोटिस संख्या और आवेदन (फॉर्म एसटीके 2) के संबंध में एसआरएन के रूप में उल्लिखित है। नोटिस एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उप-धारा (5) के अनुसार निम्नलिखित कंपनियों के नाम इस दिन 8/02/2025 से कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त कंपनियों का विघटन हो गया है :—

S.No.	Work Item	CIN	Hindi Name
1	AB0541491	U72200KA2015PTC084522	नेक्सवेरक्स सिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2	AB1179583	U67120KA2003PTC031589	कृष एंड राम फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड
3	AB2062932	U72900KA2021OPC152143	ब्लूलेन वर्ल्ड टेक्नोलॉजीज (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
4	AB2044388	U64990KA2023PTC175295	धारवाड़ सरल चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
5	AB2041079	U74999KA2017PTC099460	डी एंड के जनरल ओवरसीज कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
6	AB2033002	U51909KA2020OPC136120	आरपीकॉन्ग (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
7	AB2012522	U42909KA2023OPC176967	कोरलबीड्स मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
8	AB1976531	U49223KA2023OPC180493	मिटपास स्टूडियो (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
9	AB1969044	U25190KA2020PTC133619	एसएमआर ग्लोबल लेटेक्स प्राइवेट लिमिटेड
10	AB1945231	U72200KA2018PTC113434	बाउंटिफुल सॉफ्टवेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
11	AB1938242	U52100KA2022PTC161135	सांवी ग्लोबल ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड
12	AB1930159	U62099KA2023OPC171352	क्लब मिली डिजिटल (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
13	AB1915561	U72100KA2015PTC080194	व्हाइट टाइगर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
14	AB1900152	U80904KA2018PTC117738	अलायंस प्रेस्टीज इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
15	AB1897973	U74140KA2006PTC040682	हयूरियन कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
16	AB1895360	U82910KA2024PTC186882	इंटेलीवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
17	AB1892914	U51909KA2020PTC133146	उद्रेका एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
18	AB1887678	U85195KA2003PTC031964	क्रायो स्टेमसेल प्राइवेट लिमिटेड
19	AB1885554	U70109KA2019PTC125451	प्रॉपनेक्स बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
20	AB1877552	U52393KA2022PTC158174	नाकासे एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
21	AB1844953	U74999KA2022PTC159742	न्यूसिग्मा ग्लोबल कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
22	AB1831139	U10790KA2023PTC182179	न्यूट्रीपद्धा मंचीज़ प्राइवेट लिमिटेड
23	AB1828101	U74999KA2022OPC165755	विक्षित गणेश (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
24	AB1774050	U86909KA2023PTC177445	संगवन योग वेलनेस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
25	AB1770906	U74900KA2015PTC084857	फ्लिक्की गेम्स प्राइवेट लिमिटेड
26	AB1769857	U55101KA2021PTC144016	गुडशेफ हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड

हरिहर साहू
रजिस्ट्रार, सीपीएसई
मानेसर, हरियाणा

एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में}

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(5) के तहत निम्नलिखित कंपनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 3 फरवरी 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2024-25/1788—यह इस कार्यालय नोटिस संख्या और आवेदन (फॉर्म एसटीके 2) के संबंध में एसआरएन के रूप में उल्लिखित है। नोटिस एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उप-धारा (5) के अनुसार निम्नलिखित कंपनियों के नाम इस दिन 8/02/2025 से कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त कंपनियों का विघटन हो गया है :—

S.No.	Work Item	CIN	Hindi Name
1	AB1980359	U74999KL2020PTC062440	फ्यूचर एन्क्रिप्ट प्राइवेट लिमिटेड
2	AB1970317	U72900KL2021PTC067848	ब्राइट ट्री वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
3	AB1958230	U92490KL2022OPC079346	एल बी प्रोडक्शन्स (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
4	AB1938777	U74999KL2019PTC058449	एमक्लिक प्राइवेट लिमिटेड
5	AB1934734	U72900KL2020PTC063852	एसिनोनिक्स टेक लैब्स प्राइवेट लिमिटेड
6	AB1900577	U31900KL2020PTC063076	अलाइव आइडियाज प्राइवेट लिमिटेड
7	AB1897547	U63040KL2010PTC026542	जारा एक्टिव वैकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
8	AB1567391	U01114KL2016PTC046911	त्रिशूर ऑर्गेनिक फार्म प्राइवेट लिमिटेड
9	AB1882810	U80902KL2020OPC066596	ट्रेंड टू शाइन (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
10	AB1881568	U47210KL2023PTC084977	एमआरजी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
11	AB1837669	U72200KL2011PTC027475	धिलॉजिक्स सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
12	AB1837051	U66190KL2023PTC082673	अक्षय मनी एक्सचेंज प्राइवेट लिमिटेड
13	AB1810052	U24290KL2021PTC072692	ब्लूमिन लाइफकेयर प्राइवेट लिमिटेड
14	AB1788525	U74999KL2018PTC053178	न्यूफाइनेंज़ प्राइवेट लिमिटेड
15	AB1775750	U65992KL2018PTC055605	वासुरेवथ चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
16	AB1643311	U14108KL1994PLC007975	मुथूट एपीटी सेरामिक्स लिमिटेड

हरिहर साहू
रजिस्ट्रार, सीपीएसीई
मानेसर, हरियाणा

एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में}

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(5) के तहत निम्नलिखित कंपनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 3 फरवरी 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2024-25/1789—यह इस कार्यालय नोटिस संख्या और आवेदन (फॉर्म एसटीके 2) के संबंध में एसआरएन के रूप में उल्लिखित है। नोटिस एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उप-धारा (5)

के अनुसार निम्नलिखित कंपनियों के नाम इस दिन 8/02/2025 से कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त कंपनियों का विघटन हो गया है :—

S.No.	Work Item	CIN	Hindi Name
1	AB1927226	U82990MP2023PTC068661	रैडिएंटेजा वर्टेक्स प्राइवेट लिमिटेड
2	AB1923343	U74999MP2016PTC041923	ललिता इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड
3	AB1896391	U70101MP2013PTC030792	केसर इन्फ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
4	AB1824052	U33111MP2021PTC057651	वाइटल वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड

हरिहर साहू
रजिस्ट्रार, सीपीएसीई
मानेसर, हरियाणा

एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में}

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(5) के तहत निम्नलिखित कंपनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 3 फरवरी 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2024-25/1790—यह इस कार्यालय नोटिस संख्या और आवेदन (फॉर्म एसटीके 2) के संबंध में एसआरएन के रूप में उल्लिखित है। नोटिस एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उप-धारा (5) के अनुसार निम्नलिखित कंपनियों के नाम इस दिन 8/02/2025 से कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त कंपनियों का विघटन हो गया है :—

S.No.	Work Item	CIN	Hindi Name
1	AB2064900	U51900MH2000PTC128023	वाईएमएच एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
2	AB2055280	U63090MH2000PTC130097	सीट्रांस लॉजिस्टिक्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
3	AB2046741	U72900MH2021PTC360702	एडेन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड
4	AB2045919	U46411MH2023PTC413866	जयकौन लाइफस्टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
5	AB2030235	U72300MH2011PTC211838	असिमेट्रिक्स सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
6	AB2026609	U92100MH2005PTC153658	जे एस फिल्मस प्राइवेट लिमिटेड
7	AB2012753	U92410MH2021PTC374225	त्रिशूलिन पिक्चर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
8	AB2002418	U74999MH2016PTC282148	जीवीडी लेटेक्स प्राइवेट लिमिटेड
9	AB1987753	U36990MH2022PTC387016	फर्नडिपोट प्राइवेट लिमिटेड
10	AB1615219	U52292MH2023PTC403120	टाइटन मरीन प्राइवेट लिमिटेड
11	AB1616765	U13946MH2023PTC407690	पूर्वा टेप्स प्राइवेट लिमिटेड
12	AB1973352	U17299MH1997PTC110060	अंदाज़ टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
13	AB1971102	U35923MH2017PTC300843	मेटाट्रॉन टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
14	AB1639624	U24299MH2020PTC351449	अमॉरसूई वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
15	AB1640087	U65990MH1981PTC025532	एंटरमोंडे इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
16	AB1950179	U24299MH2022PTC387678	यूनिप्लांट एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड
17	AB1941557	U72900MH2021PTC372102	इंटेलेब्रिज सॉल्यूशन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
18	AB1940720	U74110MH1985PTC036558	पिक पाइनएप्पल डिजाइनर्स प्राइवेट लिमिटेड

S.No.	Work Item	CIN	Hindi Name
19	AB1940010	U41001MH2023PTC403070	राशेश्वर सेल्स एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
20	AB1933211	U51504MH2020PTC340092	सिंबासआरएल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
21	AB1689418	U34100MH2022PTC382659	प्राची ईवी मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड
22	AB1918629	U55209MH2020PTC345351	एसवी लॉजिंग एंड बोर्डिंग प्राइवेट लिमिटेड
23	AB1917533	U22209MH2024PTC430986	राजनंदा ईकोपेट प्राइवेट लिमिटेड
24	AB1905372	U67200MH2020PTC337343	मंगल रॉयल फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड
25	AB1897693	U55209MH2020PTC336967	शीतल हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड
26	AB1894991	U85110MH2008PTC178690	आशीर्वाद मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड
27	AB1888926	U74900MH2016PTC272994	योशी डायमंड ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड
28	AB1888923	U25992MH2023PTC409285	प्लक्सडी फूड्स एंड बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड
29	AB1874924	U74999MH2016PTC288608	आयोन होम सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
30	AB1874847	U74999MH2019PTC322901	एसपीएमआर फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
31	AB1873259	U92141MH2006PTC163634	आर एंड जे एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड
32	AB1737196	U63040MH2000PTC124358	म्युचुअल ट्रेवल्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
33	AB1871795	U50200MH2019PTC326147	डी कार केयर स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड
34	AB1863707	U55101MH2017PTC300330	सोहम हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड
35	AB1859984	U01100MH2021PTC372955	एशियाब्राउन एग्री रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड
36	AB1748813	U51491MH2001PTC132377	स्पैन फाइबर (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
37	AB1856151	U45202MH2010PTC201908	मधुरम कंस्ट्रक्शंस एंड लैंड डीवलपिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
38	AB1855687	U24223MH1951PLC008367	रेनबो इंक एंड वार्निश मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड
39	AB1852802	U45200MH2015PTC267924	स्कीमैटिक्स डिवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
40	AB1851642	U45201MH2022PTC395263	अविक बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड
41	AB1849096	U27320MH2017PLC296456	एरोपॉइंट ट्रेड लिमिटेड
42	AB1841318	U65990MH2020PTC352840	कवि ट्रेवल्स एंड फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड
43	AB1834335	U67120MH1995PTC091896	रायसोनी सिक्वोरिटीज प्राइवेट लिमिटेड
44	AB1818421	U55109MH2024PTC425052	बज़िन बीएनबी प्राइवेट लिमिटेड
45	AB1812699	U24299MH2019PTC320001	कैपिलरी पैरेंटेरल्स (आई) प्राइवेट लिमिटेड
46	AB1770653	U74102MH2023OPC409730	बोटेगा ईको परिवार (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
47	AB1801559	U43309MH2023PTC413863	एंजल्स बिल्डइंडिया डिवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
48	AB1791398	U45201MH2021PTC366527	अमानेसर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
49	AB1790826	U37200MH2021PTC358870	अमानेसर वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
50	AB1786085	U52500MH2022PTC374459	एवाईपी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
51	AB1782570	U72900MH2022PTC377109	प्रोटेक्नोवेट प्राइवेट लिमिटेड
52	AB1782027	U85100MH2011PTC218035	लेस फ्लेर्स एंजेलिक प्राइवेट लिमिटेड
53	AB1781320	U78100MH2024OPC421163	आर.जी.टी. मैनपावर आउटसोर्सिंग सर्विस (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड

हरिहर साहू
रजिस्ट्रार, सीपीएसीई
मानेसर, हरियाणा

एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में}

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(5) के तहत निम्नलिखित कंपनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 3 फरवरी 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2024-25/1791—यह इस कार्यालय नोटिस संख्या और आवेदन (फॉर्म एसटीके 2) के संबंध में एसआरएन के रूप में उल्लिखित है। नोटिस एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उप-धारा (5) के अनुसार निम्नलिखित कंपनियों के नाम इस दिन 8/02/2025 से कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त कंपनियों का विघटन हो गया है :—

S.No.	Work Item	CIN	Hindi Name
1	AB1936640	U72900PN2021PTC198475	नोज़ोमी मेरिस्टेम प्राइवेट लिमिटेड
2	AB1908732	U22120PN2020PTC196743	बिलियन डॉलर इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड
3	AB1877695	U72502PN2020OPC193002	श्री वैष्णवी कंप्यूटर्स (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
4	AB1875839	U29308PN2017FTC169695	एंटैक विंड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
5	AB1875645	U47714PN2023PTC220122	बोल्डहाइड लेदर एक्सपोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
6	AB1856306	U72200PN2000PTC014524	ई व्यापार इंफो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
7	AB1852590	U74999PN2016PTC166261	श्राइडर एलिवेटर प्राइवेट लिमिटेड
8	AB1841628	U66000PN2022PTC210539	आर भारती आईएमएफ प्राइवेट लिमिटेड
9	AB1840458	U74999PN2017OPC170735	कोडनेक (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
10	AB1742169	U72900PN2020PTC189794	ओलोइड टेक प्राइवेट लिमिटेड
11	AB1732498	U74994PN2020PTC192754	टोटल रेवोल्यूशन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
12	AB1717654	U72900PN2015PTC157603	कॉनसीज कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड

हरिहर साहू
रजिस्ट्रार, सीपीएसई
मानेसर, हरियाणा

एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में}

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(5) के तहत निम्नलिखित कंपनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 3 फरवरी 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2024-25/1792—यह इस कार्यालय नोटिस संख्या और आवेदन (फॉर्म एसटीके 2) के संबंध में एसआरएन के रूप में उल्लिखित है। नोटिस एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उप-धारा (5) के अनुसार निम्नलिखित कंपनियों के नाम इस दिन 8/02/2025 से कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त कंपनियों का विघटन हो गया है :—

S.No.	Work Item	CIN	Hindi Name
1	AB1979730	U72200OR2022PTC039100	त्रिबोहेर्मेस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड

S.No.	Work Item	CIN	Hindi Name
2	AB1975308	U74999OR2021PTC038305	स्काईवॉल फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड
3	AB1619741	U72900OR2019PTC030386	साइबरफोक्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड

हरिहर साहू
रजिस्ट्रार, सीपीएसीई
मानेसर, हरियाणा

एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में}

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(5) के तहत निम्नलिखित कंपनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 3 फरवरी 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2024-25/1793—यह इस कार्यालय नोटिस संख्या और आवेदन (फॉर्म एसटीके 2) के संबंध में एसआरएन के रूप में उल्लिखित है। नोटिस एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उप-धारा (5) के अनुसार निम्नलिखित कंपनियों के नाम इस दिन 8/02/2025 से कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त कंपनियों का विघटन हो गया है :—

S.No.	Work Item	CIN	Hindi Name
1	AB1947304	U74999PY2017PTC008169	पेरुवियन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
2	AB1893342	U74999PY2018PTC008342	तिरुमलाई हाई टेक प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड

हरिहर साहू
रजिस्ट्रार, सीपीएसीई
मानेसर, हरियाणा

एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में}

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(5) के तहत निम्नलिखित कंपनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 3 फरवरी 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2024-25/1794—यह इस कार्यालय नोटिस संख्या और आवेदन (फॉर्म एसटीके 2) के संबंध में एसआरएन के रूप में उल्लिखित है। नोटिस एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उप-धारा (5) के अनुसार निम्नलिखित कंपनियों के नाम इस दिन 8/02/2025 से कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त कंपनियों का विघटन हो गया है :—

S.No.	Work Item	CIN	Hindi Name
1	AB2076869	U72900CH2021PTC043827	क्लाउडस्ट्रीट वेब सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2	AB1875213	U62099CH2023PTC045088	स्लाइटेड आईटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड

हरिहर साहू
रजिस्ट्रार, सीपीएसीई
मानेसर, हरियाणा

एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में}

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(5) के तहत निम्नलिखित कंपनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 3 फरवरी 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2024-25/1795—यह इस कार्यालय नोटिस संख्या और आवेदन (फॉर्म एसटीके 2) के संबंध में एसआरएन के रूप में उल्लिखित है। नोटिस एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उप-धारा (5) के अनुसार निम्नलिखित कंपनियों के नाम इस दिन 8/02/2025 से कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त कंपनियों का विघटन हो गया है :—

S.No.	Work Item	CIN	Hindi Name
1	AB2040678	U74999RJ2021PTC074676	क्यूसीएस फूड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
2	AB1965857	U71100RJ2023OPC089391	मन्नत कंसल्टेंसी इन्फ्रा (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
3	AB1953789	U51909RJ2021PTC073366	कोरोना सोलर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
4	AB1942279	U28999RJ2020PTC071128	रॉयल प्राइम ट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड
5	AB1939514	U10795RJ2023PTC089066	खुशियां इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
6	AB1547667	U46512RJ2023PTC086907	विआर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
7	AB1932698	U58203RJ2023PTC087484	आर्वोक्स सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
8	AB1923544	U15200RJ2020OPC071246	मनमोहन नेचुरल डेयरी फार्म (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
9	AB1914323	U74999RJ2018PTC062892	अर्थकौट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
10	AB1913877	U85200RJ2017PTC059095	काराडोरा हेल्थ सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
11	AB1906598	U62013RJ2023PTC089401	लूपेलिशियन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
12	AB1864636	U65929RJ2019PTC066680	श्री गणेशम फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड
13	AB1820271	U01132RJ2008PTC058771	कुमार वाणिज्य प्राइवेट लिमिटेड
14	AB1746329	U40106RJ2011PTC035492	शाइनिंग सन पावर (कर्नाटक) प्राइवेट लिमिटेड

हरिहर साहू
रजिस्ट्रार, सीपीएसीई
मानेसर, हरियाणा

एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में}

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(5) के तहत निम्नलिखित कंपनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 3 फरवरी 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2024-25/1796—यह इस कार्यालय नोटिस संख्या और आवेदन (फॉर्म एसटीके 2) के संबंध में एसआरएन के रूप में उल्लिखित है। नोटिस एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उप-धारा (5) के अनुसार निम्नलिखित कंपनियों के नाम इस दिन 8/02/2025 से कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त कंपनियों का विघटन हो गया है :—

S.No.	Work Item	CIN	Hindi Name
1	AB2076369	U55209TN2022PTC149355	ऑर्गो स्पेसेज प्राइवेट लिमिटेड

S.No.	Work Item	CIN	Hindi Name
2	AB2061212	U74999TN2021PTC147822	टापाम्स फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड
3	AB2050190	U41000TN2020PTC133611	गैस्मो एन्वायरो सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
4	AB2029662	U70109TN2019PTC127609	पार्थो प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड
5	AB1938320	U01100TN2022PTC149196	साईकृष्णा एग्री फार्म डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
6	AB1937385	U51909TN2022OPC153572	बिगीज़ कंज्यूमर सर्विसेज (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
7	AB1931839	U10799TN2023PTC159486	सिटलाइम इंडस्ट्रीज एग्री प्राइवेट लिमिटेड
8	AB1914247	U52292TN2024PTC170557	डॉनवेव शिप मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
9	AB1911436	U52242TN2023PTC160937	स्टारफॉस लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
10	AB1869631	U70109TN2012PTC085477	डायमेंशन्स प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड
11	AB1865035	U24100TN2021PTC142588	थोजुवाम प्राइवेट लिमिटेड
12	AB1854082	U85110TN1993PTC025885	मद्रास एंड्रोलॉजी रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड
13	AB1852365	U72400TN2009PTC072773	मेसिस टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
14	AB1837567	U52100TN2021PTC145976	ट्वाइस ट्रेजर्ड प्राइवेट लिमिटेड
15	AB1816167	U24233TN2014PTC097508	एंडरसन्स केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
16	AB1804456	U74999TN2016PTC111660	इस्किस्टेक ट्रेडिंग्स एंड डिस्ट्रिब्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
17	AB1652819	U28112TN2021PTC144929	भारत वायरॉन प्राइवेट लिमिटेड
18	AB1798561	U45400TN2008PTC068903	सेंसा हरम्या कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड
19	AB1723318	U01403TN2007PTC065156	सुमो एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस प्राइवेट लिमिटेड

हरिहर साहू
रजिस्ट्रार, सीपीएसीई
मानेसर, हरियाणा

एसटीके-7
नाम हटाने और विघटन की सूचना

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में}

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(5) के तहत निम्नलिखित कंपनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 3 फरवरी 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2024-25/1797—यह इस कार्यालय नोटिस संख्या और आवेदन (फॉर्म एसटीके 2) के संबंध में एसआरएन के रूप में उल्लिखित है। नोटिस एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उप-धारा (5) के अनुसार निम्नलिखित कंपनियों के नाम इस दिन 8/02/2025 से कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त कंपनियों का विघटन हो गया है :—

S.No.	Work Item	CIN	Hindi Name
1	AB2000998	U27900TZ2023PTC029392	एवोल्ट्रो ईवी चार्जिंग सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2	AB1912137	U73100TZ2022OPC039349	बॉबी मार्केट रिसर्च (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
3	AB1907687	U17299TZ2021PTC037844	एसपी क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड
4	AB1907184	U65990TZ2021PTC037780	सष्टि इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
5	AB1881539	U18209TZ2022PTC039307	टाइजन अपैरल प्राइवेट लिमिटेड
6	AB1787069	U34102TZ2020PTC034091	बीजीबी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड

S.No.	Work Item	CIN	Hindi Name
7	AB1703594	U01611TZ2024PTC030308	एसआरएसआरिथान एक्स प्राइवेट लिमिटेड
8	AB1652821	U28999TZ2020PTC035109	अनिवार्धन कंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड

हरिहर साहू
रजिस्ट्रार, सीपीएसीई
मानेसर, हरियाणा

एसटीके-7
नाम हटाने और विघटन की सूचना

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में}

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(5) के तहत निम्नलिखित कंपनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 3 फरवरी 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2024-25/1798—यह इस कार्यालय नोटिस संख्या और आवेदन (फॉर्म एसटीके 2) के संबंध में एसआरएन के रूप में उल्लिखित है। नोटिस एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उप-धारा (5) के अनुसार निम्नलिखित कंपनियों के नाम इस दिन 8/02/2025 से कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त कंपनियों का विघटन हो गया है :—

S.No.	Work Item	CIN	Hindi Name
1	AB2009359	U18209UP2022PTC170298	सुमीर फैब क्रिएशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2	AB1993267	U52390UP2019PTC117879	डेवहू ऑनलाइन फैशन प्राइवेट लिमिटेड
3	AB1984476	U33208UP2020PTC131102	एरकिन हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
4	AB1972102	U33200UP2024OPC203351	शरद उपाध्याय्स इंडस्ट्रीज (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
5	AB1936284	U74999UP2021PTC157557	स्पोक रिटेल प्राइवेट लिमिटेड
6	AB1932589	U40107UP2021PTC151768	धरणी रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड
7	AB1931825	U85300UP2018PTC101357	इंदु इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस प्राइवेट लिमिटेड
8	AB1930890	U47721UP2023PTC190663	शांतिबीना एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
9	AB1912254	U72300UP2019OPC118334	पिहू सर्विसेज (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
10	AB1911074	U46497UP2023PTC178004	बायोनेक्ज़ोन लाइफसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
11	AB1908566	U45401UP2023OPC184043	एसएसडीएन ऑटोसेल्स (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
12	AB1892661	U43299UP2023PTC194690	बीएचआर कंसल्टिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
13	AB1889579	U19200UP2021PTC146718	इंडकोट आउटकॉल्स प्राइवेट लिमिटेड
14	AB1875253	U72900UP2022PTC169339	फ्रिट्ज लीग प्राइवेट लिमिटेड
15	AB1846680	U31909UP2019PTC120924	अंकुश स्मार्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
16	AB1841251	U74999UP2020PTC137062	सिक्स्थ विज़न मैट्रिक्स सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
17	AB1826830	U01132UP2008PTC096920	शाकंभरी टी प्राइवेट लिमिटेड
18	AB1766121	U45201UP2021PTC153570	कूडे इंफ्राएंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड

हरिहर साहू
रजिस्ट्रार, सीपीएसीई
मानेसर, हरियाणा

एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में}

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(5) के तहत निम्नलिखित कंपनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 3 फरवरी 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2024-25/1799—यह इस कार्यालय नोटिस संख्या और आवेदन (फॉर्म एसटीके 2) के संबंध में एसआरएन के रूप में उल्लिखित है। नोटिस एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उप-धारा (5) के अनुसार निम्नलिखित कंपनियों के नाम इस दिन 8/02/2025 से कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त कंपनियों का विघटन हो गया है :—

S.No.	Work Item	CIN	Hindi Name
1	AB2067922	U72900UR2023PTC015222	अवनि रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड
2	AB1972245	U21000UR2020PTC011723	के.एस. टिशूज प्राइवेट लिमिटेड
3	AB1534984	U74140UR2022PTC014897	ऑनकॉन सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
4	AB1935487	U93090UR2020OPC010970	एंथ्राइवर ईकॉम (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
5	AB1776039	U63122UT2024PTC016745	इंफ्रा क्रेक टेक प्राइवेट लिमिटेड
6	AB1775311	U93190UT2023PTC016503	कोड क्रासर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड

हरिहर साहू
रजिस्ट्रार, सीपीएसई
मानेसर, हरियाणा

एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में}

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(5) के तहत निम्नलिखित कंपनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 3 फरवरी 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2024-25/1800—यह इस कार्यालय नोटिस संख्या और आवेदन (फॉर्म एसटीके 2) के संबंध में एसआरएन के रूप में उल्लिखित है। नोटिस एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उप-धारा (5) के अनुसार निम्नलिखित कंपनियों के नाम इस दिन 8/02/2025 से कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त कंपनियों का विघटन हो गया है :—

S.No.	Work Item	CIN	Hindi Name
1	AB2029355	U74900WB2014PTC201846	ड्रीमव्यू डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
2	AB1946091	U15100WB2019PTC234175	एससी एक्का बीटा प्राइवेट लिमिटेड
3	AB1931732	U74140WB2010PTC141565	गुडवर्ड फाइनेंशियल एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड
4	AB1915739	U72501WB2019PTC231839	द्विनवीज नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड
5	AB1905013	U70200WB2024PTC269332	टीएसईए बिजनेस एंड साइंस सेंटर प्राइवेट लिमिटेड
6	AB1860844	U62011WB2024PTC273618	क्राउनपुश टेक प्राइवेट लिमिटेड
7	AB1554150	U51909WB2009PTC134821	सम्मान वाणिज्य प्राइवेट लिमिटेड

S.No.	Work Item	CIN	Hindi Name
8	AB1757024	U70109WB2009PTC140409	धैर्य प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
9	AB1742548	U63030WB2022PTC256782	एयरोड्रिफ्ट लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
10	AB1698878	U74999WB2018PTC225700	स्वीटलैक एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड

हरिहर साहू
रजिस्ट्रार, सीपीएसीई
मानेसर, हरियाणा

SUPREME COURT OF INDIA

New Delhi, the 23rd January 2025

No. 22/Cal/2024-25/SCA(G)—In pursuance of sub-rule 2 of Rule 4 [as substituted by Supreme Court (Second Amendment) Rules, 2024], Order II of Supreme Court Rules, 2013, Hon'ble the Chief Justice of India has directed that the Supreme Court of India and its Registry shall remain closed on Wednesday, 5 February 2025 on account of General Elections to the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi.

MAHESH T. PATANKAR
Registrar (Court & Building)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(DIRECTORATE GENERAL, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE)

New Delhi, the 30th January 2025

No. O.II-3783/2025-Pers-DA-I—The Government of India have appointed Shri G.P. Singh, IPS (AM:1991) as Director General, CRPF in Level 16 of the Pay Matrix from the date of assumption of charge of the post, for a tenure up to the date of his superannuation on 30/11/2027 or until further orders, whichever is earlier, vide MHA letter No.I-21019/04/2024-IPS.III dated 19/01/2025.

2. The officer accordingly took over the charge of the post of Director General, CRPF in the Forenoon of 30/01/2025.

ANIL KUMAR
DIG(Pers)

DIRECTORATE GENERAL, CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi-03, the 26th June 2024

No. E-33013/Tech. Resig-03/H.B./2024/Pers.I/473—Consequent upon selection of Shri Hitesh Bijarnia, Assistant Commandant/Exe (Prob) of CISF NISA Hyderabad for the post of Administrative Officer in Indian Council of Agricultural Research on the basis of ICAR AO & FAO Exam-2021, the President is pleased to accept his technical resignation from CISF service with effect from 15.06.2024 (AN).

Sd./-ILLEGIBLE
Director General/CISF

No. E-33013/Resig-4&5/M&K/2024/Pers.I/642—The President is pleased to accept the resignation of Shri Manoj Kumar, Assistant Commandant/Exe (Prob.) of CISF NISA Hyderabad with effect from the actual date of his relieving from CISF. He relinquished the charge of AC/Exe (CISF) on 12.06.2024 (A/N) and relieved accordingly.

Sd./-ILLEGIBLE
Director General/CISF

The 23rd July 2024

No. E-33013/Resig-02/T.W./2024/Pers.I/737—The President is pleased to accept the resignation of Shri Tapan Wadhwa, Dy. Commandant/Exe (CAPF-2013) of CISF Unit CGBS New Delhi from CISF with effect from 01.07.2024 (FN). Accordingly, he has been relieved from the service of CISF wef.01.07.2024 (FN).

Sd./-ILLEGIBLE
Director General/CISF

The 5th August 2024

No. E-31013(2)/9/2023/ Pers.I/576—The following Commandant of CISF, who is presently on deputation with the BCAS, is hereby granted proforma promotion under 'Next Below Rule' to the rank of Senior Commandant in CISF in Pay Matrix, Level-13 Rs.1,23,100-2,15,900/- with effect from the date as mentioned against him:—

Sl. No.	Name of officer (Shri)	On deputation to	Date of proforma promotion under 'NBR' as Senior Commandant i.e. date of promotion of his immediate junior in the panel.
1.	Ila Chandra Pandey	BCAS, New Delhi	17.07.2024 (FN)

Sd./-ILLEGIBLE
Director General/CISF

The 27th August 2024

No. E-31013(1)/3/2023/ Pers.I/867—The following Senior Commandant of CISF, who is presently on deputation with the Cabinet Secretariat, is hereby granted proforma promotion under 'Next Below Rule' to the rank of Deputy Inspector General in CISF in Pay Matrix, Level-13-A Rs.1,31,100-2,16,600/- with effect from the date as mentioned against him:—

Sl. No.	Name of officer (Dr.)	On deputation to	Date of proforma promotion under 'NBR' as Deputy Inspector General i.e. date of promotion of his immediate junior in the panel.
1.	Aditya Jha	Cabinet Secretariat, New Delhi	13.08.2024 (FN)

Sd./-ILLEGIBLE
Director General/CISF

The 11th September 2024

No. E-33013/Tech. Resign/03 AC(DA)/2024/Pers.I/915—The President is pleased to accept the technical resignation of the following Assistant Commandant/Exe (Prob.) of CISF NISA Hyderabad with immediate effect. Accordingly, they have been relieved from the service of CISF as under:—

Sl. No.	Rank	Name (Shri/Ms.)	Date of relieving from CISF
1.	AC/Exe (Prob)	Navneet Anand	22.08.2024 (A/N)
2.	AC/Exe (Prob)	Harshit Srivastava	22.08.2024 (A/N)
3.	AC/Exe (Prob)	Tania Mishra	22.08.2024 (A/N)

Sd./-ILLEGIBLE
Director General/CISF

The 21st October 2024

No. E-33013(1)/Tech.Resig-1/MSN/2023/Pers.I /1041—Consequent upon reversion to the parent Department during the lien period on previous post, the following officer has been taken on the strength of Central Industrial Security Force (CISF) on rejoining with effect from the date as shown against his name:—

Sl. No.	Name of officer (Shri)	Rank	Name of post & department from where reverted.	Date from which the officer has been taken on the strength of CISF on rejoining as AC/Exe
01.	Mude Sai Naick	Assistant Commandant/ Exe	M.P.D.O in Ministry of Panchayat Raj & Rural Development, Govt. of Andhra Pradesh.	07.10.2024 (F/N)

- Authority :- MHA ID No.45012/15/2015/Pers.1(3301081) dated 12th August'2024.

Sd./-ILLEGIBLE
Director General/CISF

The 18th December 2024

No. E-33013/Tech. Resign-7/SK/2024/Pers.I/1498—Consequent upon selection of Shri Shivansh Kandpal, Assistant Commandant/Exe (Probationer) of CISF NISA Hyderabad for Assistant Regional Transport Officer on the basis of Uttarakhand Combined State Civil/Upper Subordinate Services Examination-2021, the President is pleased to accept his technical resignation from CISF service with effect from 10.11.2024 (AN).

Sd./-ILLEGIBLE
Director General/CISF

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
[CENTRE FOR PROCESSING ACCELERATED CORPORATE EXIT (C-PACE)]

FORM No. STK-6
PUBLIC NOTICE

[Pursuant to sub-section (2) and sub-section (4) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 7 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of striking off or removal of names of following companies under section 248 of the Companies Act, 2013

Gurgaon-122050, the 21st January 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/1751—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB2308335	U72200AP2007PTC054576	MEDWRITE IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2	AB2274674	U65923AP2015PTC097821	MSS BALAJI CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
3	AB2452666	U92400AP2015PTC096278	KODALI ENTERTAINMENTS PRIVATE LIMITED
4	AB2362272	U72900AP2019PTC111910	REHANSI INNOVATIONS PRIVATE LIMITED
5	AB2361497	U74999AP2018PTC108202	ABDG INDIA PRIVATE LIMITED
6	AB2460393	U01409AP2021PTC119579	SARIPUDI AGROFARMS AND POULTRIES PRIVATE LIMITED
7	AB2160472	U15140AP2022PTC123201	EAST WEST MARINE EXIM PRIVATE LIMITED

(2) Notice is hereby given that the Registrar of Companies had received applications from the above-mentioned companies under section 248(2) of the Companies Act, 2013 for removal of its/their name (s) from the register of companies either on the ground that they have failed to commence business within one year of their incorporation or on the ground that the company(ies) is/are not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and has/have not made any application (s) within such period for obtaining the status of a dormant company under section 455 of the Companies Act, 2013 or the company(ies) have obtained the status of dormant company/subscribers to the memorandum have not paid the subscription which they had undertaken to pay at the time of incorporation of a company and a declaration to this effect has not been filed within one hundred and eighty days of its incorporation under sub-section (1) of section 10A/ have not been carrying on any business or operations, as revealed after the physical verification carried out under sub-section (9) of section 12, but it/they do not wish to continue its/their registration as companies and have, therefore, requested for removal/strike off of its/their names from the register of companies.

(3) Accordingly, the Registrar of Companies proposes to remove or strike off the names of the above-mentioned companies from the Register of Companies.

(4) Any person objecting to the proposed removal or striking off name of the companies from the register of companies may send his or her objection to the office address mentioned here above within thirty days from the date of publication of this notice.

HARIHARA SAHOO

Registrar

Centre for Processing Accelerated Corporate Exit

FORM No. STK-6
PUBLIC NOTICE

[Pursuant to sub-section (2) and sub-section (4) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 7 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of striking off or removal of names of following companies under section 248 of the Companies Act, 2013

Gurgaon-122050, the 21st January 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/1752—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB2394441	U24248AS2015OPC012001	YUJJANA AGARBATTI OPC PRIVATE LIMITED
2	AB2373490	U72900AS2021PTC021416	MAZULI TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
3	AB2370354	U37200AS2020PTC019917	HANPRO INGENIOUS PRIVATE LIMITED
4	AB2246649	U65929AS2022PLN023421	JSV NIDHI LIMITED
5	AB2447605	U72900AS2022PTC022624	LALBON MARKETING PRIVATE LIMITED

(2) Notice is hereby given that the Registrar of Companies had received applications from the above-mentioned companies under section 248(2) of the Companies Act, 2013 for removal of its/their name (s) from the register of companies either on the ground that they have failed to commence business within one year of their incorporation or on the ground that the company(ies) is/are not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and has/have not made any application (s) within such period for obtaining the status of a dormant company under section 455 of the Companies Act, 2013 or the company(ies) have obtained the status of dormant company/subscribers to the memorandum have not paid the subscription which they had undertaken to pay at the time of incorporation of a company and a declaration to this effect has not been filed within one hundred and eighty days of its incorporation under sub-section (1) of section 10A/ have not been carrying on any business or operations, as revealed after the physical verification carried out under sub-section (9) of section 12, but it/they do not wish to continue its/their registration as companies and have, therefore, requested for removal/strike off of its/their names from the register of companies.

(3) Accordingly, the Registrar of Companies proposes to remove or strike off the names of the above-mentioned companies from the Register of Companies.

(4) Any person objecting to the proposed removal or striking off name of the companies from the register of companies may send his or her objection to the office address mentioned here above within thirty days from the date of publication of this notice.

HARIHARA SAHOO

Registrar

Centre for Processing Accelerated Corporate Exit

FORM No. STK-6
PUBLIC NOTICE

[Pursuant to sub-section (2) and sub-section (4) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 7 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of striking off or removal of names of following companies under section 248 of the Companies Act, 2013

Gurgaon-122050, the 21st January 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/1753—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB2301387	U01113BR2016PTC033067	GOLDENFISH FARM PRIVATE LIMITED
2	AB2511290	U52190BR2020PTC046311	ABMLIFE FOREVER PRIVATE LIMITED
3	AB2513968	U51909BR2021PTC050556	SRK REMEDIES PRIVATE LIMITED
4	AB2361309	U85300BR2021PTC055158	BIGOHEALTH MEDICAL PRIVATE LIMITED
5	AB2375649	U72900BR2021PTC055325	AIRIST SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
6	AB2524235	U01100BR2022PTC059748	SSN FARMCART INDIA PRIVATE LIMITED
7	AB2415256	U74999BR2022PTC060506	UNICUS CONSULTANTS TECH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
8	AB2402212	U18202BR2022PTC060989	LUCRATIVE TEXTILE PRIVATE LIMITED
9	AB2485891	U46411BR2023PTC063713	ZICKY.COM PRIVATE LIMITED
10	AB2532839	U92001BR2023OPC064399	PRAGATIRAJSPORT INDIA (OPC) PRIVATE LIMITED

(2) Notice is hereby given that the Registrar of Companies had received applications from the above-mentioned companies under section 248(2) of the Companies Act, 2013 for removal of its/their name (s) from the register of companies either on the ground that they have failed to commence business within one year of their incorporation or on the ground that the company(ies) is/are not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and has/have not made any application (s) within such period for obtaining the status of a dormant company under section 455 of the Companies Act, 2013 or the company(ies) have obtained the status of dormant company/subscribers to the memorandum have not paid the subscription which they had undertaken to pay at the time of incorporation of a company and a declaration to this effect has not been filed within one hundred and eighty days of its incorporation under sub-section (1) of section 10A/ have not been carrying on any business or operations, as revealed after the physical verification carried out under sub-section (9) of section 12, but it/they do not wish to continue its/their registration as companies and have, therefore, requested for removal/strike off of its/their names from the register of companies.

(3) Accordingly, the Registrar of Companies proposes to remove or strike off the names of the above-mentioned companies from the Register of Companies.

(4) Any person objecting to the proposed removal or striking off name of the companies from the register of companies may send his or her objection to the office address mentioned here above within thirty days from the date of publication of this notice.

HARIHARA SAHOO

Registrar

Centre for Processing Accelerated Corporate Exit

FORM No. STK-6
PUBLIC NOTICE

[Pursuant to sub-section (2) and sub-section (4) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 7 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of striking off or removal of names of following companies under section 248 of the Companies Act, 2013

Gurgaon-122050, the 21st January 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/1754—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB2438165	U72900CT2019PTC009669	INDUSTRIAL PARCHI INTELLIGENCE PRIVATE LIMITED
2	AB2464237	U73100CT2020PTC011080	PRIMAPEX TECHNOVATORS PRIVATE LIMITED
3	AB2358549	U11100CT2022PTC012707	MAHANADI COMPRESSED BIOGAS (CBG) PRIVATE LIMITED
4	AB2487851	U39000CT2024PTC016187	SIADHA SUSTAINABILITY PRIVATE LIMITED

(2) Notice is hereby given that the Registrar of Companies had received applications from the above-mentioned companies under section 248(2) of the Companies Act, 2013 for removal of its/their name (s) from the register of companies either on the ground that they have failed to commence business within one year of their incorporation or on the ground that the company(ies) is/are not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and has/have not made any application (s) within such period for obtaining the status of a dormant company under section 455 of the Companies Act, 2013 or the company(ies) have obtained the status of dormant company/subscribers to the memorandum have not paid the subscription which they had undertaken to pay at the time of incorporation of a company and a declaration to this effect has not been filed within one hundred and eighty days of its incorporation under sub-section (1) of section 10A/ have not been carrying on any business or operations, as revealed after the physical verification carried out under sub-section (9) of section 12, but it/they do not wish to continue its/their registration as companies and have, therefore, requested for removal/strike off of its/their names from the register of companies.

(3) Accordingly, the Registrar of Companies proposes to remove or strike off the names of the above-mentioned companies from the Register of Companies.

(4) Any person objecting to the proposed removal or striking off name of the companies from the register of companies may send his or her objection to the office address mentioned here above within thirty days from the date of publication of this notice.

HARIHARA SAHOO

Registrar

Centre for Processing Accelerated Corporate Exit

FORM No. STK-6
PUBLIC NOTICE

[Pursuant to sub-section (2) and sub-section (4) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 7 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of striking off or removal of names of following companies under section 248 of the Companies Act, 2013

Gurgaon-122050, the 21st January 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/1755—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB2348895	U72100DL2018PTC336444	ADELAAR INSIGHTS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
2	AB2468830	U74999DL2019PTC346240	ONECAVE MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
3	AB2357664	U85100DL2002PTC117324	PLUG HEALTH PRIVATE LIMITED
4	AB2223759	U72900DL2022PTC404468	VUPDY TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
5	AB2414180	U51909DL1976PTC008152	PREMIER TRADING PVT LTD
6	AB2410639	U74899DL1989PTC034966	GROOVIE MOTEL PVT LTD
7	AB2447971	U55101DL1990PTC040701	VATIKA HOMES AND HOTELS PRIVATE LIMITED
8	AB2341536	U74899DL1992PTC048611	SAKSHI GRANITE PRIVATE LIMITED
9	AB2494209	U74899DL1993PTC052916	QUALITY WEAR PRIVATE LIMITED
10	AB2368473	U74899DL1995PTC073596	J.D. EXIM PRIVATE LIMITED
11	AB2354508	U63090DL1996PTC075095	GOD GIFT CARGO PRIVATE LIMITED
12	AB2177369	U51909DL1996PTC078841	GANDT TOTAL ENERGY SERVICES PRIVATE LIMITED
13	AB2473667	U70101DL1996PTC081414	SANGMAN CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
14	AB2498757	U74899DL1996PTC081421	LUXMI CHAIN COMPANY PRIVATE LIMITED
15	AB2222787	U74899DL1995PLC073426	J.M.D. PROJECTS LIMITED
16	AB2453361	U17123DL1996PTC076195	JAMBHA SPINNERS PRIVATE LIMITED
17	AB2422983	U74899DL1995PTC066839	RAINBOW TRANSTEL INDIA PRIVATE LIMITED
18	AB2368374	U74899DL1995PTC070435	UJALA GAS AND CHEMICALS PRIVATE LIMITED
19	AB2422904	U63023DL1997PTC085100	MOR STORAGE PRIVATE LIMITED
20	AB2430826	U74120DL1998PTC096339	AURELIA EVENTS PRIVATE LIMITED
21	AB2304143	U60232DL1999PTC100019	SER EXPRESS PRIVATE LIMITED
22	AB2374653	U00000DL2000PTC103268	AMCAN LOGISTICS PRIVATE LIMITED.
23	AB2426269	U22122DL2003PTC120854	DYNAMIC YELLOW PAGES PUBLICATION PRIVATE LIMITED
24	AB2465627	U80301DL2005PTC137226	RLM HEALTHCARE PRIVATE LIMITED
25	AB2476554	U51397DL2002PTC115876	ZAMBON INDIA PRIVATE LIMITED
26	AB2481044	U72200DL2007PTC168360	COSMOS COMPUTECH PRIVATE LIMITED
27	AB2494120	U72200DL2007PTC170732	ATRIUM CORPORATE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
28	AB2419738	U45200DL2008PTC174746	KAPSONS DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
29	AB2376212	U85100DL2007PTC168884	ANC HEALTHCARE PRIVATE LIMITED
30	AB2395652	U41000DL2008PTC173243	SMART DEVELOPMENT CONSULTANTS & SERVICES PRIVATE LIMITED
31	AB2299936	U72300DL2008PTC175304	STOWE SOFTWARE PRIVATE LIMITED
32	AB2381867	U80903DL2008PTC175345	FOB PROPACKS PRIVATE LIMITED
33	AB2386951	U63000DL2005PTC165119	L.G.BROTHERS LOGISTICS PRIVATE LIMITED
34	AB2375895	U63000DL2006PTC152254	PARSOLI TOURS & HOSPITALITY PRIVATE LIMITED
35	AB2442289	U21120DL2005PTC133861	K.D.PUMPS PRIVATE LIMITED
36	AB2250873	U75232DL2011PTC221051	OST INDIA PRIVATE LIMITED
37	AB2338174	U70100DL2011PTC218525	MERCANTILE REALTORS PRIVATE LIMITED
38	AB2285454	U45400DL2011PTC216644	ASF INSIGNIA SEZ I PRIVATE LIMITED
39	AB2337467	U40300DL2011PTC219417	IST GLOBAL TRADE PRIVATE LIMITED
40	AB2479654	U93000DL2009PTC191449	BIG DETECTIVE PRIVATE LIMITED
41	AB2208849	U74999DL2012PTC234586	RMP ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
42	AB2401072	U18101DL2012PTC238498	NEESHI INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
43	AB2423191	U74900DL2012PTC239398	SPARROW FOREX PRIVATE LIMITED
44	AB2471973	U93000DL2013PTC248115	COUNTRYFLORA GIFTING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
45	AB2395351	U92100DL2013PTC249261	EMENOX MEDIA PRIVATE LIMITED

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
46	AB2355966	U70102DL2012PTC244767	EMENOX INFRATEK PRIVATE LIMITED
47	AB2411495	U40106DL2011PTC227020	SASTECH POWER CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
48	AB2430693	U93000DL2011PTC223330	PERSPRO INTEGRATED SERVICES PRIVATE LIMITED
49	AB2472623	U74140DL2013PTC255893	PROMION TECHNO SERVICES PRIVATE LIMITED
50	AB2348097	U70100DL2014PTC271209	SNJ PROJECTS PRIVATE LIMITED
51	AB2451196	U70109DL2013PTC261738	DEWU DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
52	AB2333409	U70102DL2013PTC259307	ARK RESOURCING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
53	AB2450164	U72200DL2013PTC261235	HIGH STREET SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
54	AB2392962	U72300DL2015PTC285335	ARMOUR IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
55	AB2442887	U74140DL2014PTC263655	JCB. ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED
56	AB2505516	U74999DL2016OPC308853	SEEKHO INDIA PRIVATE LIMITED (OPC)
57	AB2399033	U74999DL2016PTC309046	THEWAY FORWARD INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
58	AB2371539	U51101DL2015PTC288353	GREENMAN MACHINERY INDIA PRIVATE LIMITED
59	AB2436845	U74930DL2016PTC291577	GROOTS FOODS VENTURES PRIVATE LIMITED
60	AB2426071	U52100DL2015PTC277965	CONSIGNIA TRADING INDIA PRIVATE LIMITED
61	AB2393599	U74999DL2016PTC305965	SHIV OM COLOR SCAN PRIVATE LIMITED
62	AB2366357	U65999DL2017PLC314752	KCG NIDHI INDIA LIMITED
63	AB2396380	U63030DL2016PTC305736	BOWLINE HOLIDAYS PRIVATE LIMITED
64	AB2440890	U74999DL2016PTC305238	JUNGA FRESHNGREEN PRIVATE LIMITED
65	AB2461405	U74999DL2018OPC329767	PINKQUILL SERVICES (OPC) PRIVATE LIMITED
66	AB2382614	U74999DL2018PTC329588	MBSK HOLISTIC WELLNESS AND LIFESTYLE PRIVATE LIMITED
67	AB2449080	U74999DL2017OPC325612	BLACK HOOD IMPORT & EXPORT (OPC) PRIVATE LIMITED
68	AB2272878	U74999DL2018PTC332913	TIO HOLIDAYS PRIVATE LIMITED
69	AB2422249	U72900DL2018PTC338066	MAPLECLOUD TECH SERVICES PRIVATE LIMITED
70	AB2314864	U51909DL2018PTC339517	ANAVISION TRADES PRIVATE LIMITED
71	AB2224292	U93090DL2018PTC342273	DTIARA EVENT & CREATIONS PRIVATE LIMITED
72	AB2425139	U52609DL2019PTC354529	FLAPERON TRADING PRIVATE LIMITED
73	AB2422313	U52599DL2019PTC354531	SHEEPAL TRADECOM PRIVATE LIMITED
74	AB2235230	U63090DL2020PTC361483	TRANSEND WORLDWIDE LOGISTICS PRIVATE LIMITED
75	AB2424021	U52602DL2020PTC363969	FOUNSI ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
76	AB2234537	U74999DL2020PTC369378	CHEVENING ADVISORS PRIVATE LIMITED
77	AB2471882	U72900DL2020PTC365441	VIRTUAL TERRENE PRIVATE LIMITED
78	AB2491507	U51909DL2020PTC365952	MLE MARKETING INDIA PRIVATE LIMITED
79	AB2282271	U25209DL2020PTC374495	USHAPET FILMS PRIVATE LIMITED
80	AB2466041	U72900DL2021PTC375858	DIGIMESH TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
81	AB2317890	U73100DL2021PTC376029	HOLBORN WELLS INDIA PRIVATE LIMITED
82	AB2297964	U93010DL2021PTC386035	TANIUS INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
83	AB2444664	U24290DL2021PTC388838	SPG BIO FUEL PRIVATE LIMITED
84	AB2391228	U74999DL2021PTC390034	A2E SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
85	AB2385843	U15549DL2021PTC389918	EAST ONE HOSPITALITIES PRIVATE LIMITED
86	AB2455770	U15490DL2021PTC386854	SPG RICE MILLS PRIVATE LIMITED
87	AB2406602	U74999DL2022PTC392561	LEXBIRBAL MEDICO PRIVATE LIMITED
88	AB2445660	U72900DL2022PTC393853	COMDOTPRO TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
89	AB2496750	U63030DL2021PTC391200	FRESHOLOGY PRIVATE LIMITED
90	AB2416423	U18100DL2022PTC397878	SOULSTIR SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
91	AB2416837	U28994DL2022PTC397078	VRIKSHAY PRIVATE LIMITED
92	AB2541257	U51909DL2022OPC403721	FASYCON INTERNATIONAL (OPC) PRIVATE LIMITED
93	AB2416514	U45200DL2022PTC406210	METAERA ENERGY PRIVATE LIMITED
94	AB2479029	U67190DL2023PTC409817	WEALTHNESTOR PRIVATE LIMITED
95	AB2325489	U72900DL2022PTC407182	RAREFOX PRIVATE LIMITED
96	AB2484502	U24290DL2022PTC407954	SARTE PERFUMES PRIVATE LIMITED
97	AB2535341	U47912DL2023PTC414606	CANDYBOX ECOMMERCE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
98	AB2377711	U62099DL2023PTC414866	YUGALTECHCORP PRIVATE LIMITED
99	AB2387495	U47711DL2023FTC419224	RAW REVEL INDIA PRIVATE LIMITED
100	AB2468515	U20237DL2023PTC419512	GLAMPLUS WELLNESS PRODUCTS PRIVATE LIMITED
101	AB2235364	U10790DL2023PLC424434	MIR CASHEWS HEAVEN INDUSTRIES LIMITED
102	AB2315848	U93190DL2023PTC423061	GREENSIDE PROMOTIONS PRIVATE LIMITED
103	AB2521478	U47911DL2024PTC431380	CONVERSED SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
104	AB2397772	U62011DL2024PTC427778	UMADEVA SOFTWARE PRIVATE LIMITED

(2) Notice is hereby given that the Registrar of Companies had received applications from the above-mentioned companies under section 248(2) of the Companies Act, 2013 for removal of its/their name (s) from the register of companies either on the ground that they have failed to commence business within one year of their incorporation or on the ground that the company(ies) is/are not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and has/have not made any application (s) within such period for obtaining the status of a dormant company under section 455 of the Companies Act, 2013 or the company(ies) have obtained the status of dormant company/subscribers to the memorandum have not paid the subscription which they had undertaken to pay at the time of incorporation of a company and a declaration to this effect has not been filed within one hundred and eighty days of its incorporation under sub-section (1) of section 10A/ have not been carrying on any business or operations, as revealed after the physical verification carried out under sub-section (9) of section 12, but it/they do not wish to continue its/their registration as companies and have, therefore, requested for removal/strike off of its/their names from the register of companies.

(3) Accordingly, the Registrar of Companies proposes to remove or strike off the names of the above-mentioned companies from the Register of Companies.

(4) Any person objecting to the proposed removal or striking off name of the companies from the register of companies may send his or her objection to the office address mentioned here above within thirty days from the date of publication of this notice.

HARIHARA SAHOO

Registrar

Centre for Processing Accelerated Corporate Exit

FORM No. STK-6
PUBLIC NOTICE

[Pursuant to sub-section (2) and sub-section (4) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 7 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of striking off or removal of names of following companies under section 248 of the Companies Act, 2013

Gurgaon-122050, the 21st January 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/1756—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB2284931	U15549GA2018PTC013643	GAUREV FOODS & BEVERAGES PRIVATE LIMITED
2	AB2526913	U51909DN2022PTC005718	KHUTLIWALA AGRO GREENS PRIVATE LIMITED
3	AB2298475	U30008GA2022PTC015470	NELLILAP MOBILITY PRIVATE LIMITED

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
4	AB2243176	U51909GA2022PTC015620	DECILIN E-COMMERCE PRIVATE LIMITED

(2) Notice is hereby given that the Registrar of Companies had received applications from the above-mentioned companies under section 248(2) of the Companies Act, 2013 for removal of its/their name (s) from the register of companies either on the ground that they have failed to commence business within one year of their incorporation or on the ground that the company(ies) is/are not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and has/have not made any application (s) within such period for obtaining the status of a dormant company under section 455 of the Companies Act, 2013 or the company(ies) have obtained the status of dormant company/subscribers to the memorandum have not paid the subscription which they had undertaken to pay at the time of incorporation of a company and a declaration to this effect has not been filed within one hundred and eighty days of its incorporation under sub-section (1) of section 10A/ have not been carrying on any business or operations, as revealed after the physical verification carried out under sub-section (9) of section 12, but it/they do not wish to continue its/their registration as companies and have, therefore, requested for removal/strike off of its/their names from the register of companies.

(3) Accordingly, the Registrar of Companies proposes to remove or strike off the names of the above-mentioned companies from the Register of Companies.

(4) Any person objecting to the proposed removal or striking off name of the companies from the register of companies may send his or her objection to the office address mentioned here above within thirty days from the date of publication of this notice.

HARIHARA SAHOO

Registrar

Centre for Processing Accelerated Corporate Exit

FORM No. STK-6
PUBLIC NOTICE

[Pursuant to sub-section (2) and sub-section (4) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 7 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of striking off or removal of names of following companies under section 248 of the Companies Act, 2013

Gurgaon-122050, the 21st January 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/1757—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB2261927	U45100GJ2012PTC072062	SHREE ARBUDA SPACECON PRIVATE LIMITED
2	AB2406850	U74999GJ2022PTC135256	SHREE DUTT PRODUCTIVITY CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
3	AB2372816	U74140GJ2008PTC053152	HYLEX ADVISORY PRIVATE LIMITED
4	AB2439217	U52609GJ2022PTC135841	SZK TECH SUNWAY SOLAR SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
5	AB2541708	U45201GJ2008PTC054196	BINORI BUILDCON PRIVATE LIMITED
6	AB2418620	U74140GJ2005PTC047123	RISHI FINMAN CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
7	AB2439931	U55100GJ2010PTC062326	JADEBLUE HOSPITALITY PRIVATE LIMITED
8	AB2492921	U72900GJ2009PTC056765	SIYA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
9	AB2373456	U74300GJ2012PTC069529	AMNE KAHU SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
10	AB2314693	U72900GJ2012PTC070904	QUAD SOFTTECH PRIVATE LIMITED
11	AB2397924	U05000GJ2014PTC081442	GUNJAN AQUACULTURE PRIVATE LIMITED
12	AB2395987	U25209GJ2016PTC094613	MUKUND PLASTIC PRIVATE LIMITED
13	AB2343054	U29256GJ2016PTC093569	PNP TECH SOLUTION PRIVATE LIMITED
14	AB2208655	U72900GJ2018PTC101253	BARPANDE INDIA PRIVATE LIMITED
15	AB2401762	U28999GJ2018PTC103864	PERCEPTION METALS PRIVATE LIMITED
16	AB2482059	U80904GJ2019PTC108605	CARENCARE EDUSERVE PRIVATE LIMITED

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
17	AB2360334	U72900GJ2019PTC110191	RULERS TECHNOSOFT PRIVATE LIMITED
18	AB2391603	U72900GJ2020PTC115259	MLVEDA PRIVATE LIMITED
19	AB2322193	U32112GJ2021PTC119259	ASIAN JEWELS PRIVATE LIMITED
20	AB2487469	U74110GJ2020PTC116617	CHEMSPORT TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
21	AB2364665	U92490GJ2021OPC121666	PICDOC STUDIOS (OPC) PRIVATE LIMITED
22	AB2194255	U72900GJ2021PTC122385	DISRUPTWORKZ INFOLABS PRIVATE LIMITED
23	AB2500987	U72900GJ2021PTC122067	AFD SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
24	AB2451413	U73100GJ2021PTC128091	RCUBE ANALYTICAL SERVICES PRIVATE LIMITED
25	AB2338664	U74999GJ2021PTC125767	RADHIKA BHATT INTERIORS PRIVATE LIMITED
26	AB2348261	U15136GJ2022PTC136613	PRIYADIP OVERSEAS PRIVATE LIMITED
27	AB2489292	U72900GJ2022PTC136652	VITTOREA LINGUISTICS PRIVATE LIMITED
28	AB2475017	U28212GJ2023PTC143866	RBJ AGRO PRIVATE LIMITED
29	AB2451903	U41001GJ2023PTC146132	SOVEREIGN SKYLINE PRIVATE LIMITED
30	AB2269295	U28132GJ2023PTC145568	OGV XL INDIA PRIVATE LIMITED
31	AB2387049	U24311GJ2024PTC150344	INFISTAR PIPES PRIVATE LIMITED
32	AB2466010	U88100GJ2024PTC149655	SHATAYUSHI SENIOR CITIZEN SERVICES PRIVATE LIMITED

(2) Notice is hereby given that the Registrar of Companies had received applications from the above-mentioned companies under section 248(2) of the Companies Act, 2013 for removal of its/their name (s) from the register of companies either on the ground that they have failed to commence business within one year of their incorporation or on the ground that the company(ies) is/are not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and has/have not made any application (s) within such period for obtaining the status of a dormant company under section 455 of the Companies Act, 2013 or the company(ies) have obtained the status of dormant company/subscribers to the memorandum have not paid the subscription which they had undertaken to pay at the time of incorporation of a company and a declaration to this effect has not been filed within one hundred and eighty days of its incorporation under sub-section (1) of section 10A/ have not been carrying on any business or operations, as revealed after the physical verification carried out under sub-section (9) of section 12, but it/they do not wish to continue its/their registration as companies and have, therefore, requested for removal/strike off of its/their names from the register of companies.

(3) Accordingly, the Registrar of Companies proposes to remove or strike off the names of the above-mentioned companies from the Register of Companies.

(4) Any person objecting to the proposed removal or striking off name of the companies from the register of companies may send his or her objection to the office address mentioned here above within thirty days from the date of publication of this notice.

HARIHARA SAHOO

Registrar

Centre for Processing Accelerated Corporate Exit

FORM No. STK-6
PUBLIC NOTICE

[Pursuant to sub-section (2) and sub-section (4) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 7 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of striking off or removal of names of following companies under section 248 of the Companies Act, 2013

Gurgaon-122050, the 21st January 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/1758—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB2407634	U72200HR1996PTC033091	NEWAGE SOFTWARE CONSULTANTS PVT LTD
2	AB2433628	U51909HR2010PTC041085	S S A T COMMODITIES PRIVATE LIMITED

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
3	AB2282074	U74900HR2009PTC039596	NAVDURGA CHITS PRIVATE LIMITED
4	AB2365903	U52590HR2013PTC048665	BUDDY (MUMBAI) RETAIL PRIVATE LIMITED
5	AB2453998	U93000HR2011PTC043782	VINSPIRER SECURITY SOLUTION PRIVATE LIMITED
6	AB2524107	U52100HR2015PTC057571	ONLINE STORES PRIVATE LIMITED
7	AB2445353	U45209HR2011PTC044720	TERRAZZO INCRETE PRIVATE LIMITED
8	AB2411424	U74999HR2018PTC074463	ONLY4U SMART PRODUCTS PRIVATE LIMITED
9	AB2363460	U74999HR2018PTC072476	HANAYA HOSPITALITY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
10	AB2454907	U51909HR2018PTC075143	ENLASIA PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
11	AB2523491	U52335HR2018OPC075606	MUDGAL TECHNOLOGIES (OPC) PRIVATE LIMITED
12	AB2373540	U15132HR2018PTC075939	SAFE GRAINS PRIVATE LIMITED
13	AB2505391	U74999HR2019PTC081073	CAPOLAVORO CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
14	AB2364632	U73100HR2020PTC087326	DEVYS BIZZ PRIVATE LIMITED
15	AB2472186	U15549HR2020PTC088260	PUREVEDA FOOD & SPICES PRIVATE LIMITED
16	AB2392868	U51909HR2020PTC090424	WREN LIFE SCIENCES PRIVATE LIMITED
17	AB2444596	U51909HR2021PTC095110	ADVAANZ BIOSCIENCES PRIVATE LIMITED
18	AB2121648	U92490HR2021PTC092963	PLAYU ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
19	AB2354136	U74999HR2021PTC094373	HERENGES SERVICES PRIVATE LIMITED
20	AB2375330	U27200HR2021PTC098224	GAUTINMA IRON AND STEEL PRIVATE LIMITED
21	AB2500659	U18109HR2021PTC098575	SYMPHONY FAB PRIVATE LIMITED
22	AB2498537	U85110HR2021PTC100015	RYBULT PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
23	AB2379358	U01100HR2022PTC100524	VERDETECH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
24	AB2438034	U70109HR2022PTC102371	GRAND AASHIANA REALTORS PRIVATE LIMITED
25	AB2548684	U72900HR2022OPC101984	AM VAJPAI CONSULTING SERVICES (OPC) PRIVATE LIMITED
26	AB2535558	U64990HR2023PLN111872	CUBALAP INDIA NIDHI LIMITED
27	AB2423682	U90009HR2023PTC115013	MSJ ART PRIVATE LIMITED
28	AB2448221	U47912HR2024OPC120124	QUILLCRAFT CREATIONS (OPC) PRIVATE LIMITED
29	AB2471743	U27900HR2024PTC120514	MAKEWISE AI POWER PRIVATE LIMITED
30	AB2510035	U21006HR2024PTC124552	HEALEXO LABORATORIES PRIVATE LIMITED

(2) Notice is hereby given that the Registrar of Companies had received applications from the above-mentioned companies under section 248(2) of the Companies Act, 2013 for removal of its/their name (s) from the register of companies either on the ground that they have failed to commence business within one year of their incorporation or on the ground that the company(ies) is/are not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and has/have not made any application (s) within such period for obtaining the status of a dormant company under section 455 of the Companies Act, 2013 or the company(ies) have obtained the status of dormant company/subscribers to the memorandum have not paid the subscription which they had undertaken to pay at the time of incorporation of a company and a declaration to this effect has not been filed within one hundred and eighty days of its incorporation under sub-section (1) of section 10A/ have not been carrying on any business or operations, as revealed after the physical verification carried out under sub-section (9) of section 12, but it/they do not wish to continue its/their registration as companies and have, therefore, requested for removal/strike off of its/their names from the register of companies.

(3) Accordingly, the Registrar of Companies proposes to remove or strike off the names of the above-mentioned companies from the Register of Companies.

(4) Any person objecting to the proposed removal or striking off name of the companies from the register of companies may send his or her objection to the office address mentioned here above within thirty days from the date of publication of this notice.

HARIHARA SAHOO

Registrar

Centre for Processing Accelerated Corporate Exit

FORM No. STK-6
PUBLIC NOTICE

[Pursuant to sub-section (2) and sub-section (4) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 7 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of striking off or removal of names of following companies under section 248 of the Companies Act, 2013

Gurgaon-122050, the 21st January 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/1759—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB2417100	U72900HP2019PTC007587	ALZRON SYSTEMS PRIVATE LIMITED
2	AB2228725	U47212HP2023PTC010013	KYAAR APPLES PRIVATE LIMITED

(2) Notice is hereby given that the Registrar of Companies had received applications from the above-mentioned companies under section 248(2) of the Companies Act, 2013 for removal of its/their name (s) from the register of companies either on the ground that they have failed to commence business within one year of their incorporation or on the ground that the company(ies) is/are not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and has/have not made any application (s) within such period for obtaining the status of a dormant company under section 455 of the Companies Act, 2013 or the company(ies) have obtained the status of dormant company/subscribers to the memorandum have not paid the subscription which they had undertaken to pay at the time of incorporation of a company and a declaration to this effect has not been filed within one hundred and eighty days of its incorporation under sub-section (1) of section 10A/ have not been carrying on any business or operations, as revealed after the physical verification carried out under sub-section (9) of section 12, but it/they do not wish to continue its/their registration as companies and have, therefore, requested for removal/strike off of its/their names from the register of companies.

(3) Accordingly, the Registrar of Companies proposes to remove or strike off the names of the above-mentioned companies from the Register of Companies.

(4) Any person objecting to the proposed removal or striking off name of the companies from the register of companies may send his or her objection to the office address mentioned here above within thirty days from the date of publication of this notice.

HARIHARA SAHOO

Registrar

Centre for Processing Accelerated Corporate Exit

FORM No. STK-6
PUBLIC NOTICE

[Pursuant to sub-section (2) and sub-section (4) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 7 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of striking off or removal of names of following company under section 248 of the Companies Act, 2013

Gurgaon-122050, the 21st January 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/1760—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB2305468	U58131JK2023OPC015101	FIRST DISPATCH MULTIMEDIA (OPC) PRIVATE LIMITED

(2) Notice is hereby given that the Registrar of Companies had received applications from the above-mentioned companies under section 248(2) of the Companies Act, 2013 for removal of its/their name (s) from the register of companies either on the ground that they have failed to commence business within one year of their incorporation or on the ground that the company(ies) is/are not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and has/have not made any application (s) within such period for obtaining the status of a dormant company under section 455 of the Companies Act, 2013 or the company(ies) have obtained the status of dormant company/subscribers to the memorandum have not paid the subscription which they had undertaken to pay at the time of incorporation of a company and a declaration to this effect has not been filed within one hundred and eighty days of its incorporation under sub-section (1) of section 10A/ have not been carrying on any business or operations, as revealed after the physical verification carried out under sub-section (9) of section 12, but it/they do not wish to continue its/their registration as companies and have, therefore, requested for removal/strike off of its/their names from the register of companies.

(3) Accordingly, the Registrar of Companies proposes to remove or strike off the names of the above-mentioned companies from the Register of Companies.

(4) Any person objecting to the proposed removal or striking off name of the companies from the register of companies may send his or her objection to the office address mentioned here above within thirty days from the date of publication of this notice.

HARIHARA SAHOO

Registrar

Centre for Processing Accelerated Corporate Exit

FORM No. STK-6

PUBLIC NOTICE

[Pursuant to sub-section (2) and sub-section (4) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 7 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of striking off or removal of names of following companies under section 248 of the Companies Act, 2013

Gurgaon-122050, the 21st January 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/1761—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB2241002	U71100JH2020PTC014279	GLOBAL SARAJ PRIVATE LIMITED
2	AB2351237	U69202JH2023PTC021491	GREENISH CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
3	AB2364478	U01500JH2023PTC021577	PAHARANCHAL AGRO FARMS PRIVATE LIMITED

(2) Notice is hereby given that the Registrar of Companies had received applications from the above-mentioned companies under section 248(2) of the Companies Act, 2013 for removal of its/their name (s) from the register of companies either on the ground that they have failed to commence business within one year of their incorporation or on the ground that the company(ies) is/are not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and has/have not made any application (s) within such period for obtaining the status of a dormant company under section 455 of the Companies Act, 2013 or the company(ies) have obtained the status of dormant company/subscribers to the memorandum have not paid the subscription which they had undertaken to pay at the time of incorporation of a company and a declaration to this effect has not been filed within one hundred and eighty days of its incorporation under sub-section (1) of section 10A/ have not been carrying on any business or operations, as revealed after the physical verification carried out under sub-section (9) of section 12, but it/they do not wish to continue its/their registration as companies and have, therefore, requested for removal/strike off of its/their names from the register of companies.

(3) Accordingly, the Registrar of Companies proposes to remove or strike off the names of the above-mentioned companies from the Register of Companies.

(4) Any person objecting to the proposed removal or striking off name of the companies from the register of companies may send his or her objection to the office address mentioned here above within thirty days from the date of publication of this notice.

HARIHARA SAHOO

Registrar

Centre for Processing Accelerated Corporate Exit

FORM No. STK-6

PUBLIC NOTICE

[Pursuant to sub-section (2) and sub-section (4) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 7 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of striking off or removal of names of following companies under section 248 of the Companies Act, 2013

Gurgaon-122050, the 21st January 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/1762—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB2410516	U74999KA2019PTC120785	MICROEYE STANDARDS PRIVATE LIMITED
2	AB2393643	U15311KA1966PTC001618	ANNAPURNA ROLLER FLOUR MILLS PRIVATE LIMITED

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
3	AB2442370	U74120KA1996PTC020310	HARSHAM CORPORATE SERVICES PRIVATE LIMITED
4	AB2432581	U70200KA2009PTC084479	PJPA REALITY PRIVATE LIMITED
5	AB2456358	U15122KA2009PTC049343	HEALTHY BITES N SIPS INDIA PRIVATE LIMITED
6	AB2355111	U15495KA2006PTC038183	KSN ECO FARM PRODUCTS PRIVATE LIMITED
7	AB2369422	U74900KA2010PTC054117	JJ BIOTEK INSTRUMENTS PRIVATE LIMITED
8	AB2367691	U74300KA2010PTC052179	INTERMEDIA ADVERTISING PRIVATE LIMITED
9	AB2546078	U70102KA2011PTC058255	VAGMI PROJECTS PRIVATE LIMITED
10	AB2493968	U74900KA2015PTC078315	P M HEALTH & LIFE CARE PRIVATE LIMITED
11	AB2447063	U72200KA2014PTC074278	SLAGEN CONSULTING PRIVATE LIMITED
12	AB2554798	U72200KA2015PTC084714	JOOJIP TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
13	AB2225294	U27300KA2016PTC087176	PATELHITECH ENGINEERING PRIVATE LIMITED
14	AB2393454	U74999KA2016PTC098511	PRAJAPATI PROJECTS AND VENTURES PRIVATE LIMITED
15	AB2435217	U74999KA2016PTC093781	COSQUAD RADICALS PRIVATE LIMITED
16	AB2445346	U74999KA2017PTC106882	CAELUMLORE IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
17	AB2508581	U74999KA2018PTC109139	SHUBRA VENTURES PRIVATE LIMITED
18	AB2503006	U80100KA2017PTC107262	GANPAR TUTORIALS PRIVATE LIMITED
19	AB2436837	U65100KA2018PTC115943	INNOVITI SMELENDING PRIVATE LIMITED
20	AB2358747	U93090KA2018PTC116631	GRANDAD TV ADVERTISEMENTS PRIVATE LIMITED
21	AB2440554	U72501KA2018OPC113893	JBER TECHNOLOGY (OPC) PRIVATE LIMITED
22	AB2375433	U93000KA2018PTC117715	NERAVU MEDIA PRIVATE LIMITED
23	AB2308765	U45309KA2019PTC127211	LUMBER AND YARN INDIA PRIVATE LIMITED
24	AB2263197	U74110KA2019PTC121492	XIXTH INNOVATIVE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
25	AB2374636	U74999KA2020PTC136639	XOME LIFE SCIENCES PRIVATE LIMITED
26	AB2485186	U74999KA2020PTC136295	STYLIFE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
27	AB2401694	U74999KA2020PTC138353	REIXR STUDIO PRIVATE LIMITED
28	AB2446557	U65929KA2020PTC138797	URBAN PROJECTS HOLDING PRIVATE LIMITED
29	AB2364452	U74999KA2020PTC136025	OBUKA PRIVATE LIMITED
30	AB2447165	U15400KA2021PTC145136	URBAN RAW HONEY INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
31	AB2437023	U24290KA2021PTC150140	CERMIO PRIVATE LIMITED
32	AB2395582	U72900KA2021OPC149437	MOVEELS CONSUMER SERVICES (OPC) PRIVATE LIMITED
33	AB2467896	U72900KA2021PTC155648	ANSOI PRIVATE LIMITED
34	AB2201268	U72900KA2021PTC152002	JURIS LAB PRIVATE LIMITED
35	AB2450885	U18101KA2022PTC158343	GO GROOVY LIFESTYLE PRIVATE LIMITED
36	AB2466720	U52399KA2022PTC159685	SHRISHAILA CONSUMER PRODUCTS PRIVATE LIMITED
37	AB2424174	U74999KA2022PTC158914	SAVDO PRIVATE LIMITED
38	AB2358710	U51909KA2022PTC161344	DENWOLF ORIGINALS PRIVATE LIMITED
39	AB2310374	U70100KA2022PTC165184	AASTHY OPPORTUNITY GAMMA PRIVATE LIMITED
40	AB2451993	U74999KA2022PTC165414	BASECUBE TRADE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
41	AB2398852	U72900KA2022PTC165555	BILLIONTECH PRIVATE LIMITED
42	AB2351116	U70109KA2022PTC160201	AASTHY OPPORTUNITY ZETA PRIVATE LIMITED

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
43	AB2390577	U72900KA2022PTC165525	MILLENNIAL INNOVATIONS PRIVATE LIMITED
44	AB2317802	U70109KA2022PTC161306	AASTHY OPPORTUNITY OMEGA PRIVATE LIMITED
45	AB2495745	U24299KA2022PTC166895	ABHAYAHASTA KOSHAS PHARMACEUTICAL PRIVATE LIMITED
46	AB2139058	U72900KA2022PTC168591	ASSERTIFY TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
47	AB2418340	U45209KA2023PTC170007	SI2 AHSON INFRA PRIVATE LIMITED
48	AB2160928	U74999KA2022PTC168713	GROWTH RAPTORS PRIVATE LIMITED
49	AB2411523	U96905KA2023PTC176417	BODYMETRIC PRIVATE LIMITED
50	AB2426012	U62013KA2023PTC177435	VRENTTO DIGITAL PRIVATE LIMITED
51	AB2412220	U17019KA2023PTC177117	STAMPER SOLUTIONS INDIA PRIVATE LIMITED
52	AB2370712	U38210KA2023PTC177283	IENVIRO TECH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
53	AB2332353	U14101KA2023PTC180297	KAJA KRANTI TEXTILES IMPORT EXPORT PRIVATE LIMITED
54	AB2449024	U62099KA2023PTC179078	FLYBOAT TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
55	AB2529015	U62099KA2024PTC185716	ADVERTDIGIVERTIX MEDIA PRIVATE LIMITED
56	AB2464524	U46204KA2024PTC187212	GROWZEN INT PRIVATE LIMITED
57	AB2390950	U86202KA2024PTC187808	DIBELLA HEALTHCARE PRIVATE LIMITED

(2) Notice is hereby given that the Registrar of Companies had received applications from the above-mentioned companies under section 248(2) of the Companies Act, 2013 for removal of its/their name (s) from the register of companies either on the ground that they have failed to commence business within one year of their incorporation or on the ground that the company(ies) is/are not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and has/have not made any application (s) within such period for obtaining the status of a dormant company under section 455 of the Companies Act, 2013 or the company(ies) have obtained the status of dormant company/subscribers to the memorandum have not paid the subscription which they had undertaken to pay at the time of incorporation of a company and a declaration to this effect has not been filed within one hundred and eighty days of its incorporation under sub-section (1) of section 10A/ have not been carrying on any business or operations, as revealed after the physical verification carried out under sub-section (9) of section 12, but it/they do not wish to continue its/their registration as companies and have, therefore, requested for removal/strike off of its/their names from the register of companies.

(3) Accordingly, the Registrar of Companies proposes to remove or strike off the names of the above-mentioned companies from the Register of Companies.

(4) Any person objecting to the proposed removal or striking off name of the companies from the register of companies may send his or her objection to the office address mentioned here above within thirty days from the date of publication of this notice.

HARIHARA SAHOO

Registrar

Centre for Processing Accelerated Corporate Exit

FORM No. STK-6
PUBLIC NOTICE

[Pursuant to sub-section (2) and sub-section (4) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 7 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of striking off or removal of names of following companies under section 248 of the Companies Act, 2013

Gurgaon-122050, the 21st January 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/1763—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB2397009	U85100KL2019PTC056467	JEEVANIYAM SKILLS AND HEALTHCARE PRIVATE LIMITED
2	AB2396722	U45309KL2019PTC056814	PROMACE INFRATECH PRIVATE LIMITED
3	AB2435807	U72900KL2015PTC037782	C360 MARKETING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
4	AB2433770	U74990KL2013PTC034046	KOLLAM CABLES PRIVATE LIMITED
5	AB2508178	U64120KL2016PTC046300	SANTA EXPRESS LOGISTICS PRIVATE LIMITED
6	AB2437024	U74999KL2018PTC053056	TRANOTES SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
7	AB2496062	U36910KL2021PTC068423	TSM JEWELLERY PRIVATE LIMITED
8	AB2455696	U72900KL2022PTC076660	DOCTOK NETWORK PRIVATE LIMITED
9	AB2379571	U86100KL2023PTC085219	ESPOIR HEALTHCARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED

(2) Notice is hereby given that the Registrar of Companies had received applications from the above-mentioned companies under section 248(2) of the Companies Act, 2013 for removal of its/their name (s) from the register of companies either on the ground that they have failed to commence business within one year of their incorporation or on the ground that the company(ies) is/are not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and has/have not made any application (s) within such period for obtaining the status of a dormant company under section 455 of the Companies Act, 2013 or the company(ies) have obtained the status of dormant company/subscribers to the memorandum have not paid the subscription which they had undertaken to pay at the time of incorporation of a company and a declaration to this effect has not been filed within one hundred and eighty days of its incorporation under sub-section (1) of section 10A/ have not been carrying on any business or operations, as revealed after the physical verification carried out under sub-section (9) of section 12, but it/they do not wish to continue its/their registration as companies and have, therefore, requested for removal/strike off of its/their names from the register of companies.

(3) Accordingly, the Registrar of Companies proposes to remove or strike off the names of the above-mentioned companies from the Register of Companies.

(4) Any person objecting to the proposed removal or striking off name of the companies from the register of companies may send his or her objection to the office address mentioned here above within thirty days from the date of publication of this notice.

HARIHARA SAHOO

Registrar

Centre for Processing Accelerated Corporate Exit

FORM No. STK-6
PUBLIC NOTICE

[Pursuant to sub-section (2) and sub-section (4) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 7 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of striking off or removal of names of following companies under section 248 of the Companies Act, 2013

Gurgaon-122050, the 21st January 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/1764—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB2382837	U45203MP1997PTC012116	PITAMBARA BUILDERS PRIVATE LIMITED
2	AB2433700	U40100MP2010PTC023710	HILL POWER PRIVATE LIMITED
3	AB2430454	U40100MP2010PTC023718	HILL ENERGY PRIVATE LIMITED
4	AB2490348	U28931MP2012PTC027430	SURYA FOILS PRIVATE LIMITED
5	AB2409299	U24290MP2022PTC062911	PANCHSHEEL BIO-AGRITECH PRIVATE LIMITED
6	AB2319517	U72200MP2015PTC033952	POSITRON INTERNET SERVICES PRIVATE LIMITED
7	AB2394452	U01100MP2021PTC055274	SHANTINJAY AGRO FARMER PRODUCER COMPANY LIMITED
8	AB2443163	U55101MP2021PTC057774	DINDAYAL HOTELS INDIA PRIVATE LIMITED
9	AB2399363	U92490MP2021PTC057078	PIXODI DIGITAL PRIVATE LIMITED
10	AB2392934	U33110MP2022PTC059924	NUTRICIO HEALTH PRIVATE LIMITED
11	AB2393142	U80904MP2022PTC064051	SHIFTECH EDUCATION PRIVATE LIMITED

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
12	AB2425968	U46308MP2023PTC065457	MEGASTAR SPIRITS INDIA PRIVATE LIMITED
13	AB2560054	U73100MP2024PTC069614	ZENSPHERE MEDIA PRIVATE LIMITED

(2) Notice is hereby given that the Registrar of Companies had received applications from the above-mentioned companies under section 248(2) of the Companies Act, 2013 for removal of its/their name (s) from the register of companies either on the ground that they have failed to commence business within one year of their incorporation or on the ground that the company(ies) is/are not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and has/have not made any application (s) within such period for obtaining the status of a dormant company under section 455 of the Companies Act, 2013 or the company(ies) have obtained the status of dormant company/subscribers to the memorandum have not paid the subscription which they had undertaken to pay at the time of incorporation of a company and a declaration to this effect has not been filed within one hundred and eighty days of its incorporation under sub-section (1) of section 10A/ have not been carrying on any business or operations, as revealed after the physical verification carried out under sub-section (9) of section 12, but it/they do not wish to continue its/their registration as companies and have, therefore, requested for removal/strike off of its/their names from the register of companies.

(3) Accordingly, the Registrar of Companies proposes to remove or strike off the names of the above-mentioned companies from the Register of Companies.

(4) Any person objecting to the proposed removal or striking off name of the companies from the register of companies may send his or her objection to the office address mentioned here above within thirty days from the date of publication of this notice.

HARIHARA SAHOO

Registrar

Centre for Processing Accelerated Corporate Exit

FORM No. STK-6
PUBLIC NOTICE

[Pursuant to sub-section (2) and sub-section (4) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 7 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of striking off or removal of names of following companies under section 248 of the Companies Act, 2013

Gurgaon-122050, the 21st January 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/1765—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB2287208	U72500MH2018PTC304141	YMS ALPHABET TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
2	AB2434935	U92110MH1950PTC007995	SUSHIL TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED
3	AB2533079	U21000MH1968PTC014049	SHAH AND JOSHI PRIVATE LIMITED
4	AB2518336	U01110MH1993PLC075448	KUMAR FIELDS LIMITED
5	AB2463166	U99999MH1994PTC082805	SHALOMI PROPERTIES PRIVATE LIMITED
6	AB2417484	U28920MH1995PTC090170	FLOVEL ENGINEERING PRIVATE LIMITED
7	AB2421062	U55204MH1995PTC090789	CELEBRATE SERVICES PRIVATE LIMITED
8	AB2298944	U65921MH1998PTC116812	S E R CAPITAL PRIVATE LIMITED
9	AB2269412	U93090MH2007PLC169285	FRONTLINE HR SOLUTIONS LIMITED
10	AB2391619	U80901MH2008PTC179240	INSTITUTE OF LIFESTYLE DESIGN PRIVATE LIMITED
11	AB2445026	U22110MH2006PTC161747	SAHIB GRAPHICS PRIVATE LIMITED
12	AB2387778	U63000MH2008PTC188353	SOUTH COAST CONTAINERS INDIA PRIVATE LIMITED
13	AB2468500	U18109MH2008PTC185469	KAPS MERCANTILE PRIVATE LIMITED
14	AB2500176	U15132MH2009PTC191829	SACHIN FRUIT SUPPLIERS PRIVATE LIMITED
15	AB2253428	U93000MH2010PTC201284	KING OF HEARTS STUD FARM PRIVATE LIMITED
16	AB2442037	U74210MH2010PTC209276	SUYOG PRECISION & ENGINEERING WORKS PRIVATE LIMITED

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
17	AB2538244	U70102MH2011PTC212653	VISMAY PROPERTIES PRIVATE LIMITED
18	AB2433666	U93000MH2012PTC228829	ARCUS INDIA ADVISORS PRIVATE LIMITED
19	AB2454047	U74120MH2013PTC249631	ARETE MARINE AND OFFSHORE SERVICES PRIVATE LIMITED
20	AB2447751	U63000MH2013PTC249111	TSN LOGISTICS PRIVATE LIMITED
21	AB2391262	U74120MH2013PTC243600	END TO END CONSULTING SERVICES PRIVATE LIMITED
22	AB2370360	U74999MH2004PTC144931	MENTOR INFOTECH PRIVATE LIMITED
23	AB2221909	U72300MH2005PTC155162	SANISOFT TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
24	AB2465725	U74999MH2015PTC260558	SEA4MARINE SHIPPING MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
25	AB2479015	U74900MH2015PTC261484	SAAG TEECHNOLEGAL CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
26	AB2408564	U18101MH2001PTC132101	SPICE LIFE EXPORT PRIVATE LIMITED
27	AB2305629	U29260MH2004PTC149266	SK STABEL INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
28	AB2327628	U24290MH2004PTC149188	SUPERMIX CONSTRUCTION CHEMICAL (INDIA) PRIVATE LIMITED
29	AB2377458	U45209MH2007PTC173048	ONE FINITE PROPERTIES PRIVATE LIMITED
30	AB2236952	U45400MH2006PTC164762	TRIMURTI PROPERTY PLANNERS PRIVATE LIMITED
31	AB2432017	U74120MH2014PTC256157	ZOHAA FILMS & ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
32	AB2434718	U85100MH2015PTC270403	ARTI JAIN DIET4HEALTH PRIVATE LIMITED
33	AB2504090	U62099MH2023PTC398901	DBAK ANALYTICS PRIVATE LIMITED
34	AB2341921	U80903MH2015PTC263442	SOARINGEAGLES LEARNING PRIVATE LIMITED
35	AB2445593	U50300MH2016PTC273194	VLER TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
36	AB2299795	U74999MH2018PTC303656	JANUS SPORTZ PRIVATE LIMITED
37	AB2367680	U01100MH2017PTC294474	MOTHERILA ORGANICS PRIVATE LIMITED
38	AB2396047	U22100MH1991PTC064341	ADVENTURE DIGITAL PRIVATE LIMITED
39	AB2374988	U74999MH2016PTC285924	BROADVIEW ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
40	AB2386961	U55101MH2017PTC293317	GOLDEN WHISK PRIVATE LIMITED
41	AB2372641	U74999MH2016FTC286492	TUMKALIP INDIA PRIVATE LIMITED
42	AB2368316	U74999MH2017PTC300364	BLOCKWORKS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
43	AB2345094	U74999MH2017PTC303178	OUTLANDERS MEDIA PRIVATE LIMITED
44	AB2410918	U74999MH2017PTC302780	ILLUSIE PRODUKT PRIVATE LIMITED
45	AB2420584	U74999MH2018PLC309127	KCS LOGISTICS LIMITED
46	AB2399576	U93000MH2018PTC314365	STALWART'S SPACE PRIVATE LIMITED
47	AB2419450	U72900MH2019PTC324416	BIZUNBOUND ANALYTICS PRIVATE LIMITED
48	AB2407257	U72900MH2019PTC323434	SHREESARVA CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
49	AB2432808	U52609MH2019PTC328325	AMRUT NONI PRIVATE LIMITED
50	AB2368157	U85300MH2019PTC332190	WOMEN AGAINST CYBER ABUSE PRIVATE LIMITED
51	AB2354753	U22300MH2019PTC331582	C3X ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
52	AB2114162	U74999MH2020PTC338930	ANINDYA INDIA INSPECTION PRIVATE LIMITED
53	AB2439146	U72900MH2020PTC339559	SILLET INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
54	AB2304046	U70109MH2020PTC336160	KGTA VENTURES PRIVATE LIMITED
55	AB2496794	U45309MH2020PTC343613	GREENSCAPE REALCON PRIVATE LIMITED

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
56	AB2426658	U74999MH2020PTC350141	ACTIVEDGE PRIVATE LIMITED
57	AB2312399	U74999MH2020PTC349648	PETROSPINE ENGINEERING PRIVATE LIMITED
58	AB2508989	U59111MH2021PTC354472	DADDY & DAUGHTER (D&D) PRIVATE LIMITED
59	AB2415976	U92490MH2020OPC351758	WATTS IN THE MIX (OPC) PRIVATE LIMITED
60	AB2369985	U15400MH2020PTC352326	ZOIL FOODTECH PRIVATE LIMITED
61	AB2192031	U74999MH2020PTC344825	SWAGATKART PRIVATE LIMITED
62	AB2286931	U65990MH2021PTC365980	8849 CAPITAL INVESTMENT PRIVATE LIMITED
63	AB2465578	U24290MH2021OPC366885	AMILADO (OPC) PRIVATE LIMITED
64	AB2379854	U74910MH2021PTC363714	PINNPOINTER PRIVATE LIMITED
65	AB2460812	U92100MH2021PTC364729	REVIND SPORTS PRIVATE LIMITED
66	AB2290604	U25111MH2021PTC362553	PAREKH COMMERCIAL VENTURES PRIVATE LIMITED
67	AB2306560	U72900MH2021PTC373662	PRATIKSHALAY HEALTHCARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
68	AB2398418	U24290MH2021PLC374157	MARUTI CHEMCON LIMITED
69	AB2247117	U72900MH2021PTC373830	HAMMAD TECH CLOUD SERVICES PRIVATE LIMITED
70	AB2475440	U24110MH2021PTC367937	KOMMEND SPECIALITIES PRIVATE LIMITED
71	AB2356216	U72501MH2021PTC372377	FIBER SPEEDNEST PRIVATE LIMITED
72	AB2387076	U65929MH2022PLN376850	RENUSHREE URBAN NIDHI LIMITED
73	AB2373459	U63030MH2022PTC382658	SNM GLOBAL SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
74	AB2306825	U72900MH2022PTC389169	DHRIT LABS PRIVATE LIMITED
75	AB2212069	U72900MH2022PTC389396	MODIGITEC PRIVATE LIMITED
76	AB2520812	U01100MH2022PTC385877	LAHOTI LIFESCIENCE PRIVATE LIMITED
77	AB2338473	U72900MH2022PTC391914	MNY FINTECH PRIVATE LIMITED
78	AB2407491	U01100MH2022PTC394419	GATISHIL FARM AND AGRO PRODUCER COMPANY LIMITED
79	AB2377741	U74999MH2022PTC394758	BAROAK ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
80	AB2388301	U64990MH2023PLN399917	RAGHUNATH NIDHI LIMITED
81	AB2463975	U80903MH2022PTC393763	PROSPERITY WEALTH CREATORS PRIVATE LIMITED
82	AB2523177	U46901MH2023PTC404832	MAMA'S MAKOON ONLINE PRIVATE LIMITED
83	AB2377740	U58203MH2023PTC405447	ATRANGI GAMES PRIVATE LIMITED
84	AB2436741	U20229MH2023PTC406603	ASHHIYANAA ORGANICS PRIVATE LIMITED
85	AB2416275	U62099MH2023PTC414745	ECO NATURAL FARMING TECH PRIVATE LIMITED

(2) Notice is hereby given that the Registrar of Companies had received applications from the above-mentioned companies under section 248(2) of the Companies Act, 2013 for removal of its/their name (s) from the register of companies either on the ground that they have failed to commence business within one year of their incorporation or on the ground that the company(ies) is/are not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and has/have not made any application (s) within such period for obtaining the status of a dormant company under section 455 of the Companies Act, 2013 or the company(ies) have obtained the status of dormant company/subscribers to the memorandum have not paid the subscription which they had undertaken to pay at the time of incorporation of a company and a declaration to this effect has not been filed within one hundred and eighty days of its incorporation under sub-section (1) of section 10A/ have not been carrying on any business or operations, as revealed after the physical verification carried out under sub-section (9) of section 12, but it/they do not wish to continue its/their registration as companies and have, therefore, requested for removal/strike off of its/their names from the register of companies.

(3) Accordingly, the Registrar of Companies proposes to remove or strike off the names of the above-mentioned companies from the Register of Companies.

(4) Any person objecting to the proposed removal or striking off name of the companies from the register of companies may send his or her objection to the office address mentioned here above within thirty days from the date of publication of this notice.

HARIHARA SAHOO

Registrar

Centre for Processing Accelerated Corporate Exit

FORM No. STK-6
PUBLIC NOTICE

[Pursuant to sub-section (2) and sub-section (4) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 7 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of striking off or removal of names of following companies under section 248 of the Companies Act, 2013

Gurgaon-122050, the 21st January 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/1766—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB2449501	U74999PN2020OPC190252	GURUGAJANAN MEDICAL (OPC) PRIVATE LIMITED
2	AB2426261	U45201PN2022PTC215065	SUBURBIA AVENUE INFRA PRIVATE LIMITED
3	AB2434910	U74900PN2009PTC133477	SAMVEGA SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
4	AB2370399	U15490PN2012PTC144888	FARM FEAST AGRO (INDIA) PRIVATE LIMITED
5	AB2401480	U74900PN2011PTC140172	NAMITA HAIR TO TOE BEAUTY CARE PRIVATE LIMITED
6	AB2416802	U74999PN2017PTC169205	PACKAMAZE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
7	AB2347346	U72900PN2016OPC165177	SAMISH DIGITAL (OPC) PRIVATE LIMITED
8	AB2406147	U93000PN2016PTC166862	VEROCONTI SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
9	AB2525028	U22130PN2016PTC164195	STROKES INDIA MEDIA PRIVATE LIMITED
10	AB2288268	U74999PN2017PTC172061	UREATI PRIVATE LIMITED
11	AB2507731	U72900PN2017PTC171308	ODINEYE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
12	AB2420329	U72900PN2018PTC176608	JALADHI SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
13	AB2438966	U15400PN2018PTC179830	BHAKTISAR FOODS & HOSPITALITY PRIVATE LIMITED
14	AB2514455	U72900PN2019PTC184973	EVIREHEAL TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
15	AB2417709	U55209PN2019PTC185063	SUNREST HOSPITALITY & CATERING SERVICES PRIVATE LIMITED
16	AB2328585	U15100PN2019PTC187585	NISCHAL RICE MILLS PRIVATE LIMITED
17	AB2392462	U60230PN2020PTC191768	ZIVAONE WORLD PRIVATE LIMITED
18	AB2228832	U72900PN2020PTC191541	DATA BOAT PRIVATE LIMITED
19	AB2376954	U72900PN2021PTC202505	LEDGER LABS PRIVATE LIMITED
20	AB2296468	U72900PN2021PTC201392	BARPANDE SYSTEMS PRIVATE LIMITED
21	AB2398545	U28998PN2022PTC212399	ABLER CASTECH INDIA PRIVATE LIMITED
22	AB2434497	U29190PN2022PTC212456	ADU CAD SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
23	AB2473833	U72200PN2022PTC207675	SCRIPTOHOLIC PRIVATE LIMITED
24	AB2375496	U72900PN2022PTC210374	PIER NORTH TECH PRIVATE LIMITED
25	AB2506173	U72900PN2022PTC211550	SHILPRA WEB TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
26	AB2451119	U72900PN2022OPC212398	THOUGHTSID SOFTWARE (OPC) PRIVATE LIMITED
27	AB2385860	U74999PN2022PTC213940	HAPSTER PRIVATE LIMITED
28	AB2492272	U72900PN2022PTC211071	DOCULENS PRIVATE LIMITED
29	AB2477177	U74999PN2022PTC214168	FOSTER AND NURTURE SUSTAINABILITY PRIVATE LIMITED

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
30	AB2483556	U96020PN2023PTC219971	DERMASHINE PRIVATE LIMITED
31	AB2526567	U66190PN2023PTC221523	ONECONSUMER INVESTMENT ADVISOR PRIVATE LIMITED
32	AB2464729	U45402PN2024PTC229623	SR FUSION POWER PRIVATE LIMITED
33	AB2507417	U93190PN2024OPC229248	SYRAX FITNESS (OPC) PRIVATE LIMITED

(2) Notice is hereby given that the Registrar of Companies had received applications from the above-mentioned companies under section 248(2) of the Companies Act, 2013 for removal of its/their name (s) from the register of companies either on the ground that they have failed to commence business within one year of their incorporation or on the ground that the company(ies) is/are not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and has/have not made any application (s) within such period for obtaining the status of a dormant company under section 455 of the Companies Act, 2013 or the company(ies) have obtained the status of dormant company/subscribers to the memorandum have not paid the subscription which they had undertaken to pay at the time of incorporation of a company and a declaration to this effect has not been filed within one hundred and eighty days of its incorporation under sub-section (1) of section 10A/ have not been carrying on any business or operations, as revealed after the physical verification carried out under sub-section (9) of section 12, but it/they do not wish to continue its/their registration as companies and have, therefore, requested for removal/strike off of its/their names from the register of companies.

(3) Accordingly, the Registrar of Companies proposes to remove or strike off the names of the above-mentioned companies from the Register of Companies.

(4) Any person objecting to the proposed removal or striking off name of the companies from the register of companies may send his or her objection to the office address mentioned here above within thirty days from the date of publication of this notice.

HARIHARA SAHOO

Registrar

Centre for Processing Accelerated Corporate Exit

FORM No. STK-6
PUBLIC NOTICE

[Pursuant to sub-section (2) and sub-section (4) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 7 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of striking off or removal of names of following companies under section 248 of the Companies Act, 2013

Gurgaon-122050, the 21st January 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/1767—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB2290927	U74920OR1996PTC004617	PR CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
2	AB2236672	U85110OR2015PTC019633	ROHAN HOSPITAL PRIVATE LIMITED
3	AB2471320	U45309OR2016PTC025559	RELEVANCE CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
4	AB2423715	U74999OR2017PTC026283	MONGOOSE INDIA PRODUCTS & SERVICES PRIVATE LIMITED
5	AB2338389	U60232OR2008PTC010159	AMCD TRANSPORT AND MINERAL PRIVATE LIMITED
6	AB2433117	U15400OR2022PTC038903	KAMALLOCHAN INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
7	AB2480702	U70200OD2023PTC043455	CHANGEVERSE ADVISORS PRIVATE LIMITED

(2) Notice is hereby given that the Registrar of Companies had received applications from the above-mentioned companies under section 248(2) of the Companies Act, 2013 for removal of its/their name (s) from the register of companies either on the ground that they have failed to commence business within one year of their incorporation or on the ground that the company(ies) is/are not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and has/have not made any application (s) within such period for obtaining the status of a dormant company under section 455 of the Companies Act, 2013 or the company(ies) have obtained the status of dormant company/subscribers to the memorandum have not paid the subscription which they had undertaken to pay at the time of incorporation of a company and a declaration to this effect has not been filed within one hundred and eighty days of its incorporation under sub-section (1) of

section 10A/ have not been carrying on any business or operations, as revealed after the physical verification carried out under sub-section (9) of section 12, but it/they do not wish to continue its/their registration as companies and have, therefore, requested for removal/strike off of its/their names from the register of companies.

(3) Accordingly, the Registrar of Companies proposes to remove or strike off the names of the above-mentioned companies from the Register of Companies.

(4) Any person objecting to the proposed removal or striking off name of the companies from the register of companies may send his or her objection to the office address mentioned here above within thirty days from the date of publication of this notice.

HARIHARA SAHOO

Registrar

Centre for Processing Accelerated Corporate Exit

FORM No. STK-6

PUBLIC NOTICE

[Pursuant to sub-section (2) and sub-section (4) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 7 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of striking off or removal of names of following companies under section 248 of the Companies Act, 2013

Gurgaon-122050, the 21st January 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/1768—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB2244180	U18101PB1943PTC000532	GIRDHAR AND CO PVT LTD
2	AB2332466	U01222CH1989PTC009767	DIVINE POULTRIES PVT LTD
3	AB2391514	U15203CH1989PTC009536	KESAR FROZEN FOODS PRIVATE LIMITED
4	AB2423793	U92419PB2012PTC036917	INDIAN PROFESSIONAL WRESTLING PRIVATE LIMITED
5	AB2457311	U15312PB2013PTC038087	PATRAN RICE EXPORTS PRIVATE LIMITED
6	AB2380242	U70102PB2006PTC030608	SIDH SHAKTI MONEY REAL ESTATE PRIVATE LIMITED
7	AB2429876	U45209PB2013PTC037216	MMG BUILDERS PRIVATE LIMITED
8	AB2414307	U80903PB2017PTC046400	TECHNOFAST LEARNING HOME PRIVATE LIMITED
9	AB2503096	U51909PB2020PTC051674	CARLTON LIFESTYLE PRIVATE LIMITED
10	AB2452462	U41000PB2019OPC050381	ATLAS WATER MANAGEMENT PRIVATE LIMITED (OPC)
11	AB2394174	U74110PB2018PTC047539	SAEL POWER PRIVATE LIMITED
12	AB2457578	U72900PB2021OPC053444	PYMAN TECHNOLOGIES (OPC) PRIVATE LIMITED
13	AB2444183	U45402PB2021PTC054849	HOUSTON INFRATECH PRIVATE LIMITED
14	AB2451063	U72900PB2022PTC055808	NIRANTAR TECH AND DATA SERVICES PRIVATE LIMITED
15	AB2469184	U18200PB2023PTC059052	DZINX MEDIA NETWORKS PRIVATE LIMITED

(2) Notice is hereby given that the Registrar of Companies had received applications from the above-mentioned companies under section 248(2) of the Companies Act, 2013 for removal of its/their name (s) from the register of companies either on the ground that they have failed to commence business within one year of their incorporation or on the ground that the company(ies) is/are not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and has/have not made any application (s) within such period for obtaining the status of a dormant company under section 455 of the Companies Act, 2013 or the company(ies) have obtained the status of dormant company/subscribers to the memorandum have not paid the subscription which they had undertaken to pay at the time of incorporation of a company and a declaration to this effect has not been filed within one hundred and eighty days of its incorporation under sub-section (1) of section 10A/ have not been carrying on any business or operations, as revealed after the physical verification carried out under sub-section (9) of section 12, but it/they do not wish to continue its/their registration as companies and have, therefore, requested for removal/strike off of its/their names from the register of companies.

(3) Accordingly, the Registrar of Companies proposes to remove or strike off the names of the above-mentioned companies from the Register of Companies.

(4) Any person objecting to the proposed removal or striking off name of the companies from the register of companies may send his or her objection to the office address mentioned here above within thirty days from the date of publication of this notice.

HARIHARA SAHOO

Registrar

Centre for Processing Accelerated Corporate Exit

FORM No. STK-6
PUBLIC NOTICE

[Pursuant to sub-section (2) and sub-section (4) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 7 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of striking off or removal of names of following companies under section 248 of the Companies Act, 2013

Gurgaon-122050, the 21st January 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/1769—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB2356112	U01400RJ2021PTC073941	BEEJX VENTURES PRIVATE LIMITED
2	AB2501657	U33301RJ2019PTC063950	TOOTB HEALTHTECH PRIVATE LIMITED
3	AB2407130	U45201RJ2007PTC024055	ABSOLUTE LANDMARK PRIVATE LIMITED
4	AB2510416	U70101RJ2012PTC039349	NEELAKSH REAL ESTATE AND INFRADEVELOPERS PRIVATE LIMITED
5	AB2260042	U72900RJ2013PTC044198	MIRUS IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
6	AB2435323	U74999RJ2018PTC060275	KOTA ENVOCLEAN PRIVATE LIMITED
7	AB2490689	U45400RJ2018PTC063159	IMAN BUILDCON PRIVATE LIMITED
8	AB2448387	U74999RJ2019PTC067498	TIRUPATI SAFEPAK PRIVATE LIMITED
9	AB2358969	U74999RJ2019PTC067375	PULP SPARK PRIVATE LIMITED
10	AB2506321	U74999RJ2021PTC075279	RS BIOMED PRIVATE LIMITED
11	AB2473922	U85300RJ2021PTC076781	PSPS HEALTHCARE PRIVATE LIMITED
12	AB2456676	U14100RJ2021PTC075712	PINGAKSHA MINES & MINERALS PRIVATE LIMITED
13	AB2528673	U51909RJ2021PTC075465	JAI VITESH TRADERS PRIVATE LIMITED
14	AB2383574	U72200RJ2021PTC077631	HOMENKEYS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
15	AB2483144	U86909RJ2023PTC086088	JAIPUR AESTHETIC PRIVATE LIMITED
16	AB2362842	U62013RJ2023PTC087908	ACTUAI OPENMANDI E-COMMERCE PRIVATE LIMITED
17	AB2475793	U46410RJ2024PTC093214	NORMTHING CLOTHING PRIVATE LIMITED

(2) Notice is hereby given that the Registrar of Companies had received applications from the above-mentioned companies under section 248(2) of the Companies Act, 2013 for removal of its/their name (s) from the register of companies either on the ground that they have failed to commence business within one year of their incorporation or on the ground that the company(ies) is/are not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and has/have not made any application (s) within such period for obtaining the status of a dormant company under section 455 of the Companies Act, 2013 or the company(ies) have obtained the status of dormant company/subscribers to the memorandum have not paid the subscription which they had undertaken to pay at the time of incorporation of a company and a declaration to this effect has not been filed within one hundred and eighty days of its incorporation under sub-section (1) of section 10A/ have not been carrying on any business or operations, as revealed after the physical verification carried out under sub-section (9) of section 12, but it/they do not wish to continue its/their registration as companies and have, therefore, requested for removal/strike off of its/their names from the register of companies.

(3) Accordingly, the Registrar of Companies proposes to remove or strike off the names of the above-mentioned companies from the Register of Companies.

(4) Any person objecting to the proposed removal or striking off name of the companies from the register of companies may send his or her objection to the office address mentioned here above within thirty days from the date of publication of this notice.

HARIHARA SAHOO

Registrar

Centre for Processing Accelerated Corporate Exit

FORM No. STK-6
PUBLIC NOTICE

[Pursuant to sub-section (2) and sub-section (4) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 7 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of striking off or removal of names of following companies under section 248 of the Companies Act, 2013

Gurgaon-122050, the 21st January 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/1770—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB2390711	U22210TG1990PTC010982	WALDEN BOOK LINKS PVT LTD
2	AB2365908	U74200TG2004PTC044793	CHALLA TECHNICAL SERVICES PRIVATE LIMITED
3	AB2335761	U73100TG2022PTC166758	BIOINFOMIX CUSTOM SERVICES PRIVATE LIMITED
4	AB2520759	U63011TG2006PLC051054	UBE AUTOMOTIVE LIMITED
5	AB2317788	U40108TG2009PTC064155	RVK ENERGY (RAJAHMUNDRI) PRIVATE LIMITED
6	AB2503231	U32109TG2012PTC079696	KODALI TRONICS INDIA PRIVATE LIMITED
7	AB2381830	U37200TG2012PTC082214	HYDERABAD RECLAIM PRIVATE LIMITED
8	AB2469633	U24232TG2015PTC097437	THRAIN LABS PRIVATE LIMITED
9	AB2468757	U55204TG2015PTC097247	KODALI HOTELS AND RESORTS PRIVATE LIMITED
10	AB2500334	U70102TG2016PTC102630	SHODHA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
11	AB2331009	U45500TG2017PTC116048	SREE VIJAYA SIMHADRI INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED
12	AB2471158	U74999TG2016PTC111970	FORT MEDICAL SERVICES PRIVATE LIMITED
13	AB2394373	U52609TG2017PTC115845	SONAR & LEE KS PRIVATE LIMITED
14	AB2401404	U15115TG2017PTC119434	THREENI COOKIES PRIVATE LIMITED
15	AB2507414	U51909TG2018PTC122727	GRIDIT MERCHANDISE PRIVATE LIMITED
16	AB2452508	U45309TG2018PTC125716	CHARISHTA CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
17	AB2331321	U72501TG2018PTC127612	LABFORCE TECHNOLOGIES AND CONSULTANT PRIVATE LIMITED
18	AB2461854	U36100TG2019PTC135936	GENESIS MODULAR SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
19	AB2481509	U72900TG2020PTC138474	EPSILON TEK SERVICES PRIVATE LIMITED
20	AB2433072	U52510TG2021PTC154395	SEVEN AM RETAIL NETWORK PRIVATE LIMITED
21	AB2478380	U51909TG2021PTC154583	VIYONA METALS INDIA PRIVATE LIMITED
22	AB2406310	U29308TG2021PTC156579	ABHYUDI INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
23	AB2334738	U85110TG2022PTC164684	MEGSAN DIAGNOSTICS NIZAMABAD PRIVATE LIMITED
24	AB2316743	U85300TG2022PTC164513	MEGSAN ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
25	AB2547678	U63030TG2022OPC161462	MYDKA (OPC) PRIVATE LIMITED
26	AB2379106	U26933TG2022PTC160627	AMSICON CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
27	AB2345783	U74999TG2022PTC160837	CLIMAGRIP ECO SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
28	AB2334998	U85110TG2022PTC164143	MEGSAN DIAGNOSTICS RAJAHMUNDRI PRIVATE LIMITED
29	AB2373943	U47990TS2023PTC172800	HERITOR HI-TECH GLOBAL PRIVATE LIMITED
30	AB2551960	U82990TS2023PTC173573	BRAND WARLOCKS PRIVATE LIMITED
31	AB2546898	U20299TS2024PTC181498	FLUOROCAT FLUORO CHEMICALS PRIVATE LIMITED
32	AB2486877	U62013TS2025PTC192611	SYNCRANOVA PRIVATE LIMITED

(2) Notice is hereby given that the Registrar of Companies had received applications from the above-mentioned companies under section 248(2) of the Companies Act, 2013 for removal of its/their name (s) from the register of companies

either on the ground that they have failed to commence business within one year of their incorporation or on the ground that the company(ies) is/are not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and has/have not made any application (s) within such period for obtaining the status of a dormant company under section 455 of the Companies Act, 2013 or the company(ies) have obtained the status of dormant company/subscribers to the memorandum have not paid the subscription which they had undertaken to pay at the time of incorporation of a company and a declaration to this effect has not been filed within one hundred and eighty days of its incorporation under sub-section (1) of section 10A/ have not been carrying on any business or operations, as revealed after the physical verification carried out under sub-section (9) of section 12, but it/they do not wish to continue its/their registration as companies and have, therefore, requested for removal/strike off of its/their names from the register of companies.

(3) Accordingly, the Registrar of Companies proposes to remove or strike off the names of the above-mentioned companies from the Register of Companies.

(4) Any person objecting to the proposed removal or striking off name of the companies from the register of companies may send his or her objection to the office address mentioned here above within thirty days from the date of publication of this notice.

HARIHARA SAHOO

Registrar

Centre for Processing Accelerated Corporate Exit

FORM No. STK-6
PUBLIC NOTICE

[Pursuant to sub-section (2) and sub-section (4) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 7 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of striking off or removal of names of following companies under section 248 of the Companies Act, 2013

Gurgaon-122050, the 21st January 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/1771—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB2412442	U27104TN1996PTC035055	ELAITE SCAFF PRIVATE LIMITED
2	AB2330382	U93000TN2010PTC074905	NALANDHA ACADEMY OF CAREER SERVICES PRIVATE LIMITED
3	AB2307578	U72900TN2011PTC080893	COLUMBUSAGAIN SOFTWARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
4	AB2222312	U45400TN2012PTC087565	ACME FOUNDATIONS PRIVATE LIMITED
5	AB2360612	U24239TN2011PTC082558	CORAL NUTRACEUTICALS PRIVATE LIMITED
6	AB2375513	U72900TN2013PTC092043	HESTIA STUDIOS PRIVATE LIMITED
7	AB2522805	U72300TN2016PTC103714	PITMAN ENGINEERING CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
8	AB2261389	U74999TN2016PTC113229	ZEALANT SYSTEM PRIVATE LIMITED
9	AB2308336	U72900TZ2016OPC027623	POINTDOT TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED (OPC)
10	AB2340594	U72900TZ2017PTC029264	NIGHTINGALE SOFTWARE PARK PRIVATE LIMITED
11	AB2406456	U85100TN2017PTC118507	AYUSHOVEDA PRIVATE LIMITED
12	AB2542282	U74999TN2016PTC113177	SAGEFORE SERVICES PRIVATE LIMITED
13	AB2426185	U45500TZ2018PTC030653	KUGA CONSTRUCTION AND ENGINEERING PRIVATE LIMITED
14	AB2329982	U85500TN2018PTC120982	ENCHARIS S PRIVATE LIMITED
15	AB2269649	U72900TN2018FTC124007	EMPIRICAL DATA PRIVATE LIMITED
16	AB2245961	U74999TN2018PTC124746	NETER HOMES PRIVATE LIMITED
17	AB2341788	U92490TN2019PTC128934	INNISAI APP PRIVATE LIMITED
18	AB2363029	U51909TN2020PTC134690	ZIRCON DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED
19	AB2285387	U15490TN2020PTC135626	YUMAUM FOODS PRIVATE LIMITED
20	AB2456157	U72900TN2020PTC137796	ARNIYO TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
21	AB2401528	U15490TZ2021PTC035465	NALAN FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
22	AB2393759	U52520TN2021PTC145390	AALAMARA GOLD POINT PRIVATE LIMITED
23	AB2465069	U72900TN2021OPC144493	BITARIMA INDIA (OPC) PRIVATE LIMITED
24	AB2410238	U74999TN2021PTC147946	MARKWEL BUSINESS SERVICES PRIVATE LIMITED
25	AB2463724	U55101TN2021PTC147963	COSMOPOLE PRIDE PKM PRIVATE LIMITED
26	AB2485716	U15549TZ2022PTC038198	ASOS FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED
27	AB2260002	U01100TZ2022PTC039556	SHIRI KARPAGA VINAYAKA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
28	AB2429100	U50101TN2022PTC150636	EVEHICLEZ360 GLOBAL PRIVATE LIMITED
29	AB2511344	U72900TN2022PTC153128	KO BUSINESS INNOVATIONS PRIVATE LIMITED
30	AB2456419	U92490TZ2022PTC040533	ZETTAOTT.COM PRIVATE LIMITED
31	AB2523681	U45500TN2022PTC157223	VAASHAN PROMOTERS PRIVATE LIMITED
32	AB2491097	U41001TN2023PTC160533	SSREE BUILDING DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
33	AB2399921	U62099TN2023OPC166430	HUNTDOWN GAMING SOLUTIONS (OPC) PRIVATE LIMITED
34	AB2469923	U52291TN2024PTC170266	DOWANDERING HOLIDAYS PRIVATE LIMITED

(2) Notice is hereby given that the Registrar of Companies had received applications from the above-mentioned companies under section 248(2) of the Companies Act, 2013 for removal of its/their name (s) from the register of companies either on the ground that they have failed to commence business within one year of their incorporation or on the ground that the company(ies) is/are not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and has/have not made any application (s) within such period for obtaining the status of a dormant company under section 455 of the Companies Act, 2013 or the company(ies) have obtained the status of dormant company/subscribers to the memorandum have not paid the subscription which they had undertaken to pay at the time of incorporation of a company and a declaration to this effect has not been filed within one hundred and eighty days of its incorporation under sub-section (1) of section 10A/ have not been carrying on any business or operations, as revealed after the physical verification carried out under sub-section (9) of section 12, but it/they do not wish to continue its/their registration as companies and have, therefore, requested for removal/strike off of its/their names from the register of companies.

(3) Accordingly, the Registrar of Companies proposes to remove or strike off the names of the above-mentioned companies from the Register of Companies.

(4) Any person objecting to the proposed removal or striking off name of the companies from the register of companies may send his or her objection to the office address mentioned here above within thirty days from the date of publication of this notice.

HARIHARA SAHOO

Registrar

Centre for Processing Accelerated Corporate Exit

FORM No. STK-6
PUBLIC NOTICE

[Pursuant to sub-section (2) and sub-section (4) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 7 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of striking off or removal of names of following companies under section 248 of the Companies Act, 2013

Gurgaon-122050, the 21st January 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/1772—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB2291232	U67120UP1999PTC024257	SURABHI ENVIROTECH PRIVATE LIMITED
2	AB2397240	U45400UP2012PTC052033	HARMONY INFRADEVELOPERS PRIVATE LIMITED
3	AB2529537	U74999UP2018PTC109246	LIFEFACTORY MANAGEMENT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
4	AB2435902	U72900UP2018PTC107807	BOTECH SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
5	AB2365969	U65990UP2019PLC120286	GUNJAN NIDHI LIMITED

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
6	AB2398101	U40300UP2019PTC122143	RSD GAS PRIVATE LIMITED
7	AB2273717	U74110UP2013PTC059050	CIBI TERRA CONSULTING PRIVATE LIMITED
8	AB2461703	U67100UP2020PTC127597	5IRECHAIN TECHNO PRIVATE LIMITED
9	AB2418232	U74140UP2020PTC127303	DIVINE VEDIC SCIENCES PRIVATE LIMITED
10	AB2294998	U45500UP2020PTC129729	VDS INFRACON PRIVATE LIMITED
11	AB2238813	U45400UP2020PTC130591	BLUEPHOENIX INFRABUILD PRIVATE LIMITED
12	AB2492643	U74999UP2020PTC130482	LUSTROUS ENTREPRENEUR PRIVATE LIMITED
13	AB2309684	U50400UP2021PTC140597	SHYAMA SHYAM ELECTRIC MOBILITY PRIVATE LIMITED
14	AB2426216	U15549UP2020PTC136188	HALLO BASKET PRIVATE LIMITED
15	AB2417332	U15490UP2021OPC143043	GAGO FOOD AND BEVERAGE (OPC) PRIVATE LIMITED
16	AB2423415	U15132UP2021PTC149973	SWADHAAR TEST FLOUR MILLS PRIVATE LIMITED
17	AB2393719	U01100UP2021PTC154098	GANGAPUR AGRI JUNCTION FARMER PRODUCER COMPANY LIMITED
18	AB2366020	U65929UP2021PLN157329	ARD AVNI NIDHI LIMITED
19	AB2369368	U65990UP2021PTC152385	SAIFY FOREX PRIVATE LIMITED
20	AB2402834	U72900UP2022PTC167609	ONTALK SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
21	AB2376096	U74999UP2021PTC154794	HAPPYMAA PRIVATE LIMITED
22	AB2407029	U52322UP2021PTC152730	GROCYCARE MART PRIVATE LIMITED
23	AB2359325	U65990UP2022PLN164906	HARENDRA AND HARENDRA NIDHI LIMITED
24	AB2384239	U72900UP2022OPC164170	SONICJAR MEDIA (OPC) PRIVATE LIMITED
25	AB2384005	U15400UP2022PTC162937	BHUNGLA AGRI PRIVATE LIMITED
26	AB2458378	U80900UP2022PTC170067	GSL EDUCARE PRIVATE LIMITED
27	AB2325173	U55100UP2022PTC171808	ROOTMIT FOODS INDIA PRIVATE LIMITED
28	AB2224308	U65990UP2022PLN172170	HFDI NIDHI LIMITED
29	AB2437009	U50500UP2022PTC173993	MIGHTY WARNERS FUEL PRIVATE LIMITED
30	AB2376102	U15490UP2022PTC175640	AL FAYA FROZEN FOODS PRIVATE LIMITED
31	AB2440465	U80900UP2022PTC173781	SSGRN SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
32	AB2413132	U35201UP2023PTC178530	SRI PARASNATH BIO PRODUCTS PRIVATE LIMITED
33	AB2351341	U68200UP2023PTC177614	DEORIA DEVELOPERS AND CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
34	AB2528966	U22209UP2023PTC182943	AWESOME BRUSHWARE PRIVATE LIMITED
35	AB2468604	U47720UP2023PTC193612	NEESURE VENTURES PRIVATE LIMITED
36	AB2503100	U68200UP2024PTC196451	VSPPS INFRA PRIVATE LIMITED
37	AB2371094	U46909UP2024PTC196672	ARV NATURALS PRIVATE LIMITED
38	AB2371832	U62013UP2024PTC199803	GLOBAL IT WIZARD PRIVATE LIMITED

(2) Notice is hereby given that the Registrar of Companies had received applications from the above-mentioned companies under section 248(2) of the Companies Act, 2013 for removal of its/their name (s) from the register of companies either on the ground that they have failed to commence business within one year of their incorporation or on the ground that the company(ies) is/are not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and has/have not made any application (s) within such period for obtaining the status of a dormant company under section 455 of the Companies Act, 2013 or the company(ies) have obtained the status of dormant company/subscribers to the memorandum have not paid the subscription which they had undertaken to pay at the time of incorporation of a company and a declaration to this effect has not been filed within one hundred and eighty days of its incorporation under sub-section (1) of section 10A/ have not been carrying on any business or operations, as revealed after the physical verification carried out under sub-section (9) of section 12, but it/they do not wish to continue its/their registration as companies and have, therefore, requested for removal/strike off of its/their names from the register of companies.

(3) Accordingly, the Registrar of Companies proposes to remove or strike off the names of the above-mentioned companies from the Register of Companies.

(4) Any person objecting to the proposed removal or striking off name of the companies from the register of companies may send his or her objection to the office address mentioned here above within thirty days from the date of publication of this notice.

HARIHARA SAHOO

Registrar

Centre for Processing Accelerated Corporate Exit

FORM No. STK-6
PUBLIC NOTICE

[Pursuant to sub-section (2) and sub-section (4) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 7 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of striking off or removal of names of following companies under section 248 of the Companies Act, 2013

Gurgaon-122050, the 21st January 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/1773—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB2385207	U74210WB1983PTC036853	SALTCON ENGINEERS & BUILDERS PVT LTD
2	AB2417374	U74999WB1992PTC054370	MULTIPOWER DIESELS (EASTERN) PVT. LTD.
3	AB2110018	U74140WB1993PTC059844	ZANY BIO TECH PRIVATE LIMITED
4	AB2382959	U74210WB1988PTC043860	M.MRIDULA & ASSOCIATES PVT LTD
5	AB2326899	U51909WB1995PTC067903	AV EXIM PVT LTD
6	AB2521030	U63090WB2004PTC098016	ANUSU SERVICE AGENCY PRIVATE LIMITED
7	AB2360814	U51109WB2007PTC115605	ARIHANT VINIMAY PRIVATE LIMITED
8	AB2408034	U45400WB2008PTC126507	SHANIA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
9	AB2422465	U52100WB2010PTC148711	KULAVARDHINI VINCOM PRIVATE LIMITED
10	AB2348400	U51909WB2010PTC149879	BLESSING TRADECOMM PRIVATE LIMITED
11	AB2324888	U52100WB2010PTC150095	TAPASVINI DEALCOM PRIVATE LIMITED
12	AB2324331	U52100WB2010PTC150102	SUMUKHAN VINTRADE PRIVATE LIMITED
13	AB2536262	U52100WB2010PTC150070	SHATRUGHNAH SALES PRIVATE LIMITED
14	AB2423439	U52100WB2010PTC147666	SUVEERAH DEALCOM PRIVATE LIMITED
15	AB2329114	U52190WB2010PTC149118	VIDISHA DEALTRADE PRIVATE LIMITED
16	AB2426233	U93000WB2010PTC155243	RIDHI SIDHI EMBOSS PRIVATE LIMITED
17	AB2422735	U74999WB2012PTC179567	ORPIMENT SUPPLIERS PRIVATE LIMITED
18	AB2423706	U51909WB2012PTC183283	VOGUSH JEWELLERY PRIVATE LIMITED
19	AB2418893	U51909WB2012PTC182102	RUBSYN GLOBAL PRIVATE LIMITED
20	AB2392989	U51909WB2012PTC181803	PROPERTIME VINTRADE PRIVATE LIMITED
21	AB2424474	U74999WB2011PTC170526	MERICO LOGISTICS PRIVATE LIMITED
22	AB2371877	U74900WB2012PTC187352	MEDIZEN EDUCATION AND COMMUNICATION PRIVATE LIMITED
23	AB2486359	U01403WB2012PTC175726	AMRELI INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
24	AB2408069	U51909WB2011PTC169768	KRIPALU VINTRADE PRIVATE LIMITED
25	AB2384823	U74900WB2012PTC188093	EIGHTEEN 99 GAMING & TURF SPORTS CLUB PRIVATE LIMITED
26	AB2371596	U70102WB2013PTC194209	MAXTOR PLAZA PRIVATE LIMITED
27	AB2073903	U51909WB2013PTC190337	LOOKLIKE MERCANTILE PRIVATE LIMITED
28	AB2367791	U45400WB2007PTC116575	KAIZEN INFRA DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED
29	AB2542162	U74900WB2015PTC208964	NATHULAL FOOD SERVICES PRIVATE LIMITED
30	AB2461117	U74900WB2015PTC207636	ORPHICARD TECH PRIVATE LIMITED
31	AB2476232	U64200WB2016PTC215687	KRONIES TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
32	AB2393486	U14299WB2017PTC219409	XTERRA MINING SERVICES PRIVATE LIMITED
33	AB2437313	U74999WB2018PTC227484	ZEYTUN MEDICARE PRIVATE LIMITED

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
34	AB2429535	U74999WB2018PTC229053	KNB ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED
35	AB2364061	U51909WB2019PTC229574	GREYNOTE PRIVATE LIMITED
36	AB2273364	U72900WB2019PTC232697	GTECHHUNT PRIVATE LIMITED
37	AB2374188	U72900WB2019OPC233983	LOCANTO INDIA (OPC) PRIVATE LIMITED
38	AB2525256	U70109WB2021PTC244604	PRIME TOWN PROMOTERS PRIVATE LIMITED
39	AB2461781	U51909WB2021PTC247372	DEVRESHIDUTTA ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
40	AB2485453	U80900WB2022OPC255397	GOLDEN RULES EDU&B (OPC) PRIVATE LIMITED
41	AB2139997	U70100WB2021PTC250392	VALICITY REAL ESTATE PRIVATE LIMITED
42	AB2098826	U55204WB2021PTC250478	IDENTITY HOSPITALITY PRIVATE LIMITED
43	AB2407914	U73200WB2022OPC253339	HEPMER (OPC) PRIVATE LIMITED
44	AB2446562	U78100WB2023PTC263017	KCM TRAINING & JOB PLACEMENT PRIVATE LIMITED
45	AB2439502	U47912WB2023PTC266815	VITAPURIS ESSENCE PRIVATE LIMITED
46	AB2464709	U21001WB2023PTC266752	ORANGE AYURVEDA PRIVATE LIMITED
47	AB2537931	U86905WB2024PTC267828	ALONA RESEARCH AND DIAGNOSTIC PRIVATE LIMITED

(2) Notice is hereby given that the Registrar of Companies had received applications from the above-mentioned companies under section 248(2) of the Companies Act, 2013 for removal of its/their name (s) from the register of companies either on the ground that they have failed to commence business within one year of their incorporation or on the ground that the company(ies) is/are not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and has/have not made any application (s) within such period for obtaining the status of a dormant company under section 455 of the Companies Act, 2013 or the company(ies) have obtained the status of dormant company/subscribers to the memorandum have not paid the subscription which they had undertaken to pay at the time of incorporation of a company and a declaration to this effect has not been filed within one hundred and eighty days of its incorporation under sub-section (1) of section 10A/ have not been carrying on any business or operations, as revealed after the physical verification carried out under sub-section (9) of section 12, but it/they do not wish to continue its/their registration as companies and have, therefore, requested for removal/strike off of its/their names from the register of companies.

(3) Accordingly, the Registrar of Companies proposes to remove or strike off the names of the above-mentioned companies from the Register of Companies.

(4) Any person objecting to the proposed removal or striking off name of the companies from the register of companies may send his or her objection to the office address mentioned here above within thirty days from the date of publication of this notice.

HARIHARA SAHOO

Registrar

Centre for Processing Accelerated Corporate Exit

FORM No. STK-7

NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of Companies Act, 2013 and of following Companies

Gurgaon-122050, the 3rd February 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2024-25/1776—This is with respect to this Office Notice Nos. and application (Form STK 2) vide SRNs as mentioned. Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of following Companies have been struck off on this day 08/02/2025 from the Register of the Companies and the said Companies are dissolved:—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB2052989	U74999AP2016PTC104211	POMMALA SP TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
2	AB1999531	U05000AP2018PTC109430	SRI VIJAYA DURGA SEAFOOD WORKS PRIVATE LIMITED

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
3	AB1947510	U15400AP2022PTC122186	TOWN KITCHENS INDIA PRIVATE LIMITED
4	AB1866202	U46497AP2023PTC112630	GOBINDO PHARMA PRIVATE LIMITED
5	AB1862207	U45400AP2016PTC098038	NINE INFRA ENGINEERS INDIA PRIVATE LIMITED
6	AB1734500	U52209AP2021PTC119195	JASWIK MERIAN HUB PRIVATE LIMITED

HARIHARA SAHOO
ROC, C-PACE
Manesar, Haryana

FORM No. STK-7
NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of Companies Act, 2013 and of following Companies

Gurgaon-122050, the 3rd February 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2024-25/1777—This is with respect to this Office Notice Nos. and application (Form STK 2) vide SRNs as mentioned. Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of following Companies have been struck off on this day 08/02/2025 from the Register of the Companies and the said Companies are dissolved:—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB2027093	U85300AS2021PTC022226	U A VENTURES PRIVATE LIMITED
2	AB1955867	U15490AS2020PTC020663	WAHENGHAM BROTHERS AGRO INDUSTRIES PRIVATE LIMITED

HARIHARA SAHOO
ROC, C-PACE
Manesar, Haryana

FORM No. STK-7
NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of Companies Act, 2013 and of following Companies

Gurgaon-122050, the 3rd February 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2024-25/1778—This is with respect to this Office Notice Nos. and application (Form STK 2) vide SRNs as mentioned. Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of following Companies have been struck off on this day 08/02/2025 from the Register of the Companies and the said Companies are dissolved:—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB2007958	U72900BR2022PTC060546	SMARTSIGMA IT SERVICES PRIVATE LIMITED
2	AB1941535	U45309BR2021PLC053128	RITUAL CONSTRUCTIONS AND INFRA LIMITED
3	AB1823644	U15122BR2013PTC035796	KUMBHAH TEA PRIVATE LIMITED

HARIHARA SAHOO
ROC, C-PACE
Manesar, Haryana

FORM No. STK-7
NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of Companies Act, 2013 and of following Company

Gurgaon-122050, the 3rd February 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2024-25/1779—This is with respect to this Office Notice Nos. and application (Form STK 2) vide SRNs as mentioned. Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of following Company have been struck off on this day 08/02/2025 from the Register of the Companies and the said Company is dissolved:—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB1927933	U72900CT2021PTC011724	SARVANG SOLUTIONS PRIVATE LIMITED

HARIHARA SAHOO
ROC, C-PACE
Manesar, Haryana

FORM No. STK-7
NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of Companies Act, 2013 and of following Companies

Gurgaon-122050, the 3rd February 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2024-25/1780—This is with respect to this Office Notice Nos. and application (Form STK 2) vide SRNs as mentioned. Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of following Companies have been struck off on this day 08/02/2025 from the Register of the Companies and the said Companies are dissolved:—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB2049150	U74999DL2021PTC382351	PET SET PAW PRIVATE LIMITED
2	AB2032433	U93190DL2023PTC411579	PERFECT-PITCH SPORTS MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
3	AB2017604	U74102DL2024OPC430488	HOID VENTURE (OPC) PRIVATE LIMITED
4	AB1540311	U74999DL2014PTC271592	AIR & TECHNOLOGY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
5	AB1540458	U55101DL2016PTC298629	VITARKA HOSPITALITY PRIVATE LIMITED
6	AB2015280	U74899DL1990PTC041376	DEEANJALI STAMPINGS PRIVATE LIMITED
7	AB2007035	U82300DL2023PTC423609	TAILOR MADE DREAMS PRIVATE LIMITED
8	AB2005425	U74140DL2021PTC384212	DRAWZZY INDIA PRIVATE LIMITED
9	AB1998125	U74999DL2015PTC285848	MBX BUSINESS CONSULTING PRIVATE LIMITED
10	AB1992701	U74999DL2017PTC315434	ASSURED IMMIGRATION CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
11	AB1990181	U15100DL2021PTC382627	JOYSTREET INDIA PRIVATE LIMITED
12	AB1989560	U82990DL2024PTC428540	ESURV ENSPIRE WORK PRIVATE LIMITED
13	AB1954608	U85499DL2023OPC421333	DAAI CARE (OPC) PRIVATE LIMITED
14	AB1944171	U74899DL1994PTC062439	AKASH GANGA PORTFOLIOS PRIVATE LIMITED
15	AB1944134	U62099DL2023PTC421192	ASIAMAX TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
16	AB1940953	U74899DL1992PTC051146	RAJIVA EXPORTS PRIVATE LIMITED
17	AB1937055	U74120DL2012PTC235394	LUMUS MEDIA PRIVATE LIMITED
18	AB1933747	U35990DL2021PTC376116	MARUT ENGINEERING PRIVATE LIMITED

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
19	AB1654071	U25111DL1998PTC068198	CHOUDHARY TYRES PRIVATE LIMITED
20	AB1933400	U72900DL2022PTC397002	NEXTGEN GAMING SOLUTION PRIVATE LIMITED
21	AB1916242	U67190DL2022PTC396021	FINCRITIC INDIA PRIVATE LIMITED
22	AB1911196	U70103DL2016PTC306393	BROADFIELD REALTORS PRIVATE LIMITED
23	AB1907453	U74899DL1995PTC070192	STRING DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
24	AB1895807	U18101DL2008PTC177606	DURGA CREATIONS PRIVATE LIMITED
25	AB1716955	U74999DL2018PTC341913	PIPORE BEVERAGES PRIVATE LIMITED
26	AB1889517	U72200DL2016PTC301903	LEARNING DROME PRIVATE LIMITED
27	AB1875402	U72900DL2021PTC376749	SANKAI TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
28	AB1873103	U47521DL2023OPC424185	SANSHA EXIM (OPC) PRIVATE LIMITED
29	AB1866461	U56101DL2023PTC421569	ANSHI LIFESTYLE PRIVATE LIMITED
30	AB1865008	U74899DL1995PTC070802	CHINAR METALS PRIVATE LIMITED
31	AB1734836	U22219DL2019PLC346511	PKJ PUBLISHERS LIMITED
32	AB1861779	U74994DL2018OPC329360	GURUJI ASTROLOGY AND VEDIC MANTRAS PRAYERS (OPC) PRIVATE LIMITED
33	AB1861006	U74999DL2022PTC405663	KDSR SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED
34	AB1854153	U65992DL2001PTC112610	SAMBHAV CHIT FUND PRIVATE LIMITED
35	AB1852326	U19201DL1993PTC053256	CAPITAL POLYMERS INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
36	AB1841983	U49230DL2004PTC124850	D K INVESTIGATORS PRIVATE LIMITED
37	AB1752854	U72900DL2022PTC398559	ZMK DIGITAL SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
38	AB1753150	U45201DL2006PTC146135	SATYA DEEP BUILDERS PRIVATE LIMITED
39	AB1825159	U72900DL2021OPC390726	SELL ZONE IMPEX (OPC) PRIVATE LIMITED
40	AB1822456	U93090DL2017PTC319761	WORKSHIP GLOBAL PRIVATE LIMITED
41	AB1803549	U55209DL2020PTC366006	SPECTRE KITCHEN PRIVATE LIMITED
42	AB1794002	U74999DL2017PTC322850	DILIGENT RENTAL SERVICES PRIVATE LIMITED
43	AB1775965	U52609DL2019PTC344976	RIZHORIZON PRIVATE LIMITED

HARIHARA SAHOO
ROC, C-PACE
Manesar, Haryana

FORM No. STK-7

NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of Companies Act, 2013 and of following Companies

Gurgaon-122050, the 3rd February 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2024-25/1781—This is with respect to this Office Notice Nos. and application (Form STK 2) vide SRNs as mentioned. Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of following Companies have been struck off on this day 08/02/2025 from the Register of the Companies and the said Companies are dissolved:—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB2021757	U72900GA2022OPC015655	KYMBRE TAEKNI (OPC) PRIVATE LIMITED
2	AB1765293	U55101GA2024PTC016536	MKBP HOSPITALITY PRIVATE LIMITED

HARIHARA SAHOO
ROC, C-PACE
Manesar, Haryana

FORM No. STK-7
NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of Companies Act, 2013 and of following Companies

Gurgaon-122050, the 3rd February 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2024-25/1782—This is with respect to this Office Notice Nos. and application (Form STK 2) vide SRNs as mentioned. Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of following Companies have been struck off on this day 08/02/2025 from the Register of the Companies and the said Companies are dissolved:—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB2071594	U27100GJ1973PTC002434	INVENTA STEELS PVT LTD
2	AB2030335	U45309GJ2021PTC127627	SIMANDHAR BUILDSPACE PRIVATE LIMITED
3	AB2015666	U72200GJ2013PTC075263	PVD CONSULTING PRIVATE LIMITED
4	AB2011466	U72900GJ2019PTC109673	PM-CUBE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
5	AB1988122	U52100GJ2014PTC081470	PREMDEEP AGRO GENETICS PRIVATE LIMITED
6	AB1969626	U24231GJ1993PTC020484	VIJAY DEEP DYE-CHEM PVT LTD
7	AB1937505	U40300GJ2022PTC128815	SATYAJIT RENEWABLE ENERGY PRIVATE LIMITED
8	AB1918060	U29308GJ2021PTC127889	BHALIYA AND SINGH PRIVATE LIMITED
9	AB1574826	U72300GJ2013PTC077029	UNIQUE E-COMMERCE CENTRE PRIVATE LIMITED
10	AB1913832	U70200GJ2023PTC143183	PG CLICK UNIVERSAL PRIVATE LIMITED
11	AB1904253	U27201GJ2024PTC147431	VOLCUP ENERGY PRIVATE LIMITED
12	AB1899037	U63030GJ2017PTC096893	MDSS TRAVELS PRIVATE LIMITED
13	AB1886075	U51909GJ2021PTC123403	MYRIAD APOTHECARY PRIVATE LIMITED
14	AB1885980	U01111GJ2012PTC069344	LEELA SEEDS PRIVATE LIMITED
15	AB1881147	U50100GJ2020PTC115498	MOTTOR DEAL TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
16	AB1865275	U36912GJ1989PTC013127	CGI OPHTHALMIC PRIVATE LIMITED
17	AB1844466	U45201GJ1993PTC018862	CHAMPANER CONSTRUCTION PVT LTD
18	AB1831167	U72900GJ2014PTC081232	EMPOWER TECHNOVISION PRIVATE LIMITED
19	AB1811431	U92312GJ1995PTC057690	MAGIC BOX PRODUCTIONS PRIVATE LIMITED.
20	AB1799241	U40106GJ2022PTC137023	GRE RENEW ENERGY PRIVATE LIMITED
21	AB1707545	U51909GJ2020PTC112479	GREENSPARK SUNLIGHT PRIVATE LIMITED

HARIHARA SAHOO
ROC, C-PACE
Manesar, Haryana

FORM No. STK-7
NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of Companies Act, 2013 and of following Companies

Gurgaon-122050, the 3rd February 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2024-25/1783—This is with respect to this Office Notice Nos. and application (Form STK 2) vide SRNs as mentioned. Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of following Companies have been struck off on this day 08/02/2025 from the Register of the Companies and the said Companies are dissolved:—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB2081321	U80902HR2022PTC105969	PASSIONR DREAMWORKS PRIVATE LIMITED
2	AB2038992	U21000HR2021OPC093317	DIVY PAPER PRODUCTS (OPC) PRIVATE LIMITED
3	AB2033094	U72900HR2021PTC097380	VIRTUAL UTILITY PRIVATE LIMITED
4	AB2015809	U51909HR2022PTC101624	SRPC TRADESERVE PRIVATE LIMITED

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
5	AB2009257	U85100HR2019PTC084016	KAPITAAS BUSINESS STRATEGY AND ALLIANCES PRIVATE LIMITED
6	AB2005993	U74109HR2023PTC110058	COZMIC ENGINEERING PRIVATE LIMITED
7	AB2005936	U74999HR2022PTC101186	MWS TECH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
8	AB1932779	U15520HR2021PTC095380	ETHER DISTILLERS PRIVATE LIMITED
9	AB1926123	U62099HR2024PTC120363	ULT BUSINESS PRIVATE LIMITED
10	AB1924008	U47912HR2023PTC115760	URBAN HERBS HEALTHCARE PRIVATE LIMITED
11	AB1921510	U74999HR2020PTC085872	WINFULENTIALS PROFESSIONAL CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
12	AB1899540	U74999HR2022PTC103652	WOM PROMO PRIVATE LIMITED
13	AB1895208	U52211HR2024PTC121444	PREXPARK PRIVATE LIMITED
14	AB1868160	U52599HR2022PTC102715	NORTH WEST PACKAGING PRIVATE LIMITED
15	AB1856729	U47211HR2023PTC115148	KSKT AGRICART PRIVATE LIMITED
16	AB1852516	U40100HR2022FTC103338	RADIAN POWER INDIA PRIVATE LIMITED
17	AB1849070	U74999HR2018PTC075904	SOLCREST ENERGY PRIVATE LIMITED
18	AB1724675	U72900HR2022OPC106675	YAHN CONSULTANCY (OPC) PRIVATE LIMITED

HARIHARA SAHOO
ROC, C-PACE
Manesar, Haryana

FORM No. STK-7
NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of Companies Act, 2013 and of following Companies

Gurgaon-122050, the 3rd February 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2024-25/1784—This is with respect to this Office Notice Nos. and application (Form STK 2) vide SRNs as mentioned. Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of following Companies have been struck off on this day 08/02/2025 from the Register of the Companies and the said Companies are dissolved:—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB1882328	U92132TG2011PTC074339	SIRANJALI MEDIA PRIVATE LIMITED
2	AB1865751	U64200TG2022PTC165903	DIGISTREAM BROADCASTING PRIVATE LIMITED
3	AB1861409	U72200TG2016PTC113476	CHEAP SMS DOT COM BULK MESSAGING SERVICES PRIVATE LIMITED
4	AB1858382	U01409TG2021PTC151464	GUPTAS SALES AND MARKETING PRIVATE LIMITED
5	AB1837091	U74110TG2020PTC141611	SWASTIK ONE PRIVATE LIMITED
6	AB1794417	U74999TG2018PTC121762	OVIYA INTERIORS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
7	AB1780197	U74994TG2018PTC121641	AQUILEGIA TRADING CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
8	AB1779852	U52609TG2018PTC121575	RUDHMA TRADING PRIVATE LIMITED
9	AB1778943	U74999TG2018PTC121662	GAILLARDIA INDENT TRADERS PRIVATE LIMITED
10	AB1758386	U24230TG1995PLC020644	VERA PHARMA LIMITED
11	AB1757256	U74999TG2008PTC059636	ITECHMETHODS SOLUTIONS INDIA PRIVATE LIMITED

HARIHARA SAHOO
ROC, C-PACE
Manesar, Haryana

FORM No. STK-7
NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of Companies Act, 2013 and of following Company

Gurgaon-122050, the 3rd February 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2024-25/1785—This is with respect to this Office Notice Nos. and application (Form STK 2) vide SRNs as mentioned. Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of following Company have been struck off on this day 08/02/2025 from the Register of the Companies and the said Company is dissolved:—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB1639155	U74900JK2011PTC003397	KPO PUBLICATION SERVICES PRIVATE LIMITED

HARIHARA SAHOO
ROC, C-PACE
Manesar, Haryana

FORM No. STK-7
NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of Companies Act, 2013 and of following Companies

Gurgaon-122050, the 3rd February 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2024-25/1786—This is with respect to this Office Notice Nos. and application (Form STK 2) vide SRNs as mentioned. Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of following Companies have been struck off on this day 08/02/2025 from the Register of the Companies and the said Companies are dissolved:—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB1971941	U85500JH2023PTC020985	INTELLITEACH CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
2	AB1896707	U00314JH1994PTC006120	S.G. ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
3	AB1762367	U45201JH2016PTC003592	NAMHAR INFRA PRIVATE LIMITED
4	AB1659531	U45209JH2020PTC015746	PANINFRA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED

HARIHARA SAHOO
ROC, C-PACE
Manesar, Haryana

FORM No. STK-7
NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of Companies Act, 2013 and of following Companies

Gurgaon-122050, the 3rd February 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2024-25/1787—This is with respect to this Office Notice Nos. and application (Form STK 2) vide SRNs as mentioned. Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of following Companies have been struck off on this day 08/02/2025 from the Register of the Companies and the said Companies are dissolved:—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB0541491	U72200KA2015PTC084522	NEXVERX SYSTEMS INDIA PRIVATE LIMITED
2	AB1179583	U67120KA2003PTC031589	KRISH AND RAM FOREX PRIVATE LIMITED

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
3	AB2062932	U72900KA2021OPC152143	BLUELAN WORLD TECHNOLOGIES (OPC) PRIVATE LIMITED
4	AB2044388	U64990KA2023PTC175295	DHARWAD SARAL CHITS PRIVATE LIMITED
5	AB2041079	U74999KA2017PTC099460	D&K GENERAL OVERSEAS CONSULTING PRIVATE LIMITED
6	AB2033002	U51909KA2020OPC136120	RPCONG (OPC) PRIVATE LIMITED
7	AB2012522	U42909KA2023OPC176967	CORALBEADS MANAGEMENTCONSULTANTS (OPC) PRIVATE LIMITED
8	AB1976531	U49223KA2023OPC180493	MITPAS STUDIO (OPC) PRIVATE LIMITED
9	AB1969044	U25190KA2020PTC133619	SMR GLOBAL LATEX PRIVATE LIMITED
10	AB1945231	U72200KA2018PTC113434	BOUNTIFUL SOFTWARE INDIA PRIVATE LIMITED
11	AB1938242	U52100KA2022PTC161135	SANVI GLOBAL TRADERS PRIVATE LIMITED
12	AB1930159	U62099KA2023OPC171352	CLUB MILI DIGITAL (OPC) PRIVATE LIMITED
13	AB1915561	U72100KA2015PTC080194	WHITE TIGER VENTURES PRIVATE LIMITED
14	AB1900152	U80904KA2018PTC117738	ALIANCE PRESTIGE INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
15	AB1897973	U74140KA2006PTC040682	HEURION CONSULTING PRIVATE LIMITED
16	AB1895360	U82910KA2024PTC186882	INTELLIWORKS PRIVATE LIMITED
17	AB1892914	U51909KA2020PTC133146	UDREKA EXPORTS PRIVATE LIMITED
18	AB1887678	U85195KA2003PTC031964	CRYO STEMCELL PRIVATE LIMITED
19	AB1885554	U70109KA2019PTC125451	PROPNEXT BUSINESS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
20	AB1877552	U52393KA2022PTC158174	NAKASE EXPORTS PRIVATE LIMITED
21	AB1844953	U74999KA2022PTC159742	NUSIGMA GLOBAL CONSULTING PRIVATE LIMITED
22	AB1831139	U10790KA2023PTC182179	NUTRIPADMA MUNCHIEZ PRIVATE LIMITED
23	AB1828101	U74999KA2022OPC165755	VIKSHITH GANESH (OPC) PRIVATE LIMITED
24	AB1774050	U86909KA2023PTC177445	SANGHAONE YOGA WELLNESS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
25	AB1770906	U74900KA2015PTC084857	FLIXY GAMES PRIVATE LIMITED
26	AB1769857	U55101KA2021PTC144016	GOODCHEF HOSPITALITY PRIVATE LIMITED

HARIHARA SAHOO
ROC, C-PACE
Manesar, Haryana

FORM No. STK-7
NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of Companies Act, 2013 and of following Companies

Gurgaon-122050, the 3rd February 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2024-25/1788—This is with respect to this Office Notice Nos. and application (Form STK 2) vide SRNs as mentioned. Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of following Companies have been struck off on this day 08/02/2025 from the Register of the Companies and the said Companies are dissolved:—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB1980359	U74999KL2020PTC062440	FUTURE ENCRYPT PRIVATE LIMITED
2	AB1970317	U72900KL2021PTC067848	BRIGHT TREE VENTURES PRIVATE LIMITED
3	AB1958230	U92490KL2022OPC079346	L B PRODUCTIONS (OPC) PRIVATE LIMITED

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
4	AB1938777	U74999KL2019PTC058449	MCLIK PRIVATE LIMITED
5	AB1934734	U72900KL2020PTC063852	ACINONYX TECH LABS PRIVATE LIMITED
6	AB1900577	U31900KL2020PTC063076	ALIVE IDEAS PRIVATE LIMITED
7	AB1897547	U63040KL2010PTC026542	XARA ACTIVE VACATIONS PRIVATE LIMITED
8	AB1567391	U01114KL2016PTC046911	THRISSUR ORGANIC FARM PRIVATE LIMITED
9	AB1882810	U80902KL2020OPC066596	TRAINED2SHINE (OPC) PRIVATE LIMITED
10	AB1881568	U47210KL2023PTC084977	MRG FOOD'S PRIVATE LIMITED
11	AB1837669	U72200KL2011PTC027475	DHILOGICS SOLUTIONS INDIA PRIVATE LIMITED
12	AB1837051	U66190KL2023PTC082673	AKSHAYA MONEY EXCHANGE PRIVATE LIMITED
13	AB1810052	U24290KL2021PTC072692	BLUEMIN LIFECARE PRIVATE LIMITED
14	AB1788525	U74999KL2018PTC053178	NUFINANZ PRIVATE LIMITED
15	AB1775750	U65992KL2018PTC055605	VASUREVATH CHITS PRIVATE LIMITED
16	AB1643311	U14108KL1994PLC007975	MUTHOOT APT CERAMICS LTD

HARIHARA SAHOO
ROC, C-PACE
Manesar, Haryana

FORM No. STK-7
NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of Companies Act, 2013 and of following Companies

Gurgaon-122050, the 3rd February 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2024-25/1789—This is with respect to this Office Notice Nos. and application (Form STK 2) vide SRNs as mentioned. Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of following Companies have been struck off on this day 08/02/2025 from the Register of the Companies and the said Companies are dissolved:—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB1927226	U82990MP2023PTC068661	RADIANTEZZA VERTEX PRIVATE LIMITED
2	AB1923343	U74999MP2016PTC041923	LALITA INDUSTRIAL SECURITY SERVICE PRIVATE LIMITED
3	AB1896391	U70101MP2013PTC030792	KESAR INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED
4	AB1824052	U33111MP2021PTC057651	VITAL WORKS PRIVATE LIMITED

HARIHARA SAHOO
ROC, C-PACE
Manesar, Haryana

FORM No. STK-7
NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of Companies Act, 2013 and of following Companies

Gurgaon-122050, the 3rd February 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2024-25/1790—This is with respect to this Office Notice Nos. and application (Form STK 2) vide SRNs as mentioned. Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the

Companies Act, 2013 the name of following Companies have been struck off on this day 08/02/2025 from the Register of the Companies and the said Companies are dissolved:—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB2064900	U51900MH2000PTC128023	YMH ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
2	AB2055280	U63090MH2000PTC130097	SEATRANS LOGISTICS (INDIA) PRIVATE LIMITED
3	AB2046741	U72900MH2021PTC360702	AYDEN LABS PRIVATE LIMITED
4	AB2045919	U46411MH2023PTC413866	JAYKOUN LIFESTYLES PRIVATE LIMITED
5	AB2030235	U72300MH2011PTC211838	ASYMMETRIX SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
6	AB2026609	U92100MH2005PTC153658	J S FILMS PRIVATE LIMITED
7	AB2012753	U92410MH2021PTC374225	TRISHOOLIN PICTUREZ INDIA PRIVATE LIMITED
8	AB2002418	U74999MH2016PTC282148	GVD LATEX PRIVATE LIMITED
9	AB1987753	U36990MH2022PTC387016	FURNDEPOT PRIVATE LIMITED
10	AB1615219	U52292MH2023PTC403120	TITAN MARINE PRIVATE LIMITED
11	AB1616765	U13946MH2023PTC407690	PURVA TAPES PRIVATE LIMITED
12	AB1973352	U17299MH1997PTC110060	ANDAZ TEXTILES PRIVATE LIMITED
13	AB1971102	U35923MH2017PTC300843	METATRON TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMITED
14	AB1639624	U24299MH2020PTC351449	AMOURSUI VENTURES PRIVATE LIMITED
15	AB1640087	U65990MH1981PTC025532	ENTERMONDE INVESTMENTS PVT LTD
16	AB1950179	U24299MH2022PTC387678	UNIPLANT AGRITECH PRIVATE LIMITED
17	AB1941557	U72900MH2021PTC372102	INTELBRIDGE SOLUTIONS INDIA PRIVATE LIMITED
18	AB1940720	U74110MH1985PTC036558	PINK PINEAPPLE DESIGNERS PRIVATE LIMITED
19	AB1940010	U41001MH2023PTC403070	RASHESHWAR SALES AND SERVICES PRIVATE LIMITED
20	AB1933211	U51504MH2020PTC340092	SIMBASRL INDIA PRIVATE LIMITED
21	AB1689418	U34100MH2022PTC382659	PRACHI EV MOBILITY PRIVATE LIMITED
22	AB1918629	U55209MH2020PTC345351	SV LODGING & BOARDING PRIVATE LIMITED
23	AB1917533	U22209MH2024PTC430986	RAJNANDA ECOPET PRIVATE LIMITED
24	AB1905372	U67200MH2020PTC337343	MANGAL ROYAL FOREX PRIVATE LIMITED
25	AB1897693	U55209MH2020PTC336967	SHEETAL HOSPITALITY PRIVATE LIMITED
26	AB1894991	U85110MH2008PTC178690	ASHIRWAD MULTISPECIALITY HOSPITAL AND RESEARCH CENTRE PRIVATE LIMITED
27	AB1888926	U74900MH2016PTC272994	YOSHI DIAMOND JEWELLERY PRIVATE LIMITED
28	AB1888923	U25992MH2023PTC409285	PLUXDY FOODS AND BEVERAGES PRIVATE LIMITED
29	AB1874924	U74999MH2016PTC288608	AYON HOME SERVICES PRIVATE LIMITED
30	AB1874847	U74999MH2019PTC322901	SPMR PHARMA PRIVATE LIMITED
31	AB1873259	U92141MH2006PTC163634	R AND J ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
32	AB1737196	U63040MH2000PTC124358	MUTUAL TRAVELS (INDIA) PRIVATE LIMITED
33	AB1871795	U50200MH2019PTC326147	DEE CAR CARE STUDIO PRIVATE LIMITED
34	AB1863707	U55101MH2017PTC300330	SOHAM HOSPITALITY PRIVATE LIMITED
35	AB1859984	U01100MH2021PTC372955	ASIABROWN AGRI RESOURCES PRIVATE LIMITED
36	AB1748813	U51491MH2001PTC132377	SPAN FIBRE (INDIA) PRIVATE LIMITED
37	AB1856151	U45202MH2010PTC201908	MADHURAM CONSTRUCTIONS AND LAND DEALINGS COMPANY PRIVATE LIMITED
38	AB1855687	U24223MH1951PLC008367	RAINBOW INK AND VARNISH MANUFACTURING COMPANY LIMITED
39	AB1852802	U45200MH2015PTC267924	SCHEMAATICS DEVELOPERS PRIVATE LIMITED

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
40	AB1851642	U45201MH2022PTC395263	AVIK BUILDCON PRIVATE LIMITED
41	AB1849096	U27320MH2017PLC296456	ARROWPOINT TRADE LIMITED
42	AB1841318	U65990MH2020PTC352840	KAVI TRAVELS AND FOREX PRIVATE LIMITED
43	AB1834335	U67120MH1995PTC091896	RAISONI SECURITIES PRIVATE LIMITED
44	AB1818421	U55109MH2024PTC425052	BUZZIN BNB PRIVATE LIMITED
45	AB1812699	U24299MH2019PTC320001	CAPILLARY PARENTERALS (I) PRIVATE LIMITED
46	AB1770653	U74102MH2023OPC409730	BOTTEGA ECO PARIVAR (OPC) PRIVATE LIMITED
47	AB1801559	U43309MH2023PTC413863	ANGELS BUILDINDIA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
48	AB1791398	U45201MH2021PTC366527	AMANECER INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
49	AB1790826	U37200MH2021PTC358870	AMANECER WASTE MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
50	AB1786085	U52500MH2022PTC374459	AYP TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
51	AB1782570	U72900MH2022PTC377109	PROTECHNOVATE PRIVATE LIMITED
52	AB1782027	U85100MH2011PTC218035	LES FLEURS ANGELIQUE PRIVATE LIMITED
53	AB1781320	U78100MH2024OPC421163	R.G.T.MANPOWER OUTSOURCING SERVICE (OPC) PRIVATE LIMITED

HARIHARA SAHOO
ROC, C-PACE
Manesar, Haryana

FORM No. STK-7
NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of Companies Act, 2013 and of following Companies

Gurgaon-122050, the 3rd February 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2024-25/1791—This is with respect to this Office Notice Nos. and application (Form STK 2) vide SRNs as mentioned. Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of following Companies have been struck off on this day 08/02/2025 from the Register of the Companies and the said Companies are dissolved:—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB1936640	U72900PN2021PTC198475	NOZOMI MERISTEM PRIVATE LIMITED
2	AB1908732	U22120PN2020PTC196743	BILLION DOLLAR INNOVATIONS PRIVATE LIMITED
3	AB1877695	U72502PN2020OPC193002	SHREE VAISHNAVI COMPUTERS (OPC) PRIVATE LIMITED
4	AB1875839	U29308PN2017FTC169695	ANTEC WIND INDIA PRIVATE LIMITED
5	AB1875645	U47714PN2023PTC220122	BOLDHIDE LEATHER EXPORT INDIA PRIVATE LIMITED
6	AB1856306	U72200PN2000PTC014524	E VYAPAR INFO SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
7	AB1852590	U74999PN2016PTC166261	SCHNEIDER ELEVATOR PRIVATE LIMITED
8	AB1841628	U66000PN2022PTC210539	R BHARTI IMF PRIVATE LIMITED
9	AB1840458	U74999PN2017OPC170735	CODENACK (OPC) PRIVATE LIMITED
10	AB1742169	U72900PN2020PTC189794	OLOID TECH PRIVATE LIMITED
11	AB1732498	U74994PN2020PTC192754	TOTAL REVOLUTION MARKETING PRIVATE LIMITED
12	AB1717654	U72900PN2015PTC157603	CONCEDGE COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED

HARIHARA SAHOO
ROC, C-PACE
Manesar, Haryana

FORM No. STK-7
NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of Companies Act, 2013 and of following Companies

Gurgaon-122050, the 3rd February 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2024-25/1792—This is with respect to this Office Notice Nos. and application (Form STK 2) vide SRNs as mentioned. Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of following Companies have been struck off on this day 08/02/2025 from the Register of the Companies and the said Companies are dissolved:—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB1979730	U72200OR2022PTC039100	TRIBOHERMES TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
2	AB1975308	U74999OR2021PTC038305	SKYWALL FINSERVE PRIVATE LIMITED
3	AB1619741	U72900OR2019PTC030386	CYBERFOLKS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED

HARIHARA SAHOO
ROC, C-PACE
Manesar, Haryana

FORM No. STK-7
NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of Companies Act, 2013 and of following Companies

Gurgaon-122050, the 3rd February 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2024-25/1793—This is with respect to this Office Notice Nos. and application (Form STK 2) vide SRNs as mentioned. Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of following Companies have been struck off on this day 08/02/2025 from the Register of the Companies and the said Companies are dissolved:—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB1947304	U74999PY2017PTC008169	PERUVIAN ENERGY PRIVATE LIMITED
2	AB1893342	U74999PY2018PTC008342	THIRUMALAI HI TECH PLASTIC PRIVATE LIMITED

HARIHARA SAHOO
ROC, C-PACE
Manesar, Haryana

FORM No. STK-7
NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of Companies Act, 2013 and of following Companies

Gurgaon-122050, the 3rd February 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2024-25/1794—This is with respect to this Office Notice Nos. and application (Form STK 2) vide SRNs as mentioned. Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of following Companies have been struck off on this day 08/02/2025 from the Register of the Companies and the said Companies are dissolved:—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB2076869	U72900CH2021PTC043827	CLOUDSTREET WEB SOLUTIONS PRIVATE LIMITED

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
2	AB1875213	U62099CH2023PTC045088	SLIGHTED IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED

HARIHARA SAHOO
ROC, C-PACE
Manesar, Haryana

FORM No. STK-7
NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of Companies Act, 2013 and of following Companies

Gurgaon-122050, the 3rd February 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2024-25/1795—This is with respect to this Office Notice Nos. and application (Form STK 2) vide SRNs as mentioned. Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of following Companies have been struck off on this day 08/02/2025 from the Register of the Companies and the said Companies are dissolved:—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB2040678	U74999RJ2021PTC074676	QCS FOOD CERT PRIVATE LIMITED
2	AB1965857	U71100RJ2023OPC089391	MANNAT CONSULTANCY INFRA (OPC) PRIVATE LIMITED
3	AB1953789	U51909RJ2021PTC073366	CORONA SOLAR TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
4	AB1942279	U28999RJ2020PTC071128	ROYAL PRIME TUBES PRIVATE LIMITED
5	AB1939514	U10795RJ2023PTC089066	KHUSHIYAN INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
6	AB1547667	U46512RJ2023PTC086907	VIAAR SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
7	AB1932698	U58203RJ2023PTC087484	ARVOX SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
8	AB1923544	U15200RJ2020OPC071246	MANMOHAN NATURAL DAIRY FARM (OPC) PRIVATE LIMITED
9	AB1914323	U74999RJ2018PTC062892	ARTHAKAUT SERVICES PRIVATE LIMITED
10	AB1913877	U85200RJ2017PTC059095	CARADORA HEALTH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
11	AB1906598	U62013RJ2023PTC089401	LOOPELICIAN TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
12	AB1864636	U65929RJ2019PTC066680	SHRI GANESHAM FOREX PRIVATE LIMITED
13	AB1820271	U01132RJ2008PTC058771	KUMAR VANIJYA PRIVATE LIMITED
14	AB1746329	U40106RJ2011PTC035492	SHINING SUN POWER (KARNATAKA) PRIVATE LIMITED

HARIHARA SAHOO
ROC, C-PACE
Manesar, Haryana

FORM No. STK-7
NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of Companies Act, 2013 and of following Companies

Gurgaon-122050, the 3rd February 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2024-25/1796—This is with respect to this Office Notice Nos. and application (Form STK 2) vide SRNs as mentioned. Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of following Companies have been struck off on this day 08/02/2025 from the Register of the Companies and the said Companies are dissolved:—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB2076369	U55209TN2022PTC149355	ORGO SPACES PRIVATE LIMITED
2	AB2061212	U74999TN2021PTC147822	TAPAMS FINSERV PRIVATE LIMITED

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
3	AB2050190	U41000TN2020PTC133611	GASMO ENVIRO SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
4	AB2029662	U70109TN2019PTC127609	PARTHO PROPERTIES PRIVATE LIMITED
5	AB1938320	U01100TN2022PTC149196	SAIKRISHNA AGRI FARM DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
6	AB1937385	U51909TN2022OPC153572	BIGIIZ CONSUMER SERVICES (OPC) PRIVATE LIMITED
7	AB1931839	U10799TN2023PTC159486	CITLIME INDUSTRIES AGRO PRIVATE LIMITED
8	AB1914247	U52292TN2024PTC170557	DAWNWAVE SHIP MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
9	AB1911436	U52242TN2023PTC160937	STARFOS LOGISTICS PRIVATE LIMITED
10	AB1869631	U70109TN2012PTC085477	DIMENSIONS PROPERTIES PRIVATE LIMITED
11	AB1865035	U24100TN2021PTC142588	THOZHUVAM PRIVATE LIMITED
12	AB1854082	U85110TN1993PTC025885	MADRAS ANDROLOGY RESEARCH CENTRE PRIVATE LIMITED
13	AB1852365	U72400TN2009PTC072773	MASYS TECHNOSOFT PRIVATE LIMITED
14	AB1837567	U52100TN2021PTC145976	TWICE TREASURED PRIVATE LIMITED
15	AB1816167	U24233TN2014PTC097508	ANDERSONS CHEMICALS PRIVATE LIMITED
16	AB1804456	U74999TN2016PTC111660	ISCISTECH TRADINGS AND DISTRIBUTIONS PRIVATE LIMITED
17	AB1652819	U28112TN2021PTC144929	BHARATH WIRON PRIVATE LIMITED
18	AB1798561	U45400TN2008PTC068903	SENSA HARMYA CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
19	AB1723318	U01403TN2007PTC065156	SUMO AGRICULTURAL OPERATIONS PRIVATE LIMITED

ARIHARA SAHOO
ROC, C-PACE
Manesar, Haryana

FORM No. STK-7
NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of Companies Act, 2013 and of following Companies

Gurgaon-122050, the 3rd February 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2024-25/1797—This is with respect to this Office Notice Nos. and application (Form STK 2) vide SRNs as mentioned. Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of following Companies have been struck off on this day 08/02/2025 from the Register of the Companies and the said Companies are dissolved:—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB2000998	U27900TZ2023PTC029392	EVOLTRO EV CHARGING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2	AB1912137	U73100TZ2022OPC039349	BOBBY MARKET RESEARCH (OPC) PRIVATE LIMITED
3	AB1907687	U17299TZ2021PTC037844	ESPEE CREATION PRIVATE LIMITED
4	AB1907184	U65990TZ2021PTC037780	SASHTI INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
5	AB1881539	U18209TZ2022PTC039307	TIGEN APPAREL PRIVATE LIMITED
6	AB1787069	U34102TZ2020PTC034091	BGB INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
7	AB1703594	U01611TZ2024PTC030308	SRSRITHAN ACRES PRIVATE LIMITED
8	AB1652821	U28999TZ2020PTC035109	ANIVARDHAN CONDUCTORS PRIVATE LIMITED

HARIHARA SAHOO
ROC, C-PACE
Manesar, Haryana

FORM No. STK-7
NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of Companies Act, 2013 and of following Companies

Gurgaon-122050, the 3rd February 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2024-25/1798—This is with respect to this Office Notice Nos. and application (Form STK 2) vide SRNs as mentioned. Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of following Companies have been struck off on this day 08/02/2025 from the Register of the Companies and the said Companies are dissolved:—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB2009359	U18209UP2022PTC170298	SUMIR FAB CREATIONS PRIVATE LIMITED
2	AB1993267	U52390UP2019PTC117879	DAVHOO ONLINE FASHION PRIVATE LIMITED
3	AB1984476	U33208UP2020PTC131102	ERKIN HEALTHCARE PRIVATE LIMITED
4	AB1972102	U33200UP2024OPC203351	SHARADUPADHYAYSS INDUSTRIES (OPC) PRIVATE LIMITED
5	AB1936284	U74999UP2021PTC157557	SPOC RETAIL PRIVATE LIMITED
6	AB1932589	U40107UP2021PTC151768	DHARINI RENEWABLES PRIVATE LIMITED
7	AB1931825	U85300UP2018PTC101357	INDU INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCE PRIVATE LIMITED
8	AB1930890	U47721UP2023PTC190663	SHANTIBEENA EXPORTS PRIVATE LIMITED
9	AB1912254	U72300UP2019OPC118334	PIHU SERVICES (OPC) PRIVATE LIMITED
10	AB1911074	U46497UP2023PTC178004	BIONEXON LIFESCIENCES PRIVATE LIMITED
11	AB1908566	U45401UP2023OPC184043	SSDN AUTOSALES (OPC) PRIVATE LIMITED
12	AB1892661	U43299UP2023PTC194690	BHR CONSULTINGS PRIVATE LIMITED
13	AB1889579	U19200UP2021PTC146718	INDCOAT OUTSOLES PRIVATE LIMITED
14	AB1875253	U72900UP2022PTC169339	FRITZ LEAGUE PRIVATE LIMITED
15	AB1846680	U31909UP2019PTC120924	ANKUG SMART TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
16	AB1841251	U74999UP2020PTC137062	SIXTH VISION MATRIX SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
17	AB1826830	U01132UP2008PTC096920	SHAKAMBHARI TEA PRIVATE LIMITED
18	AB1766121	U45201UP2021PTC153570	KRIDAY INFRAENGINEERS PRIVATE LIMITED

HARIHARA SAHOO
ROC, C-PACE
Manesar, Haryana

FORM No. STK-7
NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of Companies Act, 2013 and of following Companies

Gurgaon-122050, the 3rd February 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2024-25/1799—This is with respect to this Office Notice Nos. and application (Form STK 2) vide SRNs as mentioned. Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of following Companies have been struck off on this day 08/02/2025 from the Register of the Companies and the said Companies are dissolved:—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB2067922	U72900UR2023PTC015222	AVNI RESEARCH AND DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED
2	AB1972245	U21000UR2020PTC011723	K.S. TISSUES PRIVATE LIMITED

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
3	AB1534984	U74140UR2022PTC014897	ONCON SERVICES PRIVATE LIMITED
4	AB1935487	U93090UR2020OPC010970	ENTHRIVER ECOM (OPC) PRIVATE LIMITED
5	AB1776039	U63122UT2024PTC016745	INFRA QUAKE TECH PRIVATE LIMITED
6	AB1775311	U93190UT2023PTC016503	CODE QUASAR SOLUTIONS PRIVATE LIMITED

HARIHARA SAHOO
ROC, C-PACE
Manesar, Haryana

FORM No. STK-7
NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of Companies Act, 2013 and of following Companies

Gurgaon-122050, the 3rd February 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2024-25/1800—This is with respect to this Office Notice Nos. and application (Form STK 2) vide SRNs as mentioned. Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of following Companies have been struck off on this day 08/02/2025 from the Register of the Companies and the said Companies are dissolved:—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB2029355	U74900WB2014PTC201846	DREAMVIEW DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
2	AB1946091	U15100WB2019PTC234175	SC AQUA VITAE PRIVATE LIMITED
3	AB1931732	U74140WB2010PTC141565	GOODWARD FINANCIAL ADVISORY PRIVATE LIMITED
4	AB1915739	U72501WB2019PTC231839	TWINBEEZ NETWORK PRIVATE LIMITED
5	AB1905013	U70200WB2024PTC269332	TSEA BUSINESS & SCIENCE CENTRE PRIVATE LIMITED
6	AB1860844	U62011WB2024PTC273618	CROWNPUSH TECH PRIVATE LIMITED
7	AB1554150	U51909WB2009PTC134821	SAMMAN VANIJYA PRIVATE LIMITED
8	AB1757024	U70109WB2009PTC140409	DHAIRYA PROJECTS PRIVATE LIMITED
9	AB1742548	U63030WB2022PTC256782	AERODRIFT LOGISTICS PRIVATE LIMITED
10	AB1698878	U74999WB2018PTC225700	SWEETLAKE ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED

HARIHARA SAHOO
ROC, C-PACE
Manesar, Haryana